

आत्मानुशासन प्रवचन

प्रथम भाग

**प्रवक्ता॥अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णा
“सहजानन्द” महाराज**

**लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम्।
आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम् ॥१॥**

आत्माके अनुशासनके यत्नमें मंगलाचरण॥पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य देव ने यह आत्मानुशासन नामका ग्रन्थ लिखा है। इसमें आत्मापर अनुशासन किया है। जिस प्रकार यह आत्मा सुबोधको प्राप्त होकर सन्मार्गमिं लगे, उसी प्रकारका उपदेश इसमें दिया गया है। अर्थ-ग्रन्थके आदिमें आचार्यदेव मंगलाचरण कर रहे हैं लक्ष्मीके निवासका जो मंदिर है अर्थात् जहाँ लक्ष्मीका निवास होता है और जहाँ विलय विलीन हो गया है ऐसे वीरप्रभु को अपने हृदयमें धारण करके भव्यजीवोंके मोक्षके लिए मैं आत्मानुशासन ग्रन्थ को कहूँगा। इसमें वीरप्रभुको नमस्कार किया है। वीरका अर्थ नामकी अपेक्षा से वर्द्धमान स्वामी है और शब्दव्युत्पत्तिकी अपेक्षासे वीरका अर्थ है, जो विशिष्ट लक्ष्मीको प्रदान करे। वीरमें तीन शब्द हैं वि ई और र। ये तीनों स्वतन्त्र शब्द हैं। ‘विशिष्टां ई लक्ष्मीं राति ददाति इति वीरः।’ जो विशिष्ट लक्ष्मीको देवे उसे वीर कहते हैं। विशिष्ट लक्ष्मी है आत्माकी ज्ञानलक्ष्मी, उसकी प्राप्तिके निमित्ति हैं ये प्रभु।

सकल पदार्थमें साधारण गुणोंका दर्शन

समस्त पदार्थ सत्स्वरूपकी दृष्टिमें एक समान हैं। प्रत्येक पदार्थमें अस्तित्व, वस्तुत्व द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्व, प्रमेयत्व ये ६ गुण हुआ करते हैं। यदि कुछ है तो उसमें ये ६ बातें अवश्य हैं। जिसमें ये ६ गुण नहीं हैं वह चीज ही नहीं है। (१) अस्तित्वका अर्थ है कि जिस गुणके कारण पदार्थका अस्तित्व रहे, पदार्थमें सत्ता बनी रहे, उसका नाम अस्तित्व गुण है। जब कोई वस्तु है तो उसमें अस्तित्व आ ही गया, अस्तित्व न हो तो पदार्थ ही कैसे कहलाये? पदार्थमें अस्तित्व गुण है अर्थात् है।

अस्तित्वगुणसे सत्स्वरूप हुए अर्थमें वस्तुत्वकी झलक

जो है, है, वह यदि सबकी अपेक्षासे “है” होने लगे तो वह पदार्थ ही न रहेगा। जैसे किसी एक वस्तुको निगाहमें लेकर उसके प्रति कहा जाय। मान लो चौकी को निगाहमें ले लिया, अब

इसके बारेमें कहें कि यह चश्मा है, यह पुस्तक है, तो चौकी कहां रही फिर? जो भी है वह अपने स्वरूपसे है, परके स्वरूपसे नहीं है। देखिये मुखसे कोई शब्द बोले तो स्याद्वादको आना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि यह चश्मा है तो इसका अर्थ यह है कि चश्मेको छोड़कर बाकी जितने पदार्थ हैं वे नहीं हैं। यह जहां ‘है’ का विधान है वहां ‘नहीं’ साथमें जुड़ा हुआ है। जहां नहींका विधान है वहां है साथ जुड़ा हुआ है। जगत्‌में कोई भी ऐसा है नहीं है जो ‘नहीं है’ को छोड़कर रहे। और ऐसा भी कोई नहीं है जो है को छोड़कर रहे। विधि और निषेधका परस्परमें अविनाभाव है। बात बोलनेमें ही स्याद्वाद भरा है। भले ही कोई पुरुष दूसरी दृष्टिका व्यावहारिक उपयोग न करे, किन्तु अंतःकरणमें दूसरी दृष्टि समाई हुई है अन्यथा वह बात नहीं कर सकता है। दूसरी दृष्टि न रहे और फिर बात करे तो वह पागल पुरुषोंमें माना जाता है। प्रत्येक पदार्थ है, यह तो हुआ अस्तित्व गुण और वह पदार्थ अपने स्वरूपसे है परके स्वरूपसे नहीं है ऐसा अपने स्वरूपका उपादान और परस्वरूपका परिहार जिस गुणके कारण हो उसे कहते हैं वस्तुत्व गुण।

(३) पदार्थोंमें द्रव्यत्वगुणका दर्शन

इन समस्त पदार्थोंके ६ सामान्यगुणोंकी चर्चा चल रही है, जिनके बिना पदार्थ अपना अस्तित्व नहीं रख सकते। पदार्थमें दो गुण तो कबूल कर लिये कि वे हैं और अपने स्वरूपसे हैं, परस्वरूपसे नहीं हैं, इतने मात्र से पदार्थकी सत्ता कायम नहीं रहती। पदार्थ यदि है तो वह निरन्तर किसी न किसी रूप परिणमता ही रहेगा। ऐसा जगत्‌में कोई है नहीं है, जो है तो किन्तु परिणमन नहीं करता। भले ही समान परिणमन होने से ध्यानमें न आ पाये कि यह परिणम रहा है। जैसे कोई पुरुष १० सेर वजनकी वस्तु को हाथ पर धरे हुए १५ मिनटसे खड़ा है, न हाथ हिले, न सिर हिले, ज्योंका त्यों खड़ा है तो उसे देखकर सामान्य लोग यह कहेंगे कि यह कुछ कर ही नहीं रहा है, ज्यों का त्यों खड़ा है। पर आपको क्या मालूम है, वह प्रति सेकेण्ड बड़ा भारी काम कर रहा है, वह अपना नया-नया बल लगा रहा है, नहीं तो चीज गिर जाती। समान परिणमन है, लोगोंकी दृष्टिमें नहीं आ रहा है, किन्तु परिणमन निरन्तर हो रहा है। यों ही प्रत्येक पदार्थ निरन्तर परिणमता रहता है। ऐसे परिणमनशीलता का गुण होना, यही द्रव्यत्व गुण है।

(४) पदार्थोंमें अगुरुलघुत्व गुणकी अनिवार्यता

अब पदार्थमें तीन गुण तो स्वीकार कर लिये, लेकिन यह द्रव्यत्वगुण कभी उद्घटता करने लगे कि मैं तो परिणमनका विरद रख रहा हूँ, परिणमूँगा, चाहे अपने रूप परिणमूँ, चाहे अन्य किसी वस्तुरूप परिणम जाऊँ, मुझे तो परिणमनका हुक्म मिल गया है। अब इस चर्चामें वस्तुस्वरूपके प्रसंगमें यदि ऐसा होने लगे कि कोई पदार्थ जैसा चाहे किसी दूसरे रूप परिणमने लगे तो कितना अंधेर हो जाय? चीज ही मिट जाय। यदि यह मैं इस चौकीरूप परिणम जाऊँ तो इसका अर्थ है कि मैं नहीं रहा, अब चौकी बन गया। ऐसा कभी देखा है? तो यह भी एक नियंत्रण है प्रत्येक

पदार्थमें कि वह अपने स्वभावरूप परिणमेगा, किसी परवस्तुके स्वभावरूप नहीं परिणमेगा। इस विशेषताको कहते हैं अगुरुलघुत्वगुण। अ मायने नहीं गुरु मायने वजनदार, लघुमायने हल्का, पदार्थ न वजनदार हो जाय, न हल्का हो जाय। वजनदार कैसे होगा? पदार्थ दूसरेका परिणमन भी अपने प्रदेशमें रख ले तो वजनदार हो जायेगा। हल्का कैसे होगा, पदार्थ अपना परिणमन अपने से बाहर करे, दूसरे पदार्थमें रख दे तो वह हल्का हो जायगा। कुछ ऐसा होता नहीं है। पदार्थ तो अपने ही स्वरूपसे निरन्तर परिणमता रहता है।

(५, ६) प्रदेशवत्व और प्रमेयत्व गुणका दर्शन

यों चार गुण सब सत् पदार्थोंमें सामान्यरूपसे हैं। इतनी बात कहने पर भी कुछ स्पष्ट ज्ञात नहीं होता है। कैसे स्पष्ट ज्ञात हो? ये चार बातें जिसमें बतायी जावें उसका आकार, प्रदेश, आधार जब तक दृष्टिमें न हो तब तक इन चार बातोंका क्या अर्थ हुआ? प्रत्येक वस्तु प्रदेशात्मक है। जिसमें ये सर्वगुण पाये जाते हैं, इस ही विशेषताको कहते हैं प्रदेशवत्व इतना सब कुछ हो जाने पर भी यदि पदार्थ किसीके द्वारा भी ज्ञेय नहीं है तो पदार्थका क्या उठता है? यों प्रमेयत्व गुण भी समस्त पदार्थोंमें विद्यमान है।

आत्माका असाधारण गुण

इन ६ गुणोंसे तो मेरी सबसे समानता है। अब मुझ आत्मामें कौनसी वह विशेषता है जिसके कारण मैं अन्य समस्त पदार्थोंसे जुदा ज्ञानमें आ सकूँ? वह विशिष्ट गुण है ज्ञान। ज्ञानगुण एक ऐसा है जो आत्माको छोड़ कर अन्य किसी पदार्थमें नहीं रहता। तब यह ज्ञान एक विशिष्ट लक्ष्मी हुआ। लक्ष्मीका अर्थ चार हाथ, दो पैरों वाली कोई कल्पित स्त्री नहीं है। लक्ष्मी, लक्ष्य, लक्षण ये तीन एकार्थक शब्द हैं। लक्षणका नाम लक्ष्मी है, उसका जो विशिष्ट लक्षण है वही मेरी विशिष्ट लक्ष्मी है, वह लक्ष्मी है ज्ञान, इस ज्ञानतत्व को जो प्राप्त करता है उसे कहते हैं वीर। वि ई र ये तीन शब्द मिलकर वीर बना है। ऐसा वीर ज्ञानपुञ्ज आनन्दनिधान प्रभु होता है। वीर प्रभुको हृदयमें धारण करके इस ग्रन्थको कहनेकी प्रतिज्ञा आचार्य देवने की है।

प्रभुके निर्णयसे प्रभुताकी प्राप्तिका उत्साह॥आत्माके अनुशासनकी बात तब ही विशिष्ट बनती है जब प्रभुको हृदयमें धारण किया जाय। हम भली बातें तो करें और भली बात यह हो सकती है या अमुकने की है, ऐसा कुछ भी वित्तमें न रहे तो भक्तिकी बात करने में विघ्न आ जायेगा। किसी भी सदाचारका पालन हम भली भाँति तब कर पाते हैं जब हमारे हृदय में यह निर्णय हो कि ऐसे सदाचारमें कुशल व्यक्ति भी होते हैं, जिनका ज्ञान करके हममें यह उत्साह जगता है कि हम भी सदाचारका पालन कर सकें। प्रभुको हृदयमें धारण करनेका प्रयोजन यह है कि प्रभुकी प्रभुता पहिचान कर अपनी प्रभुताके लिए उत्साह जगे। यों वीर प्रभुको हृदयमें धारण करके अनुशासन कहनेका संकल्प किया है।

प्रभुकी लक्ष्मीनिवासनिलयता व विलीनविलयता॥वीर प्रभु लक्ष्मीके निवासके घर हैं। जिसमें स्वयं ज्ञानलक्ष्मीका निर्बाध निवास हो रहा हो वही प्रभु तो लक्ष्मीको प्रदान कर सकता है। ये प्रभु स्वयं इस ज्ञानलक्ष्मीके घर हैं, इन्होंने विलयको विलीन कर दिया है अर्थात् विनाशका विनाश कर दिया है। विलय मायने पापके हैं। पाप जहां विलीन हो गया है, नष्ट हो गया है ऐसे निष्पाप ज्ञानके पुज वीर प्रभुको हृदयमें धारण करके आत्मानुशासन कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है। आत्माका अनुशासन अर्थात् आत्माके स्वरूपके अनुकूल शासन। शासनका अर्थ साधारणतया शासन है और अनुशासनका अर्थ प्रयोजन की अनुकूलतापूर्वक शासन करना है। आत्माका जो स्वभाव है उस स्वभावके विकासके अनुरूप जो आत्मापर शासन होता है, उसे अनुशासन कहते हैं। आत्मा है ज्ञानानन्दस्वरूप। इस ज्ञानका जैसे परिपूर्ण विकास हो और इस आनन्दका जिस प्रकार पूर्ण विकास हो, उस प्रकारसे आत्माको लगानेका उपदेश करना, सो आत्मानुशासन है।

ग्रन्थ निर्माणका प्रयोजन॥यह आत्मानुशासन ग्रन्थ जीवोंके मोक्षके लिए कहा जायेगा। आत्मानुशासनका प्रयोजन संसारके समस्त संकटोंसे मुक्त हो जाना है। जब तक प्रयोजन चित्तमें नहीं समाता, तब तक अनुशासन नहीं बन सकता। कोई पुरुष किसी नदीमें नावको चलाये, पहिले पूरबकी ओर चलाये, फिर पश्चिमको चलाये, फिर दक्षिणको चलाये, फिर उत्तरको चलाये। यों दिशाएँ बदल-बदलकर नावको खेवे तो उसका श्रम पागलपनसे परिपूर्ण है। नाव तो जहाँ की तहाँ ही रही। नाव चलानेका प्रयोजन तो एक निर्धारित किनारे पर पहुँच जाना है। इसी प्रकार जो भी धर्म किया जाता है, उपदेश ग्रहण किया जाता है, उन सबका प्रयोजन अभीष्ट होना चाहिए। जगत्‌के सभी जीव दुःखोंसे डरते हैं और सुखको चाहते हैं। इसलिए प्रयोजन तो दुःखसे मुक्त करा देनेका ही होना चाहिए।

ग्रन्थकर्त्ताका आशय॥आचार्यदेव कहनेका प्रयोजन बताकर यह भी ध्वनित करते हैं कि हे श्रोताजनों! मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ संसारके संकटोंसे छुटकारा पानेके लिए, छुटकारा पानेकी बात कह रहा हूँ। मुझे न मानका प्रयोजन है और न कुछ लोभादिकका प्रयोजन है। कहीं श्रोताजन यह कल्पना न करलें कि अपनी मान बढ़ाईके लिए यह ग्रन्थ रचा जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है। यदि वे ऐसा समझेंगे तो श्रोतावोंको कुछ लाभ न होगा और यह उद्यम श्रोताजनों के लिए ही किया जा रहा है कि वे अभी इस तत्त्वको परख लें और अपना हित साध लें। कहीं श्रोताजन यह न भ्रम कर जायें कि किसी लोभके खातिर यह ग्रन्थ रचा जा रहा है। मेरे किसी प्रकारके कषायका प्रयोजन नहीं है, बल्कि सब जीवोंमें प्रभुताका स्वरूप निरखकर उनकी प्रभुताके अनुरागसे चूँकि मुझे मेरी प्रभुताका मेरेमें दर्शन हुआ है, सो मुझे अनुराग हो रहा है कि यह प्रभुता सबके प्रकट हो, क्यों व्यर्थमें भ्रमवश अपने को बरबाद किये जा रहा है यह प्राणी? एक ज्ञानसाध्य ही तो बात है कल्याण करनेकी। इतनी सुगम स्वाधीन परमहितकी बात प्रमादवश नहीं की जा रही है, इसका मुझे खेद है और प्रभुतास्वरूपका अनुराग है, अतएव मैं इस ग्रन्थको कह रहा हूँ।

शक्यानुष्ठान व क्रमिक उपदेशका आदर॥उपदेश वह दिया जाता है जो किया जा सकता है। जो नहीं किया जा सकता, ऐसी बातका उपदेश करना यह बेतुकी बात है। उपदेशमें वह कहा जाता है जो एक प्रासंगिक सिलसिलेवार हो। जो सिलसिलेवार नहीं है, जो कभी कुछ कहे, कभी कुछ कहे, चाहे कुछ अच्छी भी बात कह जाय, लेकिन ऐसे अटपट बेसिलसिलेका निरूपण विवेकी जनोंके द्वारा ग्राह्य नहीं होता है। जैसे किसी को उपदेश दिया जाय कि देखो जिन्दा साँपके फनमें मस्तकमें से एक मणि निकलती है उस मणिको निकाल ले आवो तो तुम्हारे सारे रोग दूर हो जायेंगे। कोई उस मणिको निकालने लगे तो उसका शरीर ही न रहेगा, साँप डस लेगा और वह खत्म हो जायेगा। अरे साँपकी मणि लाना अशक्य है। इस प्रकारका अशक्य उपदेश देना विवेकी जन पसंद नहीं करते हैं। यों ही अटपट बेसिलसिलेकी बात कहना, यह भी ज्ञानियोंकी गोष्ठीका तत्त्व नहीं रहा। जैसे थोड़ी देर में कोई कहे कौवाके दाँत हैं या और अटपट बातें कोई करे तो वह पागलपन जैसी बात लगेगी। इस प्रकारकी बातें विवेकियों को ग्राह्य नहीं होती हैं।

अभीष्ट हितकर उपदेशसे आत्मानुशासन सम्भव॥यों ही कोई अनिष्ट बात कहने लगे उपदेशमें जिससे खेद हो, ऐसी बातका भी उपदेश विवेकीजन नहीं देते हैं। इस ग्रन्थमें ये समस्त दोष नहीं हैं, सिलसिलेसे जैसे वैराग्य पुष्ट हो, आत्मामें ज्ञानप्रकाश बढ़े, वह वर्णन किया जायगा। शक्यानुष्ठान बात ही इष्ट बन जाय, आत्माका हित करे, ऐसे तत्त्वका ही उपदेश इसमें कहा जायगा। इस कारण यह समस्त उपदेश वास्तवमें आत्मानुशासन है, जिससे आत्मा अपने आपमें अपने हितको पानेके लिए अनुरूप शासित हो जाय, ऐसा यह उपदेश आत्मानुशासन है।

ग्रन्थरचनाका निमित्त॥गुणभद्र आचार्यने अपने धर्म भाई लोकसेन मुनिको जो कि कर्मोदयवश विषयोंसे मलिन हुआ था, उसे सम्बोधित करने के लिए यह ग्रन्थ बनाया है अथवा उनको सम्बोधित करने के निमित्तसे सर्व जीवोंके उपकारके लिए यह ग्रन्थ बनाया है। ग्रन्थ बनानेके पूर्व इष्टदेवको जो नमस्कार किया जाता है वह निर्विघ्न कार्यकी समाप्तिके लिए किया जाता है अथवा इसके लिए नहीं। अच्छी बात कहने लगे तो वह तो स्वयं समस्त मंगलाचरण है। यह तो अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है और यह एक प्रयत्न श्रोताजनोंके भले के लिए कहा जा रहा है ना, सो श्रोताजनोंको कुछ प्रामाणिकता आ जाय, इसके लिए मूल देवका वंदन किया जाता है, जिससे श्रोता भी जानें कि यह प्रभुकी परम्परासे चला आया हुआ प्रतिपादन है। यों मंगलाचरणमें वीर प्रभुका वंदन करके आत्मानुशासन ग्रन्थ कहने की प्रतिज्ञा की है।

दुःखाद्विभेषि नितरामभिवाञ्छसि सुखमतोऽहमप्यात्मन्।

दुःखापहारि सुखकरमनुशास्मि तवानुमतमेव ॥२॥

अभीष्ट वक्तव्यका संकल्प॥ग्रन्थ प्रारम्भमें गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि हे आत्मन्! तू दुःखोंसे निरन्तर डरता है और सुखोंको चाहा करता है। सो मैं भी दुःखोंको दूर करने वाली और

सुखको उत्पन्न करने वाली ही बात कहूँगा, जो कि तेरे अनुकूल ही पड़ेगी। तू चाहता भी यही है कि दुःख दूर हों और सुख उत्पन्न हों। तो इस ग्रन्थमें वही बात कही जायगी जो दुःखोंको दूर करे और सुखको उत्पन्न करे। ऐसा भय न लाना कि पता नहीं यह गुरु सुखसे छुटाकर कष्टका साधन बतावेंगे। जैसे कि आजकल जो दूसरोंको नियम लिवानेपर ही उतारू रहा करते हैं, ऐसे किन्हीं त्यागी साधुजनोंको देखकर श्रावक पहिलेसे ही भय करने लगते हैं। उनके सामने जानेका भी साहस नहीं होता है। आचार्य महाराज यह कह रहे हैं कि जो तुझे पसन्द है, तेरे अनुकूल है वही उपदेश इसमें कहा जायगा। तू भय मत कर और ऐसे शास्त्रका अनादर मत कर, इसमें भयकी रंच भी बात न आयेगी। तेरा अभिप्राय दुःख दूर करनेका है और सुख पानेका है। उसही प्रयोजनको पुष्ट करने वाला यह उपदेश होगा।

वक्तव्यकी अभीष्टता॥दुःख नाम उसका है जो इन्द्रियोंको असुहावना लगे। ‘दु’ नाम है असुहावना लगनेका और ‘ख’ नाम है इन्द्रियका। जो इन्द्रियको असुहावना लगे उसे दुःख कहते हैं और सुख नाम यद्यपि इन्द्रिय को भला लगनेका है, सो सुखमें यह जगत्का प्राणी साता समझता है, किन्तु वास्तवमें सुखमें भी आकुलता है। सुखकी इच्छा तो बताई है आनन्दकी समतासे। सुखसे भी परे जो आनन्ददायक तत्त्व है उस तत्त्वकी बातको कहेंगे। यहां कोई यह संदेह करे कि घरका रहना और विषयोंका साधना इनको तजकर उपदेशमें जो कुछ भी वर्णन आयेगा, वह तो कुछ कटु होगा ही ऐसे संदेह वाले शिष्यका भय मिटानेके लिए आचार्यदेव कह रहे हैं।

यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाकमधुरं तदात्वं कटु किञ्चित्।

त्वं तस्मान्मा भैष्णीर्यथातुरो भेषजादुग्रात् ॥३॥

अभीष्टताके प्रति भयनिवारण॥यद्यपि इस उपदेशमें कदाचित् ऐसा भी मालूम पड़े कि यह वर्तमानमें ऐसा कटु लग रहा है, लेकिन इसका भय न करना, क्योंकि इसका फल मधुर होगा। जैसे किसी रोगकी औषधिमें कोई औषधि कड़वी भी हो तो रोगी उस कड़वी औषधि को भी पी लेता है, क्योंकि उस औषधिका परिणाम मधुर निकलेगा। इसी प्रकार इस उपदेशमें कुछ कटुता भी मालूम पड़े लेकिन इसका विपाक बड़ा मधुर है। उससे तू रंच भी भय मत कर।

जो चतुर रोगी होता है वह कड़वी औषधि को भी ‘आगे आराम होगा’ ऐसे भावके वश ग्रहण कर लेता है, डरता नहीं है। ऐसे ही तू स्याना बन और इस शास्त्रमें कोई उपदेश असुहावना भी लगे तो भी उससे सुख होगा, आनन्ददशा होगी, ऐसा जानकर रंच भी मत डर। आचार्यदेवने एक आश्वासन दिया है कि इस ग्रन्थमें कहीं भी कटु लगने वाली बात न आयेगी। इस ग्रन्थका उपदेश इतना मनोरम और हितकारी है जैसे कि मानों माता बच्चेको दवा बतासेमें रखकर खिला देती है। उस बच्चे को दवा खानेमें रंच भी कष्ट नहीं मालूम होता और उसके फलमें वह आरोग्यता को प्राप्त कर लेता है। इस ही प्रकार आचार्यदेव बड़े प्रिय हितकारी शब्दोंमें उपदेश देंगे, जो सुनते समय भी भला लगेगा और अगले समयमें भी वह हित पायेगा।

आचार्यदेव की अपार करुणा॥यहाँ आचार्यदेव कितनी करुणा जाहिर कर रहे हैं, कैसी हार्दिक भावनासे मुमुक्षुको समझा रहे हैं? उनकी दयाका कौन मूल्य चुका सकता है? इस संसारमें भ्रमण करते हुए इस जीवको सुयोगवश दुर्लभ मनुष्यदेह मिला है। ऋषिसंतोंके उपदेश सुननेका अवसर मिला है, इन उपदेशोंसे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञानके अनुभवसे जिसके निरूपम आनन्द प्रकट होता है उससे पूछो कि तुम गुरुजनोंके उपकार का बदला चुकानेकी सामर्थ्य रखते हो? तो गुरुजनोंका ऐहसान चुकानेमें कोई समर्थ नहीं है। जो संकटोंसे सदाके लिए छुटकारा पानेके उपायमें लगा दे और यह छुटकारा पा ले, उनके इस उपकारका ऋण किन प्रयोगोंसे चुकाया जा सकता है?

मिथ्या आशयके आग्रहमें उपदेशलाभका अभाव॥जैसे बावले पुरुष को हितकारी भी चीज दो तो उसे ज्ञान नहीं है। इसलिए वह उस चीजको फेंक देता है, ऐसे ही इस मोहमत्त संसारी जीवको दुर्लभ उपदेश साधन भी मिला है, फिर भी यह जीव अज्ञानवश उसकी उपेक्षा कर जाता है। यह प्राणी तो अपने इसही मोह ममत्वमें रंगा पगा हुआ है। इसे सुबुद्धि नहीं जगती कि मैं समस्त परसे विविक्त ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र निजप्रभुकी उपासना तो करूँ, मैं अपने आपको सही तो पहिचानता रहूँ। यथार्थ ज्ञान ही समस्त क्लेशोंसे छुटकारा देनेका उपाय है। सम्यग्ज्ञानके बिना हम आपको कभी सन्तोष हो ही नहीं सकता। ये अध्युव पदार्थ जो अहितरूप हैं, भिन्न हैं, जिनका कुछ भी परिणमन अपने आधीन नहीं है ऐसे परपदार्थोंका आग्रह करना इस मोही जीवकी एक आदत पड़ गयी है। जो दुराग्रह करेगा उसको नियमसे मुँहकी खानी पड़ेगी। जो बात सम्भव नहीं है उसकी हठ कर लेना कैसे शान्तिका कारण बन सकता है? चीज तो अपनी जगह है और यहाँ मान्यता कुछ बनायी जा रही है तो उसके कैसे सुख रह सकता है?

अनहोनीको होनी करनेके दुराग्रहमें क्लेश॥कोई बच्चा हाथी जैसे जानवरको देखकर यह हठ करे कि मुझे यह मिल जाय। प्रथम तो हाथीका मिलना रखना सबके वशकी बात नहीं है और कोई मिल भी जाय तो हाथीका संरक्षण कितना कठिन है? खैर, हाथी वालेको बुलाकर बाप खड़ा करादे हाथीको तो उससे भी यह बालक सन्तोष न करे और यह हठ करने लगे कि मेरे तो घरमें बांध दो। खैर, कोई बाड़ा हो वहां खड़ा करा दिया जाय। इसके बाद बालक यह कहे कि इसे तो मेरी जेबमें रख दो, तो बतावो अब इस इच्छाकी पूर्ति कैसे की जा सकती है? क्या इतना बड़ा जानवर जेबमें रखना जा सकता है? अनहोनी बातकी हठ करने वाला बालक कैसे सुखी हो, ऐसे ही अनहोनी बातका हठ करने वाला यह मोही मानव कैसे सुखी हो? मेरा घर तो ऐसा ही बनना चाहिए, मेरी सम्पदा इतनी ही बढ़ जानी चाहिए, मेरे घरके प्रिय लोग कभी न गुजरें, मेरे ये विषयसुखके साधन निरन्तर बने रहें, यह सारी हठ अनहोनी बातोंकी की जा रही है। अनहोनी बातकी हठमें कभी आनन्दका मार्ग नहीं मिल सकता है।

क्लेशका आमन्त्रण॥यह जीव स्वभावसे आनन्दमय है, इसको रंच भी क्लेश नहीं है। जो वस्तु जैसी है उसका उस प्रकार ज्ञान करलें, स्वरूप भी जैसा है उसका यथार्थज्ञान करलें, फिर

कष्टका कोई नाम ही नहीं रहा। कष्ट तो केवल भ्रममें है। जगत्‌के सभी जीव एकस्वरूपके हैं और अपने अपने उपार्जित कर्मोंके प्रेरे हुए हैं। मुझसे सभी अत्यन्त भिन्न हैं, लेकिन उन अनन्त जीवोंमें से दो-चार जीवोंपर ‘यह मेरा है’ ऐसी दृष्टि डाली जाय और उनमें मोह बसा लिया जाय तो यह अनहोनी बातके करनेका यत्न है या नहीं? अनहोनी कभी होने के रूपमें आ नहीं सकती।

पदार्थमें भावाभावचतुष्टयरूपता॥जिस पदार्थमें जिस प्रकारके परिणमनकी योग्यता है उस पदार्थमें उस ही प्रकारका परिणमन हो सकता है, यह है पदार्थकी भावभावरूपता। जिस पदार्थमें जिस रूप परिणमने की योग्यता ही नहीं है जैसे कि जीवमें रूप आदिक स्वरूप परिणमने की योग्यता नहीं है अथवा पुद्गलमें जाननेकी योग्यता ही नहीं है, तो अपने स्वभावके विपरीत परिणमनका अभाव बना रहना, यह है वस्तुकी अभावभावरूपता। वस्तुमें जो बात हो सकेगी उस बातका हो जाना, यह है भावभावरूपता। वस्तुमें वर्तमानमें जो परिणाम है उत्तरक्षणमें उस परिणमनका अभाव हो जाना, यह है भावभावरूपता। जो परिणमन निकट भविष्यमें होगा किन्तु वर्तमानमें नहीं है वह परिणमन त्रिकाल हो नहीं सकता उसका त्रिकाल भी न होना, यह है अभावभावरूपता। ऐसा यह पदार्थ स्वयं अपने स्वरूपसत्त्व के कारण मजबूत है। उसे कोई छेदभेद नहीं सकता। किसी पदार्थकी कोई सत्ता मिटानेमें समर्थ नहीं है। मैं स्वयं सत् हूँ, ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, सबसे न्यारा हूँ, देह तकसे भी जुदा हूँ, मेरा स्वभाव ही मेरा है, वह ही मेरे साथ रह सकता है, अन्य किसीसे मेरा साथ नहीं है ऐसा यह मैं आनन्दमय स्वतन्त्र हूँ, सर्व कष्टोंसे परे हूँ। क्यों मोह करनेकी उद्धण्डताकी जाय इसका फल कौन भोगेगा? जो मोह करेगा वही कष्ट भोगेगा, दूसरा कोई कष्ट नहीं भोग सकता।

ममत्वमें रुदनके अनिवारणका प्रतिबोधन॥एक साधु महाराज जंगलमें राजाको मिले। गर्मीके दिन थे, नीचे धूप, ऊपर धूप। राजाको दया आयी। राजा बोला, महाराज! आपके लिए हम एक छतरी देना चाहते हैं ताकि आपके ऊपरकी धूप बच जाय। साधुने कहा अच्छी बात। लेकिन छाते से ऊपरकी धूप तो बच जायेगी, किन्तु नीचेकी धूप कैसे बचेगी? तो राजाने कहा महाराज! हम रेशमके जूते बनवा देंगे। ठीक है पर सारा शरीर नंगा रहेगा तो धूपकी लपट कैसे बचेगी? ..तो महाराज कपड़े बनवा देंगे। अच्छा राजन् ठीक है, पर यह तो बतावो कि अच्छे कपड़े पहिन कर पैदल कैसे जायेंगे? महाराज! एक मोटर ला देंगे, उसका खर्च कैसे चलेगा? उसके लिए ५ गाँव लगाए देते हैं। ठीक है राजन्! पर यह तो बतावो कि खानेकी फिर कौन पूछेगा? फिर तो मुझे कोई तिष्ठ-तिष्ठ न कहेगा। तो महाराज आपकी शादी करा देंगे। वह स्त्री रोटी बनाया करेगी, इसके लिए ३ गाँव और लगा लीजिए। ठीक है पर एक बात और पूछना चाहते हैं कि बच्चे तो होंगे ही और उनमें से कोई बच्चा गुजर जायगा तो फिर कौन रोवेगा? तो राजा बोला कि रोना तो आपको ही पड़ेगा। हम लोग न रो सकेंगे। जिसको ममता है रोवेगा वही। चाहे व्यवहारमें समझाने वाले अनेक आ जायें, लेकिन कष्ट वही भोगेगा जिसका ममत्व परिणाम है।

ज्ञानगति॥यह जीव कैसी अमित प्रभुताका स्वरूप वाला है, किसी प्रकारकी इस आत्मामें कमी

नहीं है, लेकिन वर्थके मोहपरिणाममें भ्रम बना लिया और किसीको अपना मान लिया, बाहरी चीजोंसे अपना बड़प्पन समझ लिया यह वर्थका काम इस जीवको परेशान किए हुए है। भीतरमें ज्ञानका उजाला न हो तो यह कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता है, और ज्ञान ऐसी चीज है कि उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। कोई यह जानें कि हम गृहस्थी हैं, गृहस्थके ऐसा ज्ञान नहीं बन सकता जो पदार्थोंको ज्योंका त्यों मान ले ऐसी रुकावट गृहस्थीकी परिस्थिति नहीं कर सकती है। ज्ञान तो ज्ञान द्वारा ज्ञानका काम करेगा ही। चाहे कोई किसी स्थितिमें रहे, जो ज्ञान करना चाहे उसे ज्ञान हो सकता है। जो ज्ञान न करना चाहे वह निर्गन्ध दिगम्बरका भेष भी बनाले तो भी उसे ज्ञान नहीं हो सकता है।

आत्मलाभमें कठिनाईका अभाव॥भैया! वस्तुके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान कर लेना कोई कठिन बात नहीं है, कठिन बात तो परकी व्यवस्था कर लेना है। सम्पत्ति संचित करना कठिन है, दूसरोंको मना लेना कठिन है, किन्तु आत्मकल्याण कर लेना कठिन नहीं है। कठिन तो यह है कि सब परवस्तुओंकी घटनाएँ हम करलें। परवस्तुओंमें कुछ बात कर सकना अनहोनी बात है। अनहोनी बात कठिन होती है। मैं विकल्प मिटाकर अपने आपमें अपने स्वरूपको निहारता रहूँ इसमें कौनसी कठिनाई है? दस पैसे पैदा करूँ इसमें कठिनाई है, क्योंकि किसीकी जेबसे तो निकाले नहीं जा सकते हैं। घरके लोग प्रसन्न रहें यह बात कठिन है, उन सबमें कषाय है। वे अपनी कषायके अनुकूल परिणमेंगे। शरीर मेरा बलिष्ट रहे, कभी मैं वृद्ध न होऊँ, यह बात होना कठिन है, क्योंकि शरीर भी परवस्तु है, उस पर मेरा कैसे अधिकार चल सकता है?

आत्मलाभसे क्लेशकाक्षय॥एक आत्माको छोड़कर अन्य सब बातें कर लेना यह एक अनहोनी बात है, कठिन बात है। किन्तु मैं परका मोह न रखकर केवलज्ञानस्वरूप अपने आपको निहारता रहूँ, इस सहज आनन्द में ही मग्न रहूँ तो इसे कौन मेट सकता है? दूसरा कोई बाधक पुरुष हो, उसे रस्सीसे भी कस लो तो उसकी ज्ञानदृष्टि को क्या कोई छीन सकता है? कोई राज्यकर्मचारी कारागारके बन्धन में भी डाल दे और मैं वहाँ बंधन रहित ज्ञानस्वरूपका स्मरण करूँ तो मेरे लिए कहाँ कैद है, कहाँ बन्धन है? मैं अपनी स्वरूपभावनासे चिंगकर बाह्यपदार्थोंमें कुछ करनेकी कल्पना करता हूँ, इसका सारा क्लेश है। क्लेश आता है तो आने दो, एक निजी ज्ञानस्वरूपको सम्भाल लो तो वे सारे क्लेशर्झिधन इस ज्ञानभावनाकी अग्नि से क्षणभरमें भस्म हो जायेंगे। क्लेश कहीं भी नहीं है। क्लेशरहित अपने ज्ञानस्वरूपको सम्भाल लो फिर कोई क्लेशकी बात नहीं है। इस ग्रन्थमें उसही आनन्दधामकी बातका उपदेश किया जायगा, जो सुनते समय भी कटु न लगे और धारण करते समय भी कटु न लगे। हे आत्मन्! तू इस उपदेशसे भय न कर।

जना घनाश्च वाचालाः सुलभाः स्युर्वृथोत्थिताः ।

दुर्लभा ह्यन्तराद्रास्ते जगदभ्युज्जिहीर्षवः ॥४॥

प्रासङ्गिक सन्देहनिराकरण॥पूर्व के दो श्लोकोंमें गुणभद्र स्वामीने यह बताया था कि हे

आत्मन्! देख तू भय मत करना। जो तू चाहता है वह बात मैं कहूँगा। तुम दुःखसे डरते हो और सुख चाहते हो, इस कारण मैं ऐसी ही बात कहूँगा जो दुःखको दूर करे और सुखको उत्पन्न करे किन्तु सम्भव है कदाचित् उस प्रतिपादनमें उपदेशमें कोई बात कुछ कष्टदायक मालूम पड़े, कटु मालूम पड़े, कुछ करने में कठोर मालूम पड़े तो भी तुम डरना नहीं, उसका फल मीठी मिलेगा। जैसे रोगीको औषधि दी जाती है और कदाचित् कड़वी लगे तो भी वह रुचिपूर्वक पीता है, क्योंकि उसकी समझमें है कि इस औषधिका विपाक मधुर ही होगा। यहाँ शक हो सकता है कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो महाराज! पर कहने वाले लोग तो बहुत हैं। बहुत आते हैं, लिख जाते हैं। हम कैसे समझें कि आप बात बिल्कुल सही और हमारे हितकी ही कहेंगे। इस सदेहके उत्तरमें मानों यह श्लोक कहा गया है। इस श्लोकमें बताया है कि ऐसे मनुष्य और ऐसे मेघ बहुत सुलभ हैं जो वाचाल हैं, बोलते बहुत हैं, किन्तु जो भीतरमें गीले हैं और लोगोंके उद्धार करनेकी भावना वाले हों या लोकोद्धारका जिनका विरद हो ऐसे मनुष्य और ऐसे मेघ दुर्लभ हैं।

मेघके दृष्टान्तपूर्वक उपकारी उपदेष्टाकी दुर्लभता प्रतिपादन॥जैसे मेघ गरजने वाले बहुत होते हैं और व्यर्थ ही उठे हुए होते हैं, उनसे बूँदें नहीं टपकती हैं और व्यर्थ ही लोगोंको भय पैदा कराकर नुकसान पैदा कर जाते हैं। कहीं बाहर जाना हो तो भाई समय खराब है, देखो मेघ कैसे उठे हुए हैं और कैसा गरज रहे हैं। उसका बाहर जाना रोक दिया उन मेघोंने, उसका नुकसान किया, और जो बरसनेका सद्वा लगाते हैं उनका भी ये गरजने वाले मेघ नुकसान करते हैं। मेघोंकी शक्ति सूरत निरखकर सद्वा लगाने वाले लोग सद्वा लगाकर नुकसानमें आते हैं और व्यर्थके गरजने वाले मेघ आशावान् किसानोंकी आशापर कुठाराघात कर देते हैं। इन मेघों से क्या फायदा है जो व्यर्थ ही उठे हैं और गरज रहे हैं, ऐसे मेघ बहुत मिलते हैं। जितने दिन मेघ उठे हों उतने दिन कभी पानी बरसा है क्या? मेघ उठे उसका टवाँ भाग भी यदि कदाचित् पानी बरसता है, ऐसे मेघ बहुत मिलते हैं, किन्तु जो मेघ अपने अन्तरमें भी गीले हैं अर्थात् जिनमें पानी भरा हो, जिनसे पानी बरसता हो और लोगोंका उद्धार कर देने वाले हों ऐसे मेघ दुर्लभ हैं। ऐसे ही समझें कि बोलने वाले बहुत आते हैं, लिख जाते हैं वाचाल और व्यर्थ ही अपनी महत्तता प्रकट करने के लिए उद्धृत भी हैं, बहुत आते हैं ठीक है किन्तु ऐसे व्यक्ति दुर्लभ हैं जो अपने अंतरंगमें भीगे हुए हों और अपनी वाणीसे जगत्के उद्धार करनेका भी यत्न करते हों।

श्रोताओंके उपकारके लिये अपार करुणाका आशय॥हितकारक वक्ताकी दुर्लभता कहनेमें आचार्य महाराजका क्या आशय है? इस आशयको ग्रहण करना विवेकी पुरुषका ही काम है। इस श्लोकमें यह नहीं झलक रहा है कि ये आचार्य वक्ता श्रोताओंके हृदयमें यह बात बैठाल रहे हैं कि ऐसे वाचाल सुलभ होते तो हैं किन्तु हमें उन जैसा नहीं समझना। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं जो जगत्का उद्धार कर सकते हों और खुद भी ज्ञान वैराग्यसे वासित हों। दुर्लभ हैं, पर मिलते हैं। देखो आचार्य महाराज जीवोंपर दया करके और अपने दिलको भी मसोस करके अपने

दिलकी बातके भी विरुद्ध जहाँ नप्रता बताना चाहिये, अपने आपकी लघुता बतानी चाहिये। वहाँ आचार्य यह कह दें कि यह भी संदेह न करना कि उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, हम क्या सुनें? और जो यथार्थ उपदेश दें, यथार्थमें भीगे हुए हों, जगत्‌का उद्धार कर सकें, उनमें समझना कि इतनी बात दिल मसोस करके कही गयी होगी। कितनी अपार दया है आचार्यदेवमें कि हमारी बात से श्रोतावोंका उपकार हो, इससे इतनी बात अपने मुखसे ही कह देते हैं। यह बड़ी करुणा भरी बात है। लोग तो यह कहते होंगे कि अपने मुख ऐसी बात कहना यह तो अच्छा नहीं।

खुद बीती बातसे ग्रन्थप्रणेताके आशयका अनुमान॥ कुछ वर्षोंसे चातुर्मासिके दिनोंमें हम एक क्लास लगाते रहे हैं और विधिवत् पढ़ाते रहे हैं और पढ़ने वाले सज्जन तीन माहमें तीन-चार बार बराबर पढ़ जाते हैं। तो प्रथम १०-१५ दिन पढ़नेमें जब मन नहीं लगता है पढ़ने वालोंका तो उनके दिलको सम्भालने के लिए कई बार तो यह खुद भी कहना पड़ता है कि भाई पीछे पछतावोगे, ऐसा बढ़िया पढ़ने का अवसर तुम्हें फिर मिलना कठिन है। इस तरह कहकर उनके दिलको पढ़नेमें लगाते हैं। फिर १५ दिन बाद तो पढ़ने वाला खुद अपने आप क्लासमें आता है, फिर हमें जोर नहीं पड़ता। लोग कठिन समझकर पढ़ना छोड़कर घर न बैठ जायें, इसके लिए मुखसे अपनी प्रशंसाकी बातें दुःखके साथ कहनी पड़ती हैं, ऐसा हम पर भी बीतता है। फिर आचार्य देव तो महान् से भी महान् हैं। वे इस महान् शिक्षाप्रद आत्मानुशासन ग्रन्थमें बड़ी करुणा करके यह बात कह रहे हैं।

आचार्यदेवका नीति रीतिरूपमें कथन॥ आचार्यदेव इस श्लोकमें प्रकट यह नहीं कहते हैं कि हमारा उपदेश यथार्थ और भीगा हुआ होगा। जो दुर्लभ जन हैं उनमेंसे हम हैं ऐसा आशय भी न लेना, बल्कि श्लोकसे सीधा भाव यह निकलता है कि व्यर्थ गरजने वाले व्यक्ति तो सुलभ हैं किन्तु जगत्का आदर कर सकने वाले और खुद भी अंतरंगमें भीगे हुए हों, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ हैं, इतना ही अर्थ है इस श्लोकका। लोग अपने हितमें स्वयं ही सब कुछ पहिचान जाते ही हैं। ज्ञानी पुरुष अज्ञानीजनोंके शिक्षणके लिए और जो विरक्त नहीं हैं ऐसे प्राणियोंका धर्ममें चित्त लगाने के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। और ऐसा कहनेमें उनमें करुणा भरी है। यदि जीवोंके उद्धार करनेकी इतनी अधिक उनके हृदयमें वेदना न होती तो ऐसी बात वे न कह सकते थे। ऐसी बात सुनकर आचार्यदेव की कृपा निरतता समझकर उनके प्रति हमारी भक्ति और अधिक बढ़ती है।

हितोपदेष्टाकी भावना॥ इस ग्रन्थमें आगे चलकर वक्तावोंका स्वरूप आयेगा कि वक्ता किस तरहका होना चाहिए? यदि वक्तामें वे गुण न हों तो श्रोतावोंको एक बार तो बुरा लगेगा ही। पर क्या आचार्यदेव किसीको बुरा लगने के लिए बात कहते हैं? श्रोताजन यथार्थ वक्ताका स्वरूप जान जायें और उन्हें यह विश्वास हो जाये कि मैं यथार्थ वक्ता हूँ तो इससे श्रोतावोंका उपकार है, वक्ताका क्या उपकार? तो श्रोतावोंके उपकार के लिए श्रोतावोंके चित्तमें जो संदेह उठता है उस संदेहका निवारण करना हितोपदेशी व्यक्तिका कर्तव्य है कि किसी प्रकार उस शंकाका निवारण हो।

ज्ञानका ज्ञान निधिमें मिलनपर एक दृष्टान्त॥ भैया! ज्ञानकी महिमा अतुल है। ज्ञानकी महिमा

तब जानी जा सकती है जब यह ज्ञान जहांसे उठा है, उसही में मिलनेका यत्न करे तो ज्ञात हो सकता है कि ज्ञानकी महिमा कितनी है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान जहांसे निकलता है, निकलता हुआ वह ज्ञान मुड़ करके और उसही स्रोतमें मिल जाय, ऐसा हो सकता है क्या? होता है। देखो यह जल जो बरसता है इस जलकी कहानी आपने सुनी ही होगी। इस जलका काम क्या है? जहांसे निकले वहीं मिल जाना इस जलका काम है। जब गर्मीके दिन होते हैं तो बड़ा तेज आता संतापके कारण समुद्रमें से जल निकलता है भाषोंके रूपमें। और वह भाप सघन बनकर बादलोंका रूप रखती है और ५-७ माहके बाद उनमें ऐसी योग्यता आती है कि वे मेघ बरसते हैं और बरसकर यह जल नीचेकी ओर ढुलकता है, नदियोंमें पहुंचता है। नदियाँ भी उस ओर ढली हुई होती हैं जहां नीचाई हो, वह समुद्र है और नदियोंके माध्यमसे वह जल समुद्रमें ही मिल जाता है। जैसे समुद्रसे उठा हुआ जल समुद्रमें ही मिल जाय ऐसा सम्भव है। ऐसा भी सम्भव है कि कोई जल बीचमें ही कुछ समयको अटक जाय, पर अंततोगत्वा किसी न किसी प्रकार जहां से उठा उसही में मिल जाता है। कैसी उस जल की प्रकृति है कि जहां ढाल मिली उस ओर ही चल दे, यह जलकी प्रकृति है। अर्थात् उसके विनयशीलताकी प्रकृति है। नीचेको चलना इसका नाम है विनय। यह जल अपनी बड़ी विनय रख रहा है। उस विनयके कारण यह पानी जिस महानिधिसे निकला था उस ही निधिमें मिल जाता है।

ज्ञानका ज्ञाननिधिके मिलनसे संभूत ज्ञानकी महत्त्वाका परिचय॥ जलकी भाँति ही यह ज्ञान ज्ञानस्वरूप आत्मासे निकलता है अर्थात् इस ज्ञानमय आत्माकी परिणति है, निकलना यों कहा कि जो ज्ञान पर्याय रूपमें आया है और निकलकर बाहरी पदार्थोंमें घुल-मिल रहा है, उनमें अटक रहा हैं, उनको जान रहा है, वही ज्ञान यदि अपनी विनय प्रवृत्ति बना ले अर्थात् यह उठा हुआ ज्ञान, पर पदार्थोंमें मिला हुआ ज्ञान अपनी विनय प्रकृतिसे अपनी ही ओर झुककर दृष्टि करे तो यह ज्ञान बाहरसे हटकर अपने स्रोतमें मिलकर अनन्तआनन्दका अनुभव कर सकता है। तब यह ज्ञान समझेगा कि ज्ञानस्वरूप परमब्रह्मकी क्या महिमा है?

यथार्थताका प्रतिपादन॥ यहां द्रष्टान्तमें अंतरङ्गमें जलसे भीगे हुए बादलोंकी कहानीमें आचायदेव यथार्थ ज्ञान वाले व्यक्तिकी दुर्लभता कह रहे हैं। एक चीज और है। भले आदमीको केवल भला किसलिए कहते हैं, क्या होता है, इसका व्याख्यान करने मात्रकी जरूरत होती है। उसे यह कहनेकी आवश्यकता नहीं होती है कि हम पर विश्वास करो। हम तुम्हें यथार्थ उपदेश देंगे, इसके कहनेकी जरूरत नहीं होती है। इसी नीतिके अनुसार आचायदेव वक्ताकी दुर्लभता बता रहे हैं।

विपाकमधुरताके कारण कटु औषधिका पान भी आवश्यक॥ आचायदेवने यह आश्वासन दिया था कि देखो तुम दुःखसे डरते हो, सुख चाहते हो तो तुम्हारे मन माफिक ही बहुत मधुर तत्त्वका उपदेश करेंगे। कदाचित् उसमें तुम्हें कोई बात कटु भी मिले। नियम, तप, संयम, संन्यास, परिग्रहका छोड़ना, कोई उपदेश तुम्हें कटु लगे, बोझ लगे, (बोझ तो नहीं है बल्कि बोझको हटाने वाली बात है) लेकिन जो बोझमें ही अनुरागी है उसे बोझ तो सुहाता है और बोझ न रहे ऐसी बातपर

विश्वास नहीं होता है। तो तुम्हें यदि कुछ कटु मालूम पड़े तो आँखें मींचकर उसे पी जाना, छोड़ना नहीं। जैसे रोगी लोग कटु औषधिको आँखें मींच कर पी जाते हैं भला बतलावो तो औषधिने आँखें मींची हैं क्या? क्यों उसको आँखें मींच कर पी जाते हैं? कितनी ही कड़वी दवा हो तो आँखें मींचकर पीते हैं।

आँखोंका उद्धण्डतावृद्धिमें सहयोग॥ये आँखें सब उद्धण्डोंकी उद्धण्डता में सिरताज हैं। अगर आँखोंसे देखनेका योग मिले तो ये चार इन्द्रियाँ तेज उद्धण्ड हो जाती हैं। कभी आनन्दसे कानोंसे गाना सुन रहे हैं तो आनन्द तो सुननेमें ही आता है, पर आँखों देखे बिना चैन नहीं पड़ती है। कौन गा रहा है? किस तरह बैठा है। कानोंसे सुन रहे हैं, उसका कुछ मौज तो मिल रहा है पर आँखोंसे देखे बिना चैन नहीं पड़ती। ये आँखें मौजमें कुछ गुणा जरूर लगा देती हैं। ये आँखें उद्धण्डतामें सिरताज हैं। इत्र भी सूँघते हैं नाकसे तो उसके द्वारा मौज माननेकी बात बनती तो है नाक द्वारा, पर आँखों देखे बिना नहीं मानते हैं। उसकी मौजमें ये आँखें कुछ गुणा जरूर दे देती हैं। ऐसे ही आँखों देखकर मधुर चीज खाने में और आँखों देखकर स्पर्शन इन्द्रियका भोग भोगने में उद्धण्डता बहुत अधिक हो जाती है।

आँखोंकी उद्धण्डताके निवारणमें विधिका सहयोग॥ये आँखें बहुत उद्धण्ड हैं, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि विधिने पहिले से ही एक सहूलियत भी दे दी है। इन आँखोंके ढकनेके लिए दो ढक्कन लगा दिये हैं, एक नीचेका और एक ऊपरका। सबकी आँखोंमें दो-दो ढक्कन लगे हैं, जिन्हें पलक कहते हैं। अरे भैया! अब कष्ट क्यों भोगें? उन ढक्कनों का उपयोग कर लें, आँखें मींच लें। सारे संकट और सारी विडम्बनाएँ मिट जायेंगी। ये ढक्कन कितना विशिष्ट काम देने के लिए मिले हैं। ऐसे ही इन इन्द्रियोंमें यह मुँह भी बड़ा चंचल है और उद्धण्ड है। इसके लिए भी दो ढक्कन मिल गए हैं, नीचेका ओंठ, ऊपरका ओंठ, पर अविवेकीजन इन ढक्कनोंका उपयोग नहीं कर सकते। उनके लिए बेकार हैं। उन्हें तो ये ढक्कन न होते तो वे सौभाग्य समझते। कुछ कटु भी उपदेश लगे तो उसको आँखें मींचकर पी जाना अर्थात् साहस बनाकर उपदेश सुनना और उसे धारण करना, इन्द्रियविषयोंको संयत करके अपने हितका ध्यान करके इस उपदेशको ग्रहण कर लेना, आनन्द ही आनन्द मिलेगा।

आचार्यदेवकी अपार करुणा और उनके आभार प्रदर्शनकी अशक्यता॥अहा! कितने उपायोंसे आचार्यदेवने विशुद्ध उपदेश ग्रहण करानेकी कोशिश की है, यह उनकी अपार करुणा है। जिन योगीश्वरोंने राजपाट छोड़कर घरके बड़े सुखोंका परित्याग किया, निर्ग्रन्थ दशा ही जिनका कपड़ा है, केवल एक आत्मज्ञानकी ही जिनके लौ लगी है ऐसी एकाग्रतासे वनमें रहकर अनेक उपसर्ग सहकर जिन्होंने ज्ञानानुभव प्राप्त किया है उन्होंने अपना नुकसान करके भी हम आपके लिए बहुत बड़ी करुणाबुद्धि की है। कोई आचार्य ग्रन्थ लिखे या उपदेश दे तो वह तो अपना नुकसान कर रहा है, वह आत्मसाधनासे कुछ हटकर श्रोताजनोंकी ओर दृष्टि देकर अपना नुकसान कर रहा

है, पर हम श्रोताजन यह समझें कि आचार्यदेवके हम कितने आभारी बनें, जो अपनी हानि सहकर भी हमारे लिए ज्ञानानुभूतिका कटोरा भरकर रख जायें और जो बड़ी कठिन साधनासे मिल सकने वाली प्रेरणा है, बुद्धि है वह हमें सीधे सादे शब्दोंमें स्पष्ट कहीं मिल जाय, इसके लिए हम गुरुजनोंका कितना आभार मानें? ये संसारके सारे समागम साथ न देंगे। जब तक हैं तब तक भी एक न एक चिंता, शोक, शल्य ही उत्पन्न करते रहेंगे, किन्तु यह ज्ञानप्रकाशके अनुभवकी चर्चा है, जिससे हम ज्ञान संस्कार बना सकते हैं। यह ज्ञानसंस्कार हमें सदा साथ देगा और प्रसन्न रखेगा। अब आचार्यदेव कुछ थोड़ी और भूमिका बनाकर आगे अपना वक्तव्य प्रकट करेंगे।

प्राज्ञः प्राप्त समस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः।

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ॥

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्द्या ।

बूयाद्वर्घर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥५॥

वक्ताके लक्षणोंका प्रतिपादन॥इस आत्मानुशासन ग्रन्थमें आवश्यक भूमिकास्वरूप प्रतिपादन चल रहा है। इस समय वक्ता के लक्षण कहे जा रहे हैं। कैसा वक्ता होना चाहिए, जो श्रोताओंके सही काम में आ सके। इससे पहिले श्लोकमें यह कहा था कि वाचाल और व्यर्थ उठे हुए अपनी महंतपना जतानेके लिए व्याख्यानकर्ता बहुत मिलेंगे, किन्तु जो अन्तरङ्गसे भी गीले हैं अर्थात् ज्ञानकी वैराग्यकी वासनासे जिनका हृदय सुवासित है और साथ ही जगत्के उपकार करने की भी शुद्ध भावना है, ऐसे वक्ता लोग बिले ही मिलते हैं। वक्ताके इस श्लोकमें तेरा गुण बताते हैं। ऐ वक्ता! तेरे गुण इसमें तेरह बताये हैं। गुण तेरह होते हैं। ऐ श्रोता! यह तेरे कामकी बात सुनाई जा रही है। तेरा वक्ता तेरह गुण वाला होता है। वह वक्ता तेरा ही है और वह गुण भी तेरा ही है। कैसी वाणी हो अर्थात् गणका, संग्रहका नायक जो धर्मकी कथाको कह सके, उस गणीकी इसमें चर्चा है।

विशिष्ट बुद्धिमत्ता॥वक्ताका पहिला गुण बताया है कि वह प्राज्ञ हो, बुद्धिमान् हो, जो लौकिक पारलौकिक भाषासम्बन्धी अन्य समस्त विद्याओंका जानकार हो, वह ही वक्ता श्रोताके काममें आ सकता है। बुद्धि एक स्वयंकी निर्मलताकी देन है। जो जीव निष्कपायी अर्थात् मंदकषायी होता है उसकी बुद्धि काम करती है। कषायें न करने से बुद्धिका विकास होता है। निमित्त दृष्टिसे ज्ञानावरणका क्षयोपशम होने पर बुद्धिका विकास होता है। अंग्रेजोंके समयकी बात है बुन्देलखण्डमें एक रियासतका राजा गुजर गया। अब राजमाता और राजबेटा रह गये। सरकारने रियासत को एजेन्टके सुपुर्द कर दिया। जब वह २०-२१ सालका हो गया तो राजमाताने निवेदन किया कि पुत्र अब योग्य हो गया, इसकी रियासत इसे सौंप दी जाय। तो एजेन्टने उस लड़के को परीक्षार्थ बुलाया कि राजपदके योग्य वह है या नहीं? तो राजमाता उस बच्चेको समझाती है, देखो बेटा! साहब यों पूछे तो यह उत्तर देना, यों पूछें तो यह उत्तर देना। इस तरहसे १०-१२ बातें खूब समझा दीं। तो लड़का बोला मां! यदि साहब इन सब बातोंमें से कोई भी बात न पूछें तो क्या जवाब देंगे? तो

राजमाता कहती हैं कि बेटा जब तेरेमें इतनी तर्कणा उत्पन्न हो सकती है तो अब तू जरूर जवाब देकर आयेगा। वह बच्चा गया। साहबने लड़केके दोनों हाथ पकड़ लिये और बोला कि बच्चे अब तू क्या करेगा? अब तो तू परतंत्र हो गया। अब तेरा क्या वश चल सकेगा? लड़का बोला यह तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ। विवाहमें पुरुष स्त्रीका एक हाथ पकड़ता है तो उसे जिन्दगीभर उसका साथ निभाना पड़ता है। अब तो मेरे दोनों हाथ पकड़े गये। मैं अब पूर्ण रक्षित हो गया। इतनी बात सुनकर साहब खुश हो गया और राज्यपद दे दिया। बुद्धिके बिना दूसरोंको क्या समझायें? वक्तामें प्रथम गुण बताया है कि वह बुद्धिमान् होना चाहिए।

शास्त्रमर्मका वेत्तृत्वा॥दूसरा गुण बतला रहे हैं कि वक्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसने समस्त शास्त्रोंका हृदय पा लिया हो। शास्त्रोंको पढ़ लेना और बात है और शास्त्रोंका हृदय पा लेना और बात है। रामचरित्रके बाबत लोकजनोंमें एक प्रसिद्धि है कि रावणके साथ युद्ध होनेके समय वानरसेना ने समुद्रको लांघ डाला। तो उस समुद्रके लांघ लेने से क्या उन वानरों को यह पता हो सकेगा कि इस समुद्रके भीतर कैसे-कैसे कहाँ-कहाँ रत्न पड़े हैं? यों ही कोई पंडित भाषावोंके बलपर शास्त्रोंको देख डाले, एक ओरसे पन्ना पन्ना पढ़ डाले, शास्त्रोंको लांघ डाले तो क्या वह इतने मात्रसे इन शास्त्रोंमें क्या रत्न भरा है, क्या मर्म पड़ा है इसे पहिचान सकता है? शास्त्रमें जो लिखा है वह यद्यपि सीधा लिखा है, पर उसमें मर्म क्या है? इसका पता न हो पाये तो वह वक्ता के योग्य बात नहीं है। वक्ता शब्द बड़ा ऊँचा है। वक्ता कहो, नेता कहो, अपना पोषणहार कहो, अपना रक्षक कहो ये सब गुण एक वक्ताके अर्थ देने वाले हैं। जिस वक्तामें ये गुण न हों, और वक्तापनका अभिमान करे तो लोगोंने उस वक्ताका नाम ‘बक्ता’ रख दिया है। बक्ता अर्थात् बकने वाला। जिसने समस्त शास्त्रोंका हृदय पा लिया है, वही वास्तवमें वक्ता है।

मर्मकी अनभिज्ञतामें विडम्बना॥एक सेठ जब गुजरा तो उससे पहिले बहीमें लिख गया बेटा लोगों! कदाचित् जब तुम गरीब हो जावो तो मंदिरकी शिखरमें धन गड़ा, है सो माघ बदी चौदसके दिन ५ बजे शामको धन खोद लेना। सेठ तो गुजर गया। कुछ दिन बाद लड़के गरीब हो गए तो उस ही दिन, उस ही समय एक कुदाड़ी लेकर मंदिरकी शिखर पर बेटा चढ़ गया व खोदनेका यत्न करने लगा। एक बुद्धिमान पुरुष वहांसे निकला, देखा कि यह तो शिखर तोड़ रहा है। पूछने पर वृत्तान्त मालूम हुआ तो वह विवेकी कहता है अबे उत्तर वहां से, वहां धन नहीं गड़ा है, चल मैं बताऊँ जहां धन गड़ा है। वह विवेकी ले गया, जहां उस शिखरकी छाया उसके घरमें पड़ती थी। उस जगह खोदा तो धन मिल गया। और लिखा तो सही था कि शिखरमें धन गड़ा है, पर उस बेवकूफके दिमागमें यह न आया कि यदि शिखरमें धन होता तो माघ बदी चौदसके ५ बजे शामको खोदनेका टाइम क्यों बताते? यदि शिखरमें धन गड़ा होता तो किसी भी समय खोदा जाने पर मिल जाता, पर वहां तो उसका मर्म समझना था। तो जो मर्म नहीं समझ पाते हैं वे भटकते ही रहते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लग सकता है। वक्ता वही वास्तवमें यथार्थ है जिसने समस्त शास्त्रोंका हृदय पा लिया हो।

लोकव्यवहारकी अभिज्ञता॥वक्ताका तीसरा गुण कह रहे हैं कि उसके ज्ञानमें लोकव्यवहारकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट ज्ञात हो। कोई लोग पढ़-लिखकर होशियार भी हो जायें, किन्तु लोकव्यवहार से बिल्कुल अनभिज्ञ हों, लोकव्यवहारमें रहने वाले लोगोंको तो शिक्षा देना है और उन लोगोंसे कैसा व्यवहार करना चाहिए? किस प्रकार बोलना चाहिए? किस ढंगसे समझाना चाहिए? कौनसा देश किस प्रकृतिका है, कहां क्या पद्धति है? लोक व्यवहार भी जब तक वह नहीं समझ पाता है तो वह वक्ता विधिविधान पूर्वक श्रोतावोंका जैसे हित हो उस प्रकारका उपदेश नहीं कर सकता है।

आशारहितपना॥वक्तामें चौथा गुण बताया है कि वह आशारहित हो। किसी सेठ से मुझे कुछ आजीविका मिल जाय, रोजगारका कोई काम बन जाय, मुझे नौकरी दे दे अथवा मेरी खूब खबर करे, किस ही प्रकारकी आशा रखता हो तो वह पंडित श्रोतावोंको यथार्थ उपदेश न दे सकेगा। उसे तो यह पड़ी है कि ये श्रोता जिस प्रकार से खुश हो सकें, उस प्रकारका भाषण करना चाहिए। चाहे उसमें धर्मकी कोई प्रतिकूलता भी क्यों न हो? एक राजसभाका विद्वान् राजाके समक्ष रोज कथा बांचता था। एक दिन वह पुरोहित किसी कामसे बाहर चला गया। तो उस पंडितने अपने लड़केको कथा बांचनेके लिए भेज दिया। वह कथा बांचनेके लिए गया। उसमें निकला कि जो लेशमात्र मांस का भक्षण करे वह नरकमें जाता है। राजा खुद मांस खाता था। जब दूसरे दिन पुरोहित आया तो कहा कि तुमने एक ही दिन तो इस लड़के को कथा कहने भेजा, वह उसी दिन न जाने क्या-क्या उल्टी-सीधी बक गया? कहता था कि जो लेशमात्र मांस भक्षण करता है वह नरक जायेगा। पुरोहित बोला महाराज! उसने ठीक कहा, जो लेशमात्र मांस भक्षण करता है वह नरक जायेगा, मगर जो सेरों मांस भक्षण करता है उसकी बात नहीं कही गयी है। यों श्रोतावोंके कितने ही अनुरूप गड़बड़ बात बोलने वाला वह वक्ता यथार्थ वक्ता कैसे हो सकता है? जो आशारहित हो, वह ही यथार्थ उपदेश देनेमें कुशल हो सकता है।

प्रतिभासम्पन्नता॥वक्तामें प्रतिभाका गुण होना चाहिए। अपने कषायोंके शान्त होने के कारण होने वाली काय मुद्रासे और बुद्धिकी प्रखरता के कारण प्रतिभा भी होनी चाहिए। जो पुरुष विद्वान् भी है किन्तु प्रतिभावान् नहीं है, कुछ लज्जितसा होकर शास्त्र पढ़ लेता है तो वह शास्त्र श्रोतावोंके काम नहीं आ सकता। प्रतिभा भी वक्तामें होनी चाहिए। जिसके प्रतिभा नहीं है उसके शोभा नहीं हैं। बड़प्पन भी शोभित नहीं होता है। जब तक श्रोतावोंके चित्तमें यह बात न जम जाय कि यह महान् है और मेरा भला करनेमें समर्थ है तब तक उस वक्तासे श्रोतावोंको लाभ नहीं होता है।

प्रशमत्व॥वक्तामें शान्तिका गुण भी होना चाहिए। स्वयंका परिणाम उपशमयुक्त हो, मंद कषाय हो, जिसे जरा-जरा सी बातोंमें क्रोध आ जाय। जो अहंकारकी मदिरा पीकर अपनेको भुलाये रहे, अर्थात् अहंकारभरी बात करे, जिसका अंतरंग मायाचारसे वासित हो, साथ ही लोभ हो और इन कषायोंके कारण जिसमें शान्ति न आ सकी हो, उस वक्ता का श्रोतावों पर प्रभाव नहीं होता है। जिस वक्ताको महान् जानकर श्रोता जन अपने आपमें प्रभाव उत्पन्न कर सकें, ऐसा वक्ता न

हो तो वह यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता है। वक्तामें सबसे बड़ा गुण यह भी चाहिए। कोई साधु था। एक मनुष्य उसके पास गया। बोला, महाराज! आपका नाम क्या है? शीतलसागर। थोड़ी देर बाद फिर बोला, महाराज! मैं भूल गया आपका नाम क्या? अरे बता तो दिया शीतलसागर। शीतलसागर, अच्छा महाराज अब मैं जान गया। आपका नाम ज्वालासागर है। तो यों अप्रशंसमता का क्या प्रभाव पड़ा? वक्तामें प्रश्नम का भी गुण होना चाहिए।

प्रागेव दृष्टोत्तरता॥वक्ता विद्वान् हो, बुद्धिमान् हो, भीतर में प्रकाश वाला हो, किसी भी समस्याका, किसी भी प्रश्नका पहिलेसे उत्तर जानता हो। इस प्रसंगमें क्या-क्या प्रश्न उठ सकते हैं? उन प्रश्नोंको कहकर उत्तर भी देता रहे। इस प्रसंगमें क्या-क्या प्रश्न हो सकते हैं, और कोई शंकाकार इस समय क्या प्रश्न कर सकता है? शंकाकार प्रश्न न कर सके और खुद ही प्रश्नका उत्तर दे दे, इतना विकास जिसमें हुआ है वह वक्ता यथार्थ वक्ता होता है।

प्रश्नसहता॥वक्ताके गुणोंमें एक गुण यह भी होना चाहिए कि वह प्रश्नोंको सहन कर सकने वाला हो। कोई कुछ प्रश्न कर रहा हो तो प्रश्नोंको सुनकर उतावलापन न आ जाय। कदाचित् प्रश्नका उत्तर न जानता हो, यह हो सकता है, छद्मस्थ अवस्था ही तो है। भले ही विद्यावोंका निधान है, विद्वान् है, फिर भी कोई बात ऐसी रह सकती है कि जिसका उत्तर न आए तो यह कह देनेमें क्या बुराई है कि इसका उत्तर अभी हमारी समझमें नहीं आ रहा है, हम समझ लेंगे, फिर बतावेंगे। इतना कहनेमें कोई शान नहीं घटती है। जो हिम्मत रखता हो वही प्रश्नोंकी सहनशीलता रख सकता है।

छद्मस्थावस्थामें सम्भव ज्ञानहीनताका अनावरण॥एक गुरु शिष्य थे व्यायाम सम्बन्धी। गुरुने शिष्यको लाठी चलाना सिखाया। सीधीवेल, उल्टीवेल, चौमुखीवेल, जंगमुखी आदि सब प्रकारकी लाठी चलाना सिखा दिया। अब वह शिष्य लाठी चलानेमें कुशल हो गया। अब शिष्य गुरुसे बोला, महाराज अब तो हम आपके साथ लाठी चलाना चाहते हैं, गांव भरका बुलावा करवा कर सबके बीचमें लाठी चलायेंगे। तो गुरु कहता है अच्छा बेटा! जा तुझे १५ दिनकी मोहलत दे दी। अमुक दिन तुम हमारे साथ लाठी चलाना। शिष्य छुप-छुपकर रोज देखा करता था कि गुरु महाराज क्या करते हैं? जो गुरु महाराज करें उसे मैं समझूँ और अपनी तैयारी करूँ ताकि लाठी चलानेमें हार न खानी पड़े। गुरु महाराजने अपने दरवाजेके सामने एक १६-१७ हाथका लम्बा बांस रख दिया। शिष्यने देख लिया कि इतना लम्बा लट्ठ गुरु महाराजने रखा है, सो उसने भी ३०-३२ हाथका एक लम्बा मोटे बांसका उठाना कितना मुश्किल है? जब लाठी युद्धका समय आया तो शिष्य अपना बड़ा बांस लेकर आया। गुरु महाराज ने एक उसी सवा तीन हाथकी लकड़ीसे ही युद्ध किया और तनिक देरमें ही शिष्यको गिरा दिया। शिष्य बोला महाराज! आपने हमें सब कुछ सिखाया था, मगर यह हाथ न सिखाया था। कौनसा हाथ कि अपने द्वार पर १६-१७ हाथका लम्बा बांस रखकर

हमारी बुद्धिको भ्रष्ट कर देना। तो ऐसी बहुतसी विद्याएँ और कलाएँ सीख ली जाएँ और जबरदस्ती जोड़-तोड़कर अटपट ही किसी प्रश्नका उत्तर दिया जाय तो इसका प्रभाव श्रोतावों पर भला नहीं पड़ता। उससे भला यह है कि अपनी बिल्कुल स्वच्छता दिखा दे। भाई मेरी समझमें नहीं आ रहा है। हम समझेंगे, कोई बड़ा विद्वान् मिलेगा उससे या हम ही खुद समझकर फिर बता देंगे। यों वक्तामें एक प्रश्नसहनशीलताका भी गुण होना चाहिए।

वक्ताकी प्रभुता॥वक्ताके लक्षणोंको बताने वाले इस छंदमें आठ लक्षण बता दिए गए हैं। यह द्वाँ लक्षण कहा जा रहा है कि वक्ता प्रभु होना चाहिए। प्रभुका अर्थ है समर्थ। जिसको श्रोता अपनेसे ऊँचा मान सकें, ऐसा वक्ता होना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ वक्ता माने जाते हैं गणधरदेव और उसके बाद आचार्य, उपाध्याय, फिर साधु, फिर श्रावक। इस तरहसे दर्जे चलते रहते हैं। न मिले कोई गुरु वक्ता तो अपने पड़ोसी साध्मियोंमें ही किसी एक को वक्ता मान लें जो वक्ता अन्य श्रोताजनोंकी दृष्टिमें महान् हो। वक्ताकी महत्ता धनके कारण नहीं होती, किन्तु आचरण शुद्ध हो और ज्ञान भी श्रोताजनोंकी गोष्ठीमें सबसे अधिक हो, इन दो गुणोंसे सम्पन्न वक्ता हो, साथ ही गृहस्थ धनिक हो तो उसकी प्रभुता और भी बढ़ जाती है। खैर, वक्ताको समर्थ होना ही चाहिए। श्रोताजन जिस वक्ताके प्रति तुच्छताका भाव ला सकें, उस वक्तासे श्रोतावोंको कोई लाभ नहीं होता।

माया व अस्त् आचारसे प्रभुताकी हानि॥एक कहावत प्रसिद्ध है ‘भायजीके भटा।’ कुछ लोग जानते होंगे। एक ऐसा कथानक है कि कोई भायजी पंडित किसी सभामें भाषण कर रहे थे। एक प्रसंगमें भटाके अवगुण बखान रहे थे। भटा (बैंगन) अभक्ष्य है। उसमें एक अवगुण यह है कि उसमें बड़े सघन पर्त होते हैं, उसके छोटे-छोटे टुकड़े भी कर दीजिए तो भी उनके मध्य कीड़ा छुपा रह सकता है। ऊपरसे ज्ञात नहीं होता। कोई लोग तो भटेके सीधा पूरा अग्निमें डाल देते हैं, उसका भुर्ता करके खाते हैं। कभी-कभी उसमें साबुत कीड़ा दिख जाता है तो खाने वाले को ऐसी अरुचि हो जाती है कि भटाको जीवन भरके लिए छोड़ना ही पड़ता है। हां तो भटाके अवगुण भायजी बखान रहे थे। भायजी की स्त्री भी उस उपदेशको सुन रही थी। उस उपदेशको सुनकर स्त्री झट घर पहुँची, सोचा कि आज भटा बने हैं, इन्हें फेंक दें, नहीं तो भाई जी नाराज होंगे। सो भटोंको डेगचीसे निकालकर नालीमें फेंक दिया। भायजीको भटा खानेका बड़ा शौक था। भाय जी घर आए, भोजन करने बैठे तो पूछा क्या आज भटे नहीं बने हैं? तो स्त्री बोली कि आपके उपदेशको आज सुनकर मैं आयी, भटाके अवगुण आप बता रहे थे, सो हमने आकर नालीमें फेंक दिया, सोचा कि कहीं नाराज न हों। तो भाय जी बोले अरी नादान, व्याख्यान दिया जाता है दूसरोंके लिए। भटाको अभक्ष्य बता रहे थे और लोगोंके लिए, हमारा तो भटाके बिना भोजन नहीं चलता। नालीके ऊपर ऊपरसे उठा लो। ऐसे ही करनी कुछ हो, बोलता कुछ हो। इस तरहका मायाचारका पता लोगोंको पड़ जाय तो ऐसे वक्तासे लोगोंको कुछ लाभ नहीं हो सकता। वक्ता अनेक दृष्टियोंसे प्रभु होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए।

वक्ताकी मनोहारिता॥श्रोताजनोंकी दृष्टिमें महान् वक्ताका एक गुण यह है कि वक्ता मनोहारी होना चाहिए। दूसरे के मनको हरने वाले वचन जिसके मुखसे निकलें वही वक्ता मनोहारी हो सकता है। वचनोंके सम्बन्धमें यह बताया गया है कि वचन वही लाभ करता है जो हित, मित, प्रिय वचन हो, जो वचन दूसरोंका हित कर सकें, दूसरोंको प्रिय लगें और हित, प्रिय होने पर भी वचन परिमित होना चाहिए। बहुत अधिक बकवाद करने की प्रवृत्ति जीवपर प्रभाव नहीं डाल सकती है। कोई वचन प्रिय तो लगें, पर जीवके लिए हितकारी न हों तो उन वचनोंसे श्रोताका भला नहीं हो सकता है। यों तो विषयकषायोंकी बातें, भोगविलासकी चर्चाएँ, यहां वहांकी गपें बहुत प्रिय लगती हैं। रातके १०-१२ भी बज जायें तो उस गप्पे गोष्ठीके छोड़नेका भाव नहीं होता है, पर उनमें हितपना तो है नहीं। कोई प्रिय वचन भी बोले, किन्तु वह हितकर नहीं हों तो भी वह अयोग्य वक्ता है। कोई मनुष्य हितकर बात तो बोले, मगर बोलने का ढंग ऐसा कठोर हो कि सुनने वाले सुनना ही न चाहें तो जिन बातोंको श्रोता स्वयं न पसंद करें, उन बातोंसे उनका हित कहां सम्भव है? इस कारण वचन ऐसे बोले जाने चाहियें जो हितमय हों और प्रिय हों। इतने पर भी कोई वक्ता बिना प्रयोजन अधिक बोला करे तो अधिक बोलने वालेके वचनोंमें बल नहीं रहता। इसलिए परिमित वचन होना चाहिए। वचन दूसरेके मनको हरने वाले होने चाहियें।

निन्दादूरता॥वक्तामें एक गुण यह भी होना चाहिए कि वह निन्दासे दूर रहता हो। जो दूसरोंकी निन्दा न करता हो और जो स्वयं भी निन्द्य न हो, ऐसी निन्दासे दूर रहने वाला वक्ता ही यथार्थ वक्ता हो सकता है। जगत्के जीवोंमें मनुष्य श्रेष्ठ मन वाले होते हैं, लेकिन अज्ञानसे मनुष्य मनका बड़ा दुरुपयोग करता है। भला बतलावो दूसरेकी निन्दा करनेमें निन्दकको कौनसा लाभ मिल जाता है? अनुभवसे विचारो। अपने मुखसे दूसरेकी निन्दा कर डालें तो इसमें खुदको कौनसा लाभ मिला? और जिसकी निन्दा की है उसका कौनसा सुधार हो गया, और जिन लोगोंने निन्दा भरी बात सुनीं, उन श्रोतावोंका क्या उपकार हो गया? अरे, उपकारकी बात तो दूर रही, इस निन्दकने अपना आशय दुष्ट बनाकर अपना बहुत बुरा किया। और जिसकी निन्दा की गई है, वह इसके आशयको परख जायेगा तो इसके वचनोंसे घृणा करेगा। वह सुधरे यह बात तो दूर रही, जितने श्रोतावोंने निन्दा भरी बातें सुनीं, वे श्रोता स्वयं ऊब जायेंगे और निन्दकको तुच्छ निगाहसे देखने के कारण कि इसकी दूसरोंकी निन्दा करने की प्रवृत्ति पड़ गई है, असर न होगा। निन्दामें सबका बिगाड़ है। जो वक्ता दूसरोंकी निन्दा करता है वह यथार्थ वक्ता नहीं है। यथार्थ वक्ता निन्द्य भी नहीं होता है। उसमें निन्दा योग्य कोई बात ही नहीं है। यों तो प्रभुकी निन्दा करने वाले भी जगतमें भरे पड़े हुए हैं, पर विवेकी अयोग्यतारूप कुछ मान्यता दे सकें तो वह निन्दा कहलाती है। यह वक्ता निन्दासे तो दूर रहता ही है।

निन्द्य वचनोंका घाव॥एक लकड़हारा था। जंगलमें जाकर लकड़ी बीनकर गद्दा लेकर चलने को हुआ तो सामनेसे एक सिंह आया। उसके पैरमें लगा था एक कांटा। सो कुछ कराह रहा था।

लकड़हारेके पास आकर बैठ गया। लकड़हारेने देखा तो उसके पैरमें एक कांटा चुभा हुआ था। उसे निकाल दिया। सिंह उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गया और गिड़गिड़ाकर कहने लगा— तुम यह लकड़ीका बोझ अपने सिर पर मत ले जाया करो, हमारी पीठ पर लादकर ले जाया करो। सो वह शेरकी पीठपर रोज-रोज लकड़ी लादकर ले जाया करे। पहिले तो १५-२० सेर लकड़ी लादकर लाता था, अब २५-३० सेर लाद कर लाने लगा। फिर १ मन, २ मन, ३ मन लकड़ीका गद्वा लादकर लाने लगा। इस तरहसे वह लकड़हारा कुछ ही समयमें धनी होने लगा। कारण कि धीरे-धीरे उसने दो-दो, तीन-तीन मन लकड़ी लाना शुरू किया। सो लकड़हारा कुछ ही दिनोंमें धनी हो गया। एक दिन वह लकड़हारा लकड़ी रख ही रहा था कि किसी व्यक्तिने आकर पूछा कि तुम इतना जल्दी धनी कैसे बन गए? तो लकड़हारा बोलता है कि मेरे हाथ एक ऐसा गीदड़ लगा है जिसकी वजहसे मैं इतना जल्दी धनी बन गया हूँ। सिंह ने इस बातको सुन लिया कि यह मुझे गीदड़ बताता है। इस बात को सुनकर उसके दिल पर बहुत बड़ी चोट पहुँची। उसके दूसरे दिन जब लकड़हारा तीन मन लकड़ीका गद्वा बांधकर इस आशामें खड़ा था कि शेर आये तो लादकर ले जाएँ, तब वह शेर आया और उस लकड़हारेसे बोला— ऐ लकड़हारे! यह जो अपने हाथमें तुम कुल्हाड़ी लिए हो, इसे हमारी गर्दन में बड़े जोरसे मारो। यदि नहीं मारते हो तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। लकड़हारे ने सोचा कि यदि मैं मारता नहीं हूँ तो मेरा जीवन जा रहा है, सो उसने हिम्मत की और सिंहके गर्दनमें बड़े जोरसे कुल्हाड़ी मारी। सिंह मरते-मरते कह रहा था कि ऐ लकड़हारे! तुम्हारी कुल्हाड़ीकी चोट तो मैं सह सकता हूँ, पर वे दुर्वचन जो तुमने मुझे गीदड़ बताया था, उनको मैं नहीं सह सका।

सद्वचन व्यवहार की आवश्यकता॥भैया! अज्ञानी मनुष्य कुछ नहीं विचारते और जो मनमें आया सो बात कह डालते हैं। किसीको चुभने वाली बात कह देनेसे उसे कितना कष्ट पहुंचता है और यह कहने वाला भी कितना संक्लेश करता है? अपने जीवनमें एक ही गुण लायें कि हम बोल संभालकर ही बोलेंगे। किसीके द्वारा यदि कोई बिगाड़ भी पहुंचता हो तो मैं अपने मनको मसोस लूँगा, क्यों कषायमें आकर दुर्वचन बोलूँ? दुर्वचन बोल देनेसे तो लड़ाई ही बढ़ती है और उसकी ओरसे भी प्रायः कष्ट की ही सम्भावना है। साथ ही दुर्वचन बोल चुकने पर हम क्षमा मांगें और वह क्षमा करदे तो यह अपने हाथकी बात न रहेगी। किसी समय अपने दिलको मसोसकर रह जायें तो कुछ मिनट बाद अपने दिलको समझाया जा सकता है, पर दूसरेको वचन लगनेपर हम विवश हो जायेंगे। जैसे धनुषसे निकले हुए बाणको कितनी ही मिन्नत करो, ऐ बाण! तू वापिस हो जा, तू गलतीसे छूट गया है, वापिस हो जा, तो वह वापिस नहीं आ सकता है। ऐसे ही क्रूरमुखरूपी धनुषसे निकले हुए वचनोंका कितना ही पछतावा करो, पर वे वापिस नहीं हो सकते हैं। इस कारण वचन बोलनेसे पहिले हमें अपनी बड़ी संभाल रखना है। दुर्वचनोंसे किसीका भी हित नहीं है। निन्दा भरे वचनोंसे यह वक्ता दूर रहता है।

गुणनिधित्वाधर्मकथाका करने वाला उपदेशक कैसा होना चाहिए? इस सम्बन्धमें यह सब वर्णन चल रहा है। वक्ता गुणनिधि होना चाहिये। जिसमें प्रश्नम, सम्बेद, अनुकम्पा, आस्तिक्य आदिक गुण मौजूद हों, प्रतिकूल घटनाएँ आनेपर भी शान्त रह सके, दूसरा अपराध करे तो उसको क्षमा कर सके, घमंड रंचमात्र भी न हो; माया, लोभसे भी ग्रस्त न हुआ हो, ऐसे अनेक गुणोंका निधि वक्ता होना चाहिए। अहंकार किस बातका? जो कुछ विद्या पायी है यह विद्या आत्माके उल्कृष्ट ज्ञान प्रकाशके सामने कुछ चीज नहीं है। केवलज्ञान जिससे तीन लोक, तीनकाल का समस्त परिज्ञान होता है, उस ज्ञानके समक्ष हम आपने व बड़े विद्वानोंने भी जो विद्या पायी है वह न कुछ जैसी चीज है।

छद्मस्थोंके विद्याकी अपूर्णताएक कोई नया छात्र बी० ए० पास करके खुशीमें समुद्रकी सैर करने चला। समुद्रके किनारे पहुंचकर नाविकसे बोला ऐ नाविक! हमें समुद्रकी सैर करा दे। नाविक बोला भाई एक रुपया लगेगा। हां हां एक रुपया ले लो। बैठ गया वह नावमें। समुद्रमें थोड़ी दूर जब नाव निकल गयी तो वह छात्र बोला कि तू कुछ पढ़ा लिखा है? तो नाविक बोला ना भाई, हम कुछ भी पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो तू ए, बी, सी, डी भी नहीं जानता? ना भाई। तो तू अ आ इ ई भी हिन्दीकी नहीं जानता? ना भाई! तेरा बाप कुछ पढ़ना जानता है? ना भाई। उसने नालायक, बेवकूफ आदि गालियां दीं और कहा कि ऐसे ही लोगोंने तो इस भारत देशको बरबाद कर रखा है। वह बेचारा नाविक कुछ पढ़ा-लिखा तो था नहीं, सो सब सुनता गया। समुद्रमें जब तीन-चार फलांग नाव निकल गयी तो एक लहर उठी कि नाव डगमगाने लगी। तो नाविक बोला कि नाव अब नहीं बच सकती। हम तो तैर कर पार कर जायेंगे तो वह बी० ए० पास बालक बोला कि मुझे किसी तरहसे पार करा दो ताकि मेरी जान बच जाये। तो नाविक बोला कि क्या तू तैरना भी नहीं जानता? बोला हां नहीं जानते। तेरा बाप तैरना जानता है? बाप भी तैरना नहीं जानता है। तो नालायक बेवकूफ आदि वही गालियां उसने भी दीं, जो बी० ए० पास बालकने दी थीं और कहा कि ऐसे ही लोगोंने तो भारत देशको बरबाद कर रखा है। अरे कौनसी विद्या ऐसी है जो परिपूर्ण कही जा सकती है? कोई भी तो यहां ऐसी विद्या नहीं है। कौन सा ज्ञान हम आपने पाया है, जिस पर अभिमान किया जाय। यथार्थ वक्ता वही होता है जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदिसे परे रहे। अर्थात् वक्ता गुणोंका निधान होना चाहिए। गुणहीन पुरुषमें नायकपनेकी शोभा नहीं रहती है।

स्पष्टमिष्टाक्षरताअब वक्ताका अन्तिम लक्षण कहा जा रहा है कि वक्ता स्पष्ट और मिष्ट अक्षरोंका बोलने वाला हो। जो अर्द्ध चौथाई वचनोंको खा-खा कर बोले, कुछ समझमें आये, कुछ न आए, या ऐसा विचित्र बोले कि श्रोताजन कुछ ग्रहण ही न कर सकें ऐसी बात एक योग्य वक्तामें नहीं होती है। वक्ता स्पष्ट और मिष्ट अक्षरोंका बोलने वाला होना चाहिए। यों तो शास्त्रप्रवचनमें श्रोतागणोंको अधिकसे अधिक गाली दे देने का अवसर रहता है, तुम मोही हो, मूर्ख हो, अविवेकी हो, अपने आत्माको नहीं जानते हो। संसारमें रुलते हो, बड़े कषायवान् हो, इस तरह तो नरक में जावोगे, दसों बातें बोली जा सकती हैं, आखिर बातें ठीक ही तो हैं, पर ऐसी बात बोलनेका क्या प्रयोजन है,

और श्रोतागण उससे क्या लाभ उठायेंगे? अरे वही बात सम्बोध करके भी बोली जा सकती है। जो अनिष्ट अक्षरों में उपदेश होता है, उसका प्रभाव श्रोताजनों पर नहीं होता है। हित मित प्रिय वचन ही श्रोतावोंपर प्रभावक हो सकते हैं। इस कारण मिष्ठ अक्षरोंका बोलने वाला वक्ता हो।

वक्तावोंकी श्रेष्ठता॥ऐसे उक्त तेरह गुणों करिके संयुक्त वक्ता हुआ करता है। ऐसा गुण उत्कृष्टरूपमें जहां मिल सके, वह तो उत्कृष्ट वक्ता है, प्रभु अरहंत परमात्मा सकल परमात्मा, जिसकी दिव्यधनि खिरती है और जिसके उपदेशकी परम्परा चलती है उन भगवान् सर्वज्ञदेवको वक्ता नहीं कहा। वह तो हम आप सबके ईश्वर हैं, वह तो हम सबके शरण हैं और आधार हैं। **वक्ताका पद गणधरदेव से शुरू होता है।** गणधर देव जो गणको धारण करें, गणके अधिपति हों, ईश हों, ऐसे गणेश उत्कृष्ट वक्ता होते हैं। और विद्याके अधिपतित्वके प्रसंगमें प्रथम गणेशका स्मरण होता है। गणेश अर्थात् साधुसंतजनोंके ईश स्वामी गणधरदेव। ये मनःपर्ययज्ञानके धारी हैं, अवधिज्ञानसे बहुत कुछ दूरकी और बहुत कुछ भूत और भविष्यकी बातें जानते हैं, और दूसरेके मन को, विचारोंको स्पष्ट जानते हैं। इतना विशिष्ट ज्ञान गणधरदेवके होता है। तो उत्कृष्ट वक्ता हुए गणधर, उसके बाद आचार्य और उसके बाद साधु, उसके बाद उत्कृष्ट श्रावक, मध्यम श्रावक सम्यग्दृष्टि जन ये सभी वक्ता हो सकते हैं। ये गुण सभी उत्कृष्टरूपसे पाये जायें यह असम्भव है, किन्तु इन गुणोंकी किसी न किसी रूपमें झलक रहे तो वह वक्ता यथार्थ वक्ता हो सकता है।

योग्य वक्ताके सान्निध्यमें श्रोतावों पर श्रोतावोंकी योग्यताका प्रभाव॥यों इस आत्मानुशासन ग्रन्थके वक्तव्यसे पहिले भूमिकारूपमें वक्ताके गुण बताये गए हैं। इन गुणोंसे युक्त कोई वक्ता श्रोताजनोंको मिल जाय तो उन श्रोताओंको उस वक्तामें विशेष श्रद्धान होता है और तब श्रोताजन विशेष लाभ लेते हैं। एक बात और जाननेकी यह है कि जितना भी असर पड़ता है वह श्रोतावोंके अपने विशुद्ध आशयका असर पड़ता है। वक्ता गुणी भी हो, लेकिन जब तक श्रोताके हृदयमें यह बात नहीं समायी है कि यह वक्ता गुणी है, सदाचारी है, समर्थ है, और स्वयं आत्मकल्याणमें प्रगति कर रहा है, इतनी बात श्रोताके मनमें न समायी हो तो श्रोतापर कोई असर नहीं पड़ सकता। तो उस असरका कारण श्रोताजनोंकी स्वयंकी योग्यता है और यह सब योग्यता गुण वाले वक्ताके सामने रहनेसे प्रकट होती है। यों वक्ताके ये तेरह गुण बताये गए हैं। इसके बाद भी कुछ और योग्यता वक्ताकी बतायी जायगी। किसे शास्त्र कहनेका अधिकार है यह उसमें स्पष्ट झलकेगा।

**श्रुतमविकलं शुद्धा वृत्तिः परप्रतिबोधने,
परिणातिरुरुद्योगो मार्गप्रवर्तनसद्विधानौ।
बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मृदुताऽस्पृहा,
यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुः सताम् ॥६॥**

उपदेष्टाके श्रुतकी अविकलता॥पूर्व छन्दमें वक्ताके गुण बताये गए थे कि वक्तामें और क्या गुण होने चाहियें? अब इस श्लोकमें यह बताया जा रहा है उसही उपसंहार रूपमें कि कैसा

वक्ता शास्त्र कहनेका अधिकारी होता है। उपदेशदाता गुरु इतने गुणसम्पन्न हो (१) जिनका अविकल श्रुत हो, शास्त्रका रहस्य और अर्थ स्पष्ट झलकता हो, किसी भी एक विद्यामें पूर्ण निपुणता न हो तो उसे अधिकारी नहीं कहा जा सकता। जैसे गाना किसे नहीं आता। सभी अपनी खटिया पर पड़े-पड़े कुछ न कुछ गुनगुनाया करते हैं। जब अपने आप गाना गाते हैं तो पता नहीं पड़ता कि हम बेसुरा गा रहे हैं। अपना गीत कहनेका ढंग बहुत क्रमिक मालूम होता है। पर गायन सुनने वाले दूसरे लोग कहो उसका गायन सुनकर बेचैन हो रहे हैं। जब सुरीला गाना नहीं होता है, राग भी अटपट होती है तो सुनने वाले लोगोंके चित्तमें कुछ चोट लगती है। कैसा यह बेसुरीला बेढंगा गा रहा है, पर वह अपनेको एक चतुर गायक समझता है, लेकिन उसे गानेका अधिकार नहीं है जब तक गानेकी सब रीतियोंको न जानें।

प्रतिभायुक्त वैद्यका दृष्टान्तयों तो दवा बताने वाले वैद्य घर-घर हैं। कोई-सा भी वैद्य हो, पर जितने बैठे होंगे वे सब दवा बता देंगे। लेकिन जिसका उस विषयमें अविचल प्रवेश नहीं है उसको अधिकार नहीं है। एक वैद्यराजके साथ नौकर रहता था। वह जहाँ रोगियोंको देखने जाय वहां वह नौकर भी जाता था। वैद्यने एक रोगी की नाड़ी देखी और कुछ नीचे निगाह की, खाटके नीचे देखा तो भटाके छिलके पड़े थे। वैद्य बोला, तुम्हें अजीर्ण हो गया है। कुछ जी मिचलाता है? हां साहब। कुछ पेटमें ऐंठन-सी होती है? हां साहब। दो-चार बातें ऐसी हैं जनरल कि नाड़ी पकड़कर कोई भी कह दे। तो तुमने भटा खाया है इससे अजीर्ण हो गया है। नौकर वैद्यराज की सारी क्रियाएँ देख रहा था। नौकरने सोचा कि अब हम स्वतन्त्र वैद्य बनेंगे। थोड़ा और कुछ अच्छा अभ्यास बनालें। वैद्यराजके साथ एक दिन वह दूसरे गांव जा रहा था। रास्तेमें एक ऊँट वाला मिला। ऊँटने पूरा कदुवा खा लिया था, वह गलेमें अटक गया था, सो बड़ा बेचैन हो रहा था। वैद्यसे ऊँट वालेने प्रार्थना की कि हमारा ऊँट अच्छा कर दो। वैद्यराजने क्या किया कि ऊँटको लिटा दिया और दो पत्थर मंगाये। एक पत्थर गर्दन के नीचे रक्खा और एक पत्थरसे ऊपरसे धीरे से चोट दी। कदूदू फूट गया, ऊँट उसे निगल गया और चंगा हो गया।

अप्रतिभ नकलची वैद्यकी विडम्बनानौकर सोचता है कि अब हम खूब अभ्यस्त हो गए। हमने वैद्यराज की सब कलायें जान लीं। ऐसा सोच कर वह खुद स्वतन्त्र वैद्य बन गया। एक जगह एक रोगिको देखने गया। नाड़ी पकड़ कर कहता है कि तुम्हें अजीर्ण हो गया है। खाटके नीचे देखा तो घोड़ेका पलीचा पड़ा था। सो कहता है कि तुमने घोड़ा खा लिया है इससे अजीर्ण हो गया है। खैर, वहांसे ठुक पिटकर दूसरी जगह पहुंचा। किसी गांवमें एक बुढ़िया बीमार थी, सो घर वालोंने कहा वैद्य जी, हमारी मां को देख लीजिए, बीमार है। हां हां, देख लेंगे। देखकर कहता है कि दो पत्थर मंगावो। आ गए पत्थर। एक पत्थर बुढ़ियाके गर्दनके नीचे रक्खा और एक पत्थर ऊपरसे बुढ़ियाके गलेमें मारा। बुढ़िया तो स्वर्ग सिधार गयी। लोग लड़ने लग गये तो ठुके पिटे वैद्यराज बोले

कि ऊँटका रोग इसी तरह दूर हुआ था। तो जिस विषयमें अधिकार नहीं है, उस विषयमें हम अपना प्रवेश करें तो उसमें सफलता नहीं होती है। यों ही हो तो गांवमें घर-घर सभी वैद्यराज न बन जायें।

अविकल ज्ञानमें उपदेशका अधिकार॥जिसका जिसमें अविकलप्रवेश नहीं है वह उसका अधिकारी नहीं होता है। यों ही जानो कि जिसका श्रुतमें अविकल प्रवेश नहीं है वह शास्त्रका अधिकारी नहीं होता है। ये सब बातें उत्कृष्ट रूपकी बतायी जा रही हैं। यहां यह अर्थ न लेना कि यदि हमें उत्कृष्ट वक्ता न मिले तो हम साधारण वक्तासे भी न सुनें। हां, एक बात और है, जितने भी गुण वक्ताके बताए गए हैं, वे सब गुण कुछ न कुछ हद तक होने ही चाहियें तब वह शास्त्रका अधिकारी होता है।

उपदेष्टाका शुद्ध आचरण॥शास्त्रका अधिकारी वह पुरुष है जिसकी वृत्ति शुद्ध रहती है। खानपानका पापोंसे दूर रहनेका जिसका शुद्ध आचरण है वह शास्त्र बांचनेका अधिकारी कहा जाता है। जिसके दुराचार प्रकट हों उस वक्ता के प्रति श्रोता तो मनमें यह सोचेंगे कि देखी गयी घटना हो रही है जैसे बिल्ली चूहा मारकर हज्ज करने जाय। खुद तो दुराचारसे रहते हैं और शास्त्र-गद्दी पर बैठे-बैठे बड़ी-बड़ी बातें बखानते हैं। श्रोताजन वहां दोषोंको ही ग्रहण करेंगे, गुण ग्रहण न कर पायेंगे। शास्त्रका अधिकारी वह पुरुष है जिसकी वृत्ति स्वयं शुद्ध हो। मनकी प्रवृत्ति निर्दोष हो, सबके सुखकी भावना हो, किसी जीवके प्रति ईर्ष्याका परिणाम न हो। जो मनुष्य सब जीवोंके सुखकी भावना करेगा वह स्वयं सुखी हो सकता है। दूसरोंको दुःख उत्पन्न हो ऐसी भावनामें यह प्रथम ही दुःखी हो गया। यदि यह दुःखी न हो तो दूसरे के प्रति दुःखी होनेकी भावना नहीं जगती। दूसरेको सुखी होनेकी भावना करो तो स्वयंमें भी बड़ी प्रसन्नता रहती है। वचन भी निर्दोष होना चाहिए, छल कपटसे रहित, दोहरे तिहरे गुप्त अर्थसे रहित साफ स्पष्ट वचन हों, शरीरसे भी चेष्टा पापरहित होनी चाहिए। यों मन, वचन, काय की प्रवृत्ति जिसकी शुद्ध हो, वही पुरुष उपदेश देनेका अधिकारी है।

उपदेष्टाका परप्रतिबोधन परिणाम॥तीसरी बात कह रहे हैं कि दूसरे जीवके प्रतिबोधनमें जिसका परिणाम लगता हो, वही उपदेशदाता योग्य है। जिसके चित्तमें दूसरेको समझानेका परिणाम नहीं है वह न जाने किस-किस प्रयोजनसे भाषण करता रहता है। मेरी आजीविका ठीक रहे, लोकमें मेरी प्रतिष्ठा हो या लोग मुझे बड़ा समझें, यह उसका प्रयोजन रहता है। जिस उपदेष्टाके परके समझानेका परिणाम है वही यथार्थ उपदेश कर सकता है। इस ज्ञानी संतने अपने आपमें हितकी बात समझी और यह बड़ा सुगम है, स्वाधीन है, स्वयंके स्वरूपरूप है इतना स्वाधीन उपाय ये जगत्के जीव नहीं कर पा रहे हैं, इससे ये दुःखी हैं। अपनी दृष्टि ये संभाल ले ऐसी जिसके करुणा जगी है वही पुरुष उपदेष्टा कहला सकता है। कोई पुरुष किसी पर दवाब डाले, धर्म करो, नियम करो, तो ये धर्म और नियम जबरदस्तीसे नहीं होते हैं। स्वयंकी आत्मामें ज्ञानका प्रकाश जगे तो यह प्रेरणा करनेकी भी जरूरत नहीं है कि तुम नियम करो, यों चलो। उपदेष्टा का यह यत्न होता

है कि यह हेय और उपादेय वस्तुस्वरूपको जान जाय। केवल परके प्रतिबोधनमें ही इसके परिणाम जगा है।

उपदेष्टाका सन्मार्गप्रवर्तनमें उद्यम॥उपदेष्टामें यह भी विशेषता है कि वह सन्मार्गकी प्रवृत्ति करनेमें बड़ा उद्यम रखता है। जगत्के जीव, मनुष्यजन यथार्थ मार्गको समझ जायें, इस मार्गका प्रसार हो, लोग जानें तो उनका भला होगा, ऐसा ध्यान रखकर सन्मार्गके प्रसारमें उनका बड़ा उद्योग होता है। यहां एक यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि ज्ञानी पुरुष हठपूर्वक धर्मप्रसार नहीं करता, किन्तु ज्ञानी पुरुषमें ऐसी योग्यता है कि उसके तनिक से यत्नसे लोगोंका महान् उपकार हो जाता है। दूसरे लोग समझते हैं कि यह पुरुष परका उपकार करनेमें अपनी कमर कसकर उतरा है, पर वहां बात ऐसी नहीं है। जिस मनुष्यके निजके उपकारकी प्रबल भावना नहीं होती वह परके उपकारमें भी सफल नहीं हो सकता है, ज्ञानीके तनिक यत्नमें लोगोंका उपकार होता है। हठी पुरुष कमर कसकर परोपकारके लिए उतरता है, किन्तु उससे यथार्थमें उपकार नहीं हो पाता, खैर, उपदेष्टाकी यह विशेषता है कि वह यथार्थ मार्गके परिहारमें अपना श्रम करता है।

उपदेष्टाकी उत्कृष्ट प्रकृति॥उपदेष्टा पुरुष उच्च पुरुष होता है। बड़े-बड़े ज्ञानीजन भी उनको नमस्कार करते हैं और यह उपदेष्टा अपनेसे अधिक ज्ञानियोंको नमस्कार और उनका विनय करता है। जहां यह दूसरे का वंदन स्वीकार करता है वहां इसमें ऐसी योग्यता है कि अपनेसे अधिक ज्ञानी संत पुरुषका यह वंदन करता है। शास्त्र-प्रतिपादनका अधिकारी उपदेष्टा किस क्रियामें रहता है? उसका यह वर्णन चल रहा है।

उपदेष्टाकी निरभिमानता॥उपदेष्टा अभिमानसे रहित होता है, इसमें उद्धतपना नहीं होता है। वह समझता है कि कोई हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं। यह तो महावीर स्वामीकी परम्परासे अथवा अनेक तीर्थकरोंकी परम्परासे जो चला आया हुआ सन्मार्ग है उसकी बात कह रहे हैं। घमंड किस बातका? यह समस्त तत्त्व तो प्रभुने बताया है, हम तो प्रसार करने वाले मानो एक मुंशीकी तरह हैं। कोई अभिमान करने योग्य हममें कला नहीं है। किस बातका अभिमान हो ऐसी प्रतीति योग्य उपदेष्टामें रहती है। अतः वह उद्धतपनासे रहित होता है।

लोकज्ञता॥यह उपदेष्टा लोकरीति का भी ज्ञाता होता है। देशमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी लोकरीति होती है। उस लोकरीतिसे अनभिज्ञ हो और कोई बातमें लोकरीतिसे बिल्कुल खिलाफ आए तो वह शान्तिका कारण नहीं बनता। योग्य उपदेष्टा लोकरीतिका ज्ञाता होता है। ज्ञानी पुरुषमें इतनी योग्यता होती है कि वह पुरुषका हृदय क्षणभरमें एक दृष्टिसे पहिचान लेता है। उसे इस बात की आवश्यकता नहीं है कि वह दूसरेके हृदयकी बात बतलाये। किन्तु अभिज्ञता उसे हो जाती है और परख कर लेता है कि अमुक व्यक्ति इस आशयका है, अमुक इस प्रकृतिका है। दोष भी सब ज्ञात हो जाते हैं, किन्तु वह उदासीन रहता है। इस कारण लोकचर्यमें नहीं पड़ता। उसे लोकरीति व लोकनीतिके विषयोंका परिज्ञान होता है।

मृदुता॥योग्य वक्ता मृदु होता है। उसका हृदय कोमल, उसकी वाणी कोमल। ऐया! लोगोंका सुधार डाट-डपटसे नहीं होता। जैसे ऊधम करने वाले बालकको डाट-डपटकर नहीं मनाया जा सकता। उसे तो धीरेसे समझाया जाय, अरे तू तो राजा है, बड़ा भोला है, राजा लोग ऊधम नहीं मचाया करते। इस प्रकार समझाने से वह ऊधम मचाना छोड़ देगा। ऐसे ही संसारके प्राणी रागद्वेष मोहके वशीभूत होकर अनेक पापकर्मोंमें लगे हुए हैं। जीवोंको हिंसक, दगबाज, चोर आदि शब्दोंसे बोल-बोलकर इनका दुराचरण छुटाना चाहें वह अशक्य है। किन्तु तुम प्रभुतास्वरूप हो, तुम ज्ञानानन्दरूप हो, तुममें बड़ी ज्ञानकला है, बड़े बुद्धिमान् हो, श्रेष्ठ मन पाया है, सभी योग्यताएँ तो तुममें मौजूद हैं ऐसी उसकी शक्ति बताकर फिर उससे कहा जाय कि भाई इतनी बात और छूट जाय तो तुम्हारे उत्कर्षका फिर क्या ठिकाना है? वह छोड़ सकेगा। उपदेशमें मृदुताकी विशेषता होती है।

मृदुताका दृष्टान्त॥कोई मनुष्य तो सुपारी की तरह होते हैं। जैसे सुपारी भीतरमें कड़ी और ऊपर भी कड़ी होती है। कोई मनुष्य बेरकी तरह होते हैं भीतरमें तो कड़े और ऊपरसे कोमल। कोई मनुष्य नारियलकी तरह होते हैं ऊपरमें तो कड़े और भीतरमें कोमल, मिष्ट, रसीले। कोई मनुष्य दाखकी तरह होते हैं। भीतर भी कोमल और ऊपर भी कोमल होते हैं। योग्य उपदेष्टा वह है जो दाखकी तरह अंतरंगमें भी कोमल है और ऊपरके व्यवहारमें भी कोमल है। उपदेष्टाकी यह महती विशेषता है।

निःस्पृहता॥उपदेष्टा वाज्ञासे रहित होता है। किसी भी साधनके विषयोंकी वाज्ञा हो तो वह उपदेष्टा योग्य उपदेश देनेमें असमर्थ होता है। बात कुछ भी की जाय, आखिर वह अपने प्रयोजन पर आयेगा। इस विषय में पहिले वक्ताके गुण बताये गए थे, वहां बहुत कुछ प्रतिपादन हो गया है, फिर भी उपदेष्टाके गुण उपदेष्टारूपसे बताये जा रहे हैं। वह वाज्ञारहित होता है। किसी भी सांसारिक कुत्त्वकी इच्छा न हो ऐसे इन गुणों करिके सहित उपदेष्टा अधिकारी होता है। ये सब यतीश्वरके गुण हैं। ये गुण साधु-संतोंमें पाये जाते हैं। फिर भी इन गुणोंके माफिक कुछ भी विकास हो श्रावकजनोंमें तो वे भी शास्त्र बांचनेके अधिकारी हैं। आदेश देना बहुत ऊँचा काम है, उपदेश देना उससे कुछ छोटा, किन्तु औरोंसे ऊँचा काम है, बाकी तो शास्त्र बांचना कहो। उपदेश देनेका अधिकारी तो ऐसा पुरुष होता है जिसका इस छंदमें वर्णन किया है, बाकी तो मिल-जुलकर तुम शास्त्र पढ़ो, हम सुनें, कुछ अच्छी चर्चा आए सामने तो समय हितमें व्यतीत हो। उपदेश देनेका अधिकारी उच्च ही होगा।

उपदेष्टाकी प्राप्तिके लिये आचार्यदेवका आशीर्वाद व खोटे उपदेष्टासे हानिका वर्णन॥ये यतीश्वरके गुण जिस पुरुषमें पाये जायें, ऐसा उपदेशदाता गुरु ही सत्पुरुषोंका, हम लोगोंका हो। यहां आचार्यदेव उपदेष्टाकी अधिकारिता को बताकर श्रोतावोंको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसे योग्य उपदेश देने वाले गुरु भव्योंको प्राप्त होओ, कुर्धमके उपदेशसे धर्म काहू को मत हो। कोई पापभरी बात शास्त्रमें लिख जाये, ऐसा लेखक विद्वान् पापकर्म करने वालोंसे भी कई गुणा पापी

है। कोई पाप करता है तो उसने अपना व्यक्तिगत बुरा किया है, किन्तु जो अपने साहित्यमें, अपनी कलाके बलसे पापकी बातको धर्मरूपमें शामिल करके शास्त्रमें लिख जाता है वह तो अनेक लोगोंका होनहार बिगड़ता है। उसे महापापी कहा गया है। ऐसी ही उपदेश देने वालेकी बात है। उपदेश देने वाला यदि कुर्धर्मका पोषण करने वाला उपदेश दे तो वह उपदेष्टा महापातकी है। ऐसा उपदेष्टा किसीको मत मिलो। जो अहितकारी बुरी चीज है उसके लिए लोग कहते हैं कि दुश्मनकी भी ऐसी बात न होओ। उपदेष्टा उत्तम ही सबको प्राप्त होओ। कुमार्गको ले जाय ऐसा उपदेष्टा किसीको मत मिलो।

उपदेष्टाके गुणोंका उपसंहार॥गुरु वह है, जो गुणोंमें वजनदार हो। गुरु नाम वजनदारका है। यह चीज गुरु है, बहुत वजनी है। गुरु पुरुष वही हो सकता है जिसमें गुणोंका अधिकाधिक विकास हो। जो गुणोंसे भरपूरहो वह ही गुरु हो सकता है। जो गुरु हो, वही उपदेष्टा हो सकता है। उपदेष्टा दूसरों को भी भला उपदेश देकर दूसरोंका भला करता है और उस उपदेश देनेके माध्यमसे खुदका भी भला करता है, स्वयं भी पापों से बचता रहता है और दूसरे जीवोंको भी पापों से बचाता रहता है। ऐसा यह धर्मोपदेश नामका स्वाध्याय एक बड़ा तप बताया गया है। ज्ञानके विकासका नाम भी एक तप है क्योंकि जीवका उद्धार इस ज्ञान विकासके माध्यमसे ही सम्भव है, अन्य प्रकार नहीं है। अतः जो ज्ञान दान देता है, जो उपदेश देता है उसे उत्तमदानी कहा है। सो वह केवल दूसरोंका ही भला नहीं करता किन्तु खुदको भी एक सदाचारके मार्गमें लगाये रहता है। इस प्रकार वक्ता और उपदेष्टा के गुण बताये गए हैं। अब श्रोतामें क्या गुण होना चाहिये, शिष्य भी कैसा होना चाहिए? इस सम्बन्धमें अगले छंदमें कहेंगे।

**भव्यः किं कुशलं ममेति विमृशन् दुःखाद्भूशं भीतिमान्।
सौख्येषी श्रवणादिबुद्धिविभवः श्रुत्वा विचार्य स्फुटम्।
धर्मं शर्मकरं दयागुणमयं युक्त्यागमाभ्यां स्थितम्।
शृणवन् धर्मकथां श्रुतावधिकृतः शास्त्रो निरस्ताग्रहः ॥७॥**

भव्यता॥श्रोता कैसा होना चाहिए? जो उपदेशका लाभ उठा सकता है। इस सम्बन्धमें आज इस छंदमें वर्णन है। प्रथम तो भव्य होना चाहिए, जिसका होनहार मंगलमय हो, भला हो, ऐसा भव्य पुरुष होना चाहिए। इस सम्बन्धमें तो हम आपके कोई वशकी बात नहीं बतायी गयी है। जिसका होनहार अच्छा होनेको है वही श्रोता उपदेशका लाभ उठा सकता है ऐसा कहनेमें आप क्या शिक्षा लेंगे? कोई करने की बात तो न बतायी, होनहार भला हो, वह श्रोता कल्याणका अधिकारी है। यह ज्ञानी संत पुरुषकी दृष्टिसे कहा गया है। लोग कह देते हैं कि जिसका होनहार ही खोटा है, उसका धर्म में चित्त कैसे लगे? उससे यह बात जाहिर होती है कि वर्तमान नीतिकी योग्यता इसके ठीक नहीं है, तब धर्ममें कैसे लगे? वर्तमान बातों से भवितव्यता का अनुमान किया जा सकता है। श्रोता भव्य हो।

हितचिन्तना॥ श्रोताकी विशेषता बतायी जा रही है। श्रोताका यह चिन्तन हो, ध्यान हो कि मेरा हितरूप कर्तव्य क्या है? मेरी कुशलता किसमें है ऐसा जो अपना विचार रखते हों वे श्रोता उपदेशसे लाभ ले सकते हैं। कोई इस दृष्टिसे शास्त्र सुने कि देखें तो सही कि यह वक्ता क्या बोलता है, किस ढंगका इसमें ज्ञान है? जैसे कोई चक्षुरिन्द्रियकी तफरी करता हो, कर्णेन्द्रियकी तफरी करता हो, इतना ही मात्र लक्ष्य हो तो भला उस उपदेशसे लाभ तो नहीं मिल सकता है। अथवा जिसका यही परिणाम हो कि देखो कोई गलती यह बोल जायें, बस हम इनकी गलती पकड़ करके रोक देंगे और इनके मुकाबले हम अपनी प्रतिष्ठा बढ़ायेंगे, ऐसा परिणाम रख कर जो प्रवचन शास्त्रको सुनने वाला है, वह उपदेशका लाभ तो नहीं ले सकता है।

हितप्रयोगकी उत्सुकता॥ जिसके चित्तमें यह परिणाम हो कि मेरा कुशल, मेरा हित किस तरह हो, ऐसा जो ध्यान और उद्देश्य रखकर सुनने आया हो वह अपनी चित्तवृत्तिको इतना नम्र और शिक्षाग्राहिताको ऐसी प्रकृतिका बनायेगा कि उस उपदेशको उसही काल उतारनेकी कोशिश करेगा। जैसे उपदेशमें चल रहा हो कि परपदार्थ तो पर ही है, उनका विकल्प न करना चाहिए तो यह अंतरंगमें उस ही समय जिस समय सुन रहा हो उसको प्रायोगिकरूप अंतरङ्गमें देने को उत्सुक रहेगा और वह सर्वविकल्प तोड़नेका अभ्यास करेगा। जैसे एन०सी०सी० की शिक्षामें कमाण्डर जो शब्द बोलता है उसका पालन वे सभी शिक्षार्थी तुरन्त करते हैं। केवल उनका इतना ही ध्यान है कि हमारा यह कमाण्डर क्या बोलता है, तुरन्त ही उसका पालन करना, आराम करनेको कहे तो टेढ़ा पैर करके आराम लेना, सावधानको कहे तो दोनों पैर सामने रखकर सावधान हो जाना, लेफ्ट टर्न कहे तो बाईं ओर मुड़ जाना, राइट टर्न कहे तो दाईं ओर मुड़ आना यह सब सुननेकी प्रतीक्षा वे शिक्षार्थी करते हैं, पालन तुरन्त करना चाहते हैं और करते हैं। ऐसे ही कल्याणार्थी श्रोताजन इस बातके लिए उत्सुक रहते हैं कि जो बात शास्त्रमें उपदेशमें कही जाय उसका मैं इस ही समय पालन करके तो देखूँ।

श्रवणकालमें भी सत् श्रोताका अनुभव यत्न॥ भव्य श्रोताके यह तैयारी रहती है कि मुझे हितप्रयोग करनेमें लम्बा टाइम का अन्तर नहीं बनाना है। जो बात शास्त्रमें कही जाती है उसके विशद परिज्ञानके माफिक अपना आचरण, उपयोग, परिणमन बनाने पर होता है। जब जैसे कहा जाय इस आत्माके ध्यानमें निरुपम आनन्द है। जहां ज्ञानप्रकाशका ही दर्शन अनुभव चलता है वहां ही शुद्ध आनन्द प्रकट होता है। तो यह देहका विकल्प त्यागकर सुन तो रहा है कानसे अवश्य, पर अनुभवमें उतारनेका नहीं यत्न कर रहा है। भैया! इसही यत्नमें किसी क्षण आत्माकी झलक आये व उपदेशके एक दो शब्द सुनने में भी नहीं आ सकें, न आने दो, किन्तु जो उपदेशमें वक्तव्य है उसका पालन और अनुभव तो श्रोताने किया है। जैसे पूजन करते समयमें प्रभुके उस शुद्ध ज्ञानपुञ्ज स्वरूपपर दृष्टि देने से और उस ही समान अपने स्वभावका निरखना होने पर कदाचित ध्यान इतना विशुद्ध हो जाय कि चढ़ाना भूल जाय, अक्षतकी जगह पर नैवेद्य चढ़ा दे तो हो जाने दो भूल, विकल्प

मत करो। पूजाका जो प्रयोजन है, स्वरूप, झलक, वह तो पा लिया है। यों ही शास्त्रके मध्य कदाचित् वक्ताके आदेशके अनुसार अपना अंतरङ्ग उपयोग बनाने पर और उस अनुभवका यत्न करने पर कभी दो चार शब्द सुने बिना भी रह जाय तो कोई हर्ज नहीं। उपयोग यदि आदेश पालनेमें लगा है तो ठीक है। शास्त्रश्वरणका लाभ तो उसने पा ही लिया है। इतनी बड़ी उत्सुकताके साथ और अपनी कल्याणभावनाके सहित जो श्रोता शास्त्रश्वरण करता है, वह ही वास्तविक श्रोता है।

हिताहितविचारकता॥भैया! इतना कष्ट करके तो श्रोता घर छोड़ कर आया है, आध पैन घंटेका समय इसने लगाया है, आखिर कुछ श्रम तो किया, कुछ त्याग तो किया। यह त्याग और श्रम उसका सफल होगा जो अपने हितकी वाञ्छा रखकर श्रम करता हो। एक हितभावनासे दूर होकर कुछ भी विचार चित्तमें लेकर यह उद्यम करे तो दोनों ओरसे गया, घर भी छोड़ा, श्रम भी किया, विकल्प भी बनाया, पापका बंध भी किया। ऐसे श्रोताने कुछ भी तो हितकी बात नहीं पायी। जो श्रोता अपने हित और अहितका विचार रखता है वह है हिताभिलाषी श्रोता।

संसार संकटभय॥योग्य श्रोता दुःखसे निरन्तर भयशील रहते हैं। कैसे दुःखसे? घर छोड़कर मनको संभालकर बैठने के दुःखकी बात नहीं, किन्तु संसारमें जो सर्वत्र दुःखके पहाड़ छाये हुए हैं, उन दुःखोंसे जो डरता है वही श्रोता वास्तविक श्रोता है। इस संसारमें कहाँ सुख है? जो भी यह जीव कल्पना करता है और परजीव, परसम्पदाकी ओर आकर्षित होता है वह दुःखी ही होता है, क्लेश ही पाता है, अपना आत्मबल समाप्त कर देता है। उसे संतोष और आनन्द नहीं होता है।

संसारमें दुःखका साम्राज्य॥संसारमें कहाँ सुख है? बाह्य चीजोंमें कुछ भी कल्पना करके तो बतावो। स्त्री, पुत्र, परिजनमें कोई सुख है क्या? उनमें रहने वाले सभी जानते होंगे कि कितना कष्ट और कितनी विडम्बनायें भोगनी पड़ती हैं। रंचमात्र तो कल्पनाका सुख है, पर जीवन पर बोझ ढोना पड़ता है। कहाँ सुख है? क्या धन सम्पदामें सुख है? धन सम्पदा पाकर प्रथम तो अपना होश ठिकाना रहना यह कठिन बात है और फिर कितने इसके बैरी हो जाते हैं, जो धन खींचने की कोशिश करते हैं वे ही इसके बैरी हैं। सरकार, बंधुजन, और डाकू और छली-कपटी लोग ये सब धनकी ओर आंख लगाये रहते हैं। अनेक रक्षाके प्रयत्न करने पर भी कदाचित् यह रक्षित नहीं रहता है और फिर अन्तमें तो साराका सारा पूरा छोड़कर सबको जाना ही होगा। कौनसा सुख सम्पदासे मिलता है? जैसा परिणाम किया, इस जीवनमें जैसा कर्मबन्धन हुआ उसके अनुसार परभवमें भी समागम मिलेगा। संसारमें सर्वत्र दुःख ही दुःख है।

अशरणतापर एक दृष्टान्त॥एक बार राजा भोजने विद्वानोंकी सभा में एक विद्वान पंडितसे एक समस्याकी पूर्तिके लिए कहा। अब यह नियम तो है नहीं कि पंडितका बाप भी पंडित हो, वकीलका बाप भी वकील हो, डॉक्टरका बाप भी डॉक्टर हो, कुछ ऐसा नियम तो नहीं है। उस विद्वानका पिता पढ़ा-लिखा बिल्कुल न था, उसीसे समस्या पूछी। इस समस्याकी पूर्ति करो “क्यामः कि कुर्मः हरिणशिशुरेवं विलपति।” वह पिता तो कुछ जानता न था, सो पास बैठे हुए अपने

बच्चेसे बोला अपनी देहाती भाषामें पुरारे बापा । कहीं कहीं बापा पुत्रको बोलते हैं, देश-देशकी रीति है । उसका अर्थ यह है कि पूर्ति कर दे रे बेटा । विद्वान् बड़ा चतुर था । उसने उन्हीं शब्दोंसे शुरू करके छंद बना दिया ताकि राजा भोजको यह पता न पड़ जाय कि इसका पिता मूर्ख है । राजा यह जानें कि इसने अपने बच्चे को इन शब्दोंसे शुरू करके पूर्ति करनेका संकेत किया है । वह छंद बोलता है “पुरा रेवापारे गिरिरितिदुरारेहशिखरे, गिरौ सव्येऽसव्ये दवदहनज्यालाव्यतिकरः । धनुःपाणिः पञ्चान्मृगयुशतकं धावति भृशं, ऋ यामः किं कुर्मः हरिणशिशुरेवं विलपति ।” उसने शब्द बोला था पुरा रे वापा । उसने उन्हीं शब्दोंको थोड़ा अगल-बगल मिलाकर बोला है ‘पुरा रेवापारे’ । इस छंद का अर्थ है कि एक हिरणका बच्चा जंगलमें एक जगह खड़ा है, जिसके आगे रेवा नदी बह रही है और अगल-बगल पहाड़में भयंकर आग लग रही है और पीछे १०० शिकारी हाथमें धनुष-बाण लिए हुए हिरणके बच्चेको मारने दौड़ रहे हैं । उस समय हिरणका बच्चा कहता है कि मैं कहां जाऊँ, क्या करूँ, विलाप करता है । उस हिरणके बच्चेसे भी अधिक दयनीय दशा हम सब संसारी जीवोंकी है । कहां जायें, क्या करें, कोई मार्ग ही नहीं दिखता । क्या करें जिससे शान्ति मिले ।

जन्तु जीवोंका असहायपना॥यह मोही प्राणी दूसरोंसे स्नेह करता है यह भी शान्तिका उपाय नहीं है । कोई बड़ा व्यापार रोजगार धनसंचय भी करता है वह भी शान्तिका उपाय नहीं है और कोई धर्मकार्यकी ओर भी दृष्टि देता है तो वह भी वहां शान्ति नहीं पाता है, परिजन और धर्म परम्परामें आए हुए लोगोंका समूह भी ऐसा विचित्र मिलता है कि विकल्प शान्त होकर निर्विकल्प परमब्रह्मके वहां दर्शन नहीं पा सकते । कहां जायें, क्या करें, कैसे सुख हो, कोई मार्ग यहां नहीं सूझता है । कितना कठिन क्लेश है इस जगत्में । जन्में मरें, जन्में मरें । इस लेफ्ट राइटसे ही फुरसत नहीं मिलती है । तो और की तो बात ही क्या करें? जैसे एक बांसकी पोल है, उसके बीचमें एक कीड़ा पड़ा है । दोनों छोर पर आग लगी है, अब वह कीड़ा क्या करे, वह वहां कितना दुःखी रहता है ऐसे ही यह जन्तु किसी जगह पड़ा है संसारमें, जिसके ओर-छोर पर जन्ममरणके दुःख लगे हैं । यह जन्तु क्या करे बतलावो? हम आप सब जन्तु हैं । लोग छोटे-छोटे कीड़ों को जन्तु कहते हैं । अरे जन्तु नाम उसका है जो जन्म लेता रहता हो । जैसे ये कीड़े-मकौड़े मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, तो उनके पैदा होते रहनेकी बान देखकर लोग उन्हें जन्तु कहते हैं । क्या हम आप ऐसी ही पैदा होते रहनेकी कुटेब नहीं रख रहे हैं? हम आप भी उन्हीं जन्तुओंमें शामिल हैं । जब तक यह जीव जन्म पर विजय नहीं पाता तब तक यह जन्तु ही है ।

पापका फल क्लेश॥भैया! सर्वत्र दुःख ही है । गतियां चार हैं नरक, तिर्यज्य, मनुष्य और देव । नरकके दुःखका तो कहना ही क्या है? सभी शास्त्र बताते हैं, किन्तु कुछ लोग सोचते हैं कि जो यहां है सो ही है नरक और स्वर्ग । कहीं और नहीं है । हमें आप यह बतावो कि कोई मनुष्य एक मनुष्यको मार डाले तो उसका न्याय क्या है? फांसी का हुक्म । और कोई मनुष्य सैकड़ों हजारों पशुओं और मनुष्योंको मारे तो उसका न्याय यहां क्या हो सकता है? उसको तो इससे भी

अनगिनतेगुना दंड मिलेगा। उचित दंड देना किसी राजाके वशकी बात नहीं है, उसे प्रकृति दंड देती है। नरकादिक गतियोंमें जन्म लेकर वहां अनगिनते बार मरना पड़ता है। नारकी जीवोंके शरीरकी यह विशेषता है कि उनका शरीर छिन्न-भिन्न होकर फिर उसे कुटना पिसना पड़ता है, इतना विशेष दण्ड उन नारकियोंको मिलता है। पुण्यका उदय है, सो मनुष्यको शक्ति मिली है। अब कोई क्रूरता से पशु-पक्षियों पर छुरियां चला कर हिंसा करके अपना मन-मौजमें करले किन्तु इसके फलसे वे बरी न हो सकेंगे।

अपने आचरणोंपर दृष्टिपात्॥भैया! कुछ अपने आपके आचरणों पर भी दृष्टि दो हम आप एक उत्तम कुलमें पैदा हुए हैं, यहां मांस खानेका तो कोई प्रसंग ही नहीं है, लेकिन जो जिस कुलमें उत्पन्न हुआ है उस कुलके योग्य वह आचरण न करे तो भी वह हीन दशामें माना जाता है। इस पवित्र कुलमें रात्रिभोजनका स्पष्ट निषेध है, जरा मनुस्मृति उठाकर देख लो, जैनसिद्धान्तके ग्रन्थोंको देख लो, रात्रिभोजनको मांस तुल्य भोजन बताया है। अनुमान कर लो कि जहां सूर्यका प्रकाश ही नहीं है, बिजली की कितनी ही रोशनियां कर ली जाएँ, पर वहां कीटाणुवोंका आवागमन बना ही रहता है। दूसरे, बड़ी अंधेरी रात्रिमें निशाचर डोलते हैं, उन निशाचरों का आवागमन भी चलता है। ऐसे समयमें भोजनका करना कहां योग्य हो सकता है। रात्रिभोजनमें हिंसाका दोष है। जिसे अपनी कुशलता चाहिए वह रात्रिभोजन छोड़ दे।

अब्रतियोंमें रात्रिभोजन-त्यागकी स्थिति॥अब्रत अवस्थामें रहकर रात्रिभोजनका त्यागी वह कहलाता है जो जल और औषधिको छोड़कर समस्त वस्तुवोंका त्याग करे। यह अब्रती पुरुषों की बात कह रहे हैं। ब्रती लोग तो जल और औषधिको भी रात्रिको नहीं ग्रहण करते हैं। देखो, सबसे कठिन वेदना प्यास की होती है। भूखकी वेदना कठिन नहीं होती है। दिन में ही खाना खा लिया जाय तो रात्रिको भूखकी वेदना नहीं होती है। तो प्यासकी वेदनाको मिटानेके लिए जल रख लिया और कभी बीमार हुए तो उसके लिए औषधि रख ली। कौनसी इसमें दिक्कत है? लेकिन जब मन स्वच्छन्द है तब इसकी ओर दृष्टि नहीं जाती है और बल्कि जो धर्मकर्तव्य से रहें उनको यह ढोंगी है अथवा अन्य कुछ है इस तरहकी दृष्टि करते हैं। पूर्वकालमें कितनी बड़ी प्रतिष्ठा थी जैनकी? जैन लोग पहिले ऐसे ही सदाचारके थे। आज भी जो रही सही शेष प्रतिष्ठा है यह पूर्व आचारोंका फल है।

आचरणसे प्रतिष्ठा॥पहिले समयमें ईमानदारी में, राजदरबारमें, न्यायालयमें जैन लोगोंकी प्रामाणिकता मानी जाती थी। जैनने जैसी गवाही दे दी, उसही तरहका न्याय किया जाता था। खजान्ची होना जो बहुत बड़े उत्तरदायित्वकी बात है। इतिहासमें देखनेसे मालूम होता है कि जैन लोग ही अधिकतर खजान्ची होते थे। आज भी जैन लोग अधिकतर खजान्ची पाये जाते हैं। अब यदि सदाचार विचारसे गिरकर प्रतिष्ठा खो दी तो इससे अपना भी अकल्याण किया और भावी पीढ़ियोंका भी अकल्याण किया।

जैनोंके प्राथमिक तीन सदाचार॥भैया! अपने जो तीन आचरण हैं रात्रिभोजनका त्याग, जल छानकर पीना और देवदर्शन करना ये तीन बातें तो एक धर्ममार्गमें बढ़नेकी ही बातें हैं। आजकल लोग यह प्रश्न कर देते हैं कि जब हम नलका पानी पीने लगे तो उसे छाननेकी क्या जरूरत है, लेकिन नलका पानी भी छानकर यदि पियें तो उसमें श्रद्धा गुणकी विशेषता होती है। उसको अपने कर्तव्यकी स्मृति तो बनी हुई है। कई दिनोंका भरा हुआ नलीमें पानी है, उसमें छोटे-छोटे जीव-जन्तु पड़ जाते हैं। देवदर्शन हम अपने रात दिनके समयमें प्रभुकी जरा भी स्तुति न करें किसी भी क्षण, तो हमारा जीवन किस कामका है? क्या विषयभोगके साधनोंमें रमकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं? हमारा कर्तव्य है कि हम रोज प्रभुका स्मरण करें। गृहस्थजन निरालम्ब रहकर अपने घर पर ही सोचलें कि हम प्रभुका स्मरण यहाँ कर लेंगे, भले ही वे हठ करके चार-छः दिन प्रभुके स्मरणकी बात करलें, पर कुछ दिन बाद वे सब बातें नष्ट हो जायेंगी। गृहस्थोंको अवलम्बन की आवश्यकता है और वह अवलम्बन है देवप्रतिमा। इसमें ही भक्ति और उपासना करें। हम अपने कर्तव्य पर कुछ बने रहें तो हम कुछ धर्ममार्गमें भी आगे अपना कदम बढ़ा सकेंगे।

अशुद्ध परिणामरूप संकटसे भीतता का गुण॥ये श्रोता दुःखोंसे निरन्तर भय रखने वाले हैं। किन दुःखोंसे? संसारके संकटोंसे। खोटा परिणाम हो, उसको यह ज्ञानी श्रोता विपदा मानता है, तब मुझमें दूसरोंका सतानेका भाव ही क्यों बने? मुझमें किसी प्रकारकी कुबुद्धि करनेका परिणाम ही क्यों बने? यह ज्ञानी अशुद्ध परिणामोंको संकट समझ रहा है, क्योंकि इसमें जीव संक्लेशमय बना रहता है। इस दुःखसे जो निरन्तर भय बनाये रहते हैं, वे श्रोता शास्त्रश्रवण का लाभ ले सकने वाले अधिकारी श्रोता हैं। श्रोता के लक्षणोंके वर्णनमें दो-तीन लक्षण यहाँ तक कहे गये हैं, अब बाकी लक्षण आगे आयेंगे।

परमार्थ सुखका अभिलाषित्व॥कैसा श्रोता धर्मधारणा करनेका पात्र होता है? इस सम्बन्धमें यह वर्णन चल रहा है, अर्थात् हम सब लोगोंकी बात का वर्णन है। कोई श्रोता दूसरे हैं उनकी बात कही जा रही है ऐसा नहीं सोचना, किन्तु हम ही श्रोता हैं, हमारी ही बात कही जा रही है। जो वक्ता भी हो, वह भी ऐसा ध्यानमें लाये कि जो मैं बोलता हूँ वह अपनेको सुनानेके लिए बोलता हूँ, इसलिए वक्ता भी मैं हूँ और श्रोता भी मैं हूँ। हम सबकी यह चर्चा चल रही है। यह श्रोता सुखका अभिलाषी है। जो सुखका इच्छुक होगा वह ही सुखके उपायकी बात सुनेगा।

संसारी जीवोंके सुखके उपायोंकी विफलता॥इस लोकमें इस जीवने सुखके लिए कितने उपाय रच डाले, किन्तु किसी भी उपायसे इसे सुख नहीं मिला। बचपनमें नाना खेल खेले, सोचा इससे सुख मिलेगा किन्तु वहाँ भी सुख न मिला। जवानीमें विवाह किया, सोचा इससे सुख मिलेगा, किन्तु वहाँ भी सुख न मिला, लड़ाई झगड़े उपद्रव आदिके अनेक कष्ट सहने पड़े। सोचा कि संतान होंगी, उनसे सुख मिलेगा, किन्तु वहाँ भी सुख न मिला। कोई पुत्र कुपूत निकल जाये तो उसका कितना दुःख होता है? चिन्ता और शल्य बनी रहती है, और यदि कोई पुत्र सपूत निकल आये तो

उसका दुःख कुपूतसे भी ज्यादा होता है। कुपूतके विषयमें तो एक बार घोषित कर दिया कि इससे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, लो झगड़ा मिटा। पुत्र यदि सपूत है तो उसके आकर्षणमें आकर जिन्दगी भर बोझ ढो-ढोकर बड़ा कष्ट उसके पीछे उठाना पड़ता है। धन सम्पदाके बढ़ाने में सुखकी वाञ्छा की, किन्तु वहां भी सुख न मिला, वहां भी शान्ति संतोष न प्राप्त हुआ, वहां भी अनेक कल्पनाओंके क्लेश ही क्लेश बने रहे। सुखके लिए क्या-क्या उपाय नहीं किये? सब कुछ हुआ, वृद्ध हो गये तो अब जो शहरोंके निवासी हैं उनके यहां यह कायदा है कि जिसके नामकी जायदाद है वह उसका मालिक है, पैसा पासमें है, जायदाद उसके नामपर है तो लड़के लोग, अन्य लोग उसे खत्म करने की सोचते हैं। सोचते हैं कि यह जल्दी मरे तो यह सारी सम्पत्ति अपनी बने। कहां सुख ढूँढ़ा जाय? कोई बूढ़ा गरीब हो तो उसे कोई पूछता नहीं है। गांवमें कोई धनी हो तो वहां जायदाद तो नाम होती नहीं है, वह तो गरीबोंकी तरह ही गुजारा करेगा। कहां सुख ढूँढ़ा जाय? इस जीवनमें आरम्भसे लेकर अंत तक क्लेश ही क्लेश हैं।

जीवका सर्वत्र अकेलापन॥हे आत्मन्! कुछ अपने हितका निर्णय तो करो। तुम अकेले ही तो हो, अकेले ही जन्म होता, अकेले ही मरण होता। अकेले ही बंध है, अकेले ही संसारमें रुलना है और अकेले ही मुक्त होना है। सर्वत्र तेरे अकेलापन है। तू किसकी आशा करता है? अपने पैरों पर खड़े होने वाले मनुष्यको लोकमें भला कहते हैं। तू अपने ज्ञानबल पर खड़ा हो, अन्यकी आशा तज दे।

आशाजाल॥एक गरीब ब्राह्मण था। उसकी लड़की की शादी होनी थी। वह राजाके पास गया, बोला महाराज, आपकी लड़की की शादी है, कुछ सहयोग दे दीजिए। राजाने कहा अच्छा जो तुम कल मांगोगे सो मिल जायेगा। अब वह शामको खाटपर लेटा हुआ सोचता है कि मैं राजासे क्या मांग लूँ? हो न हो एकदम १०० रुपया मांग लूँ, उसकी निगाहमें १०० रुपया ही बहुत थे। फिर सोचा कि शतपति तो अमुक पड़ौसी भी है, इतनेसे क्या काम बनेगा? हजार मांग ले। फिर सोचा कि हजार तो अमुक पड़ौसीके भी हैं। न हो तो लाख मांग लें। फिर सोचा कि लाख मांगा तो क्या मांगा, करोड़ मांग लें। फिर सोचा कि करोड़ भी हो गये और राज्यशासन राजा के हाथ तो मेरी क्या महत्ता है? जब तक राज्यशासन हाथमें न हो तब तक तो वह बड़ा नहीं कहला सकता। अच्छा आधा राज्य मांगेंगे, फिर सोचा कि आधा राज्य हमने लिया, आधा राजाके पास है तो दुनिया तो यही कहेगी कि यह मांगा हुआ राज्य है। सो हम तो पूरा राज्य मांगेंगे। रात भर नींद न आयी इसी कल्पना से।

बुद्धिसौष्ठव॥सुबह चार बजे भजनका टाइम हुआ। भजनमें पाठ में अब अकल ठिकाने आने लगी। उस विप्रने सोचा अरे राज्यमें क्या रक्खा है, सारी आफत है, हम तो आधा ही राज्य लेंगे पूरा नहीं, अरे आधा राज्य लिया तो उसमें भी तकलीफ है। सो हम राज्य न लेंगे, करोड़ रुपये ही ठीक हैं। फिर सोचा अरे करोड़पति भी तो चिन्तित हैं, इसी तरह लाख, हजार और १०० किसीमें भी वह शान्तिका निर्णय न कर सका कि कितना मांगे? इतने में राजा सामने से निकला। राजाने

कहा अरे विप्रदेवता! मांग ले तू क्या चाहता है? तो विप्र बोला महाराज, माफ कीजिए, जब तक हमने मांगा नहीं तब तक तो रात भर चैन नहीं पड़ी, आपसे कुछ माग लें तो न जाने मेरी क्या दशा होगी?

आत्मवैभवका अधिकारी॥भैया! कहां सुख ढूँढते हो, किस जगह सुख है? यह मोहकी नींदका एक स्वप्न है। सब कुछ बिखर जायेगा। कोई भी यहां न रहेगा। सो कोई ऐसा बुद्धिमानी का काम करलो जिससे सदाके लिए सुख मिल जाय। बड़ा काम है यह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रिकी उपासना। जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा ही विश्वास रहे, यह तो है सम्यग्दर्शन। जो पदार्थ जिस स्वरूपका है उस रूप ही ज्ञान रहे यह है सम्यग्ज्ञान और अपना जैसा स्वरूप है उसके अनुरूप ही आचरण रहे यह है सम्यक्‌चारित्र। इस रत्नत्रयपरिणाममें ही पारमार्थिक आनन्द है। श्रोता को वास्तविक सुखका अभिलाषी होना चाहिए। मायामय सुखसे विरक्ति हो और परमार्थ सुखकी प्राप्ति हो, इस भावनाको लेकर जो उपदेशका श्रवण है उससे आत्मवैभव बढ़ता है।

शुश्रूषा व श्रवण॥सबसे पहिले श्रवणकी इच्छा होना ही वैभव है। धर्मवार्ताकी शुश्रूषा भी बड़े सुभवितव्यतासे होती है। सो सुननेकी इच्छा होना यह भी एक वैभव है। कितने ही लोग तो धर्मकी बात सुननेकी भी इच्छा नहीं रखते हैं। तो सर्वप्रथम सुननेकी इच्छा ही जगे, सुननेका मौका ही मिले तो यह ही एक वैभव है। शुश्रूषाके बाद फिर धर्मवार्ताका श्रवण मिलना द्वितीय वैभव है। इसके बाद फिर सुने हुए तत्त्वका ग्रहण करना तृतीय वैभव है। कितने ही लोग श्रवण करे भूल जाते हैं। श्रवण करके ग्रहण न करें, जैसे कि लोग कहने लगते हैं कि सुनो और खड़े हो तो पल्ला झाड़कर खड़े हो, जो कुछ पल्लेमें आए उसे झटक दिया, खड़े हो गए। इससे क्या लाभ मिला?

मोहियोंकी शास्त्र सुननेकी विधि॥कोई एक सेठ साहब थे, उनको शास्त्र सुननेका बड़ा शौक था। एक दिन वह शास्त्रमें लेट आए। पंडित जी ने पूछा, सेठ जी आज आप लेट कैसे हो गए? सेठ बोले कि पंडित जी, वह ६ वर्षका जो मुन्ना है ना, सो वह भी आज शास्त्र सुनने आनेकी हठ कर गया। फिर क्या हुआ? मैंने उसे बहुत मनाया, न माना, फिर ८ आने पैसे दिये, सिनेमाका टिकट कटाकर भेज दिया तब यहां आये। अरे तो उसे भी साथ ले आते, क्या हर्ज था? पंडित जी! तुम जानते नहीं हो। हम सुनने की विधि जानते हैं कि कैसे सुना जाता है, सुना और उठे तो पल्ला झाड़ कर उठे। हमें उसकी विधि मालूम है, पर वह तो लड़का है, वह यदि अच्छी तरह शास्त्र सुनले और हृदयमें धारण करले आपकी बात और घर छोड़कर चल दे, मेरा घर सूना हो जाय तो हम क्या करेंगे? तो जब उसे सिनेमा भेजा तब हमें छुट्टी मिली। सुननेकी विधि भी कैसी अनोखी होती है मोही जनोंकी?

उपदेशके ग्रहण, धारण, विज्ञान व ऊहापोहका वैभव॥सुननेके बाद में शिक्षाको ग्रहण कर लेना यह एक वैभव है। कुछ लोग ग्रहण भी कर लेते हैं अर्थात् जान भी लेते हैं, किन्तु उसे भूलें नहीं, उसकी धारणा बनाये रहें, यह उससे भी उत्कृष्ट वैभव है। धारणा करलें, इसके बादमें

अवधारित तत्त्वके सम्बन्धमें अपना विचार बनायें कि हेय क्या है, उपादेय क्या है? विशेष विचार करें, यही है विज्ञान। यह उससे भी उत्कृष्ट वैभव है। विज्ञान के बाद प्रश्न और उत्तर उठाकर उसका निर्णय करलें, यह है तर्क वितर्क, ऊहापोह। यह उससे भी उत्कृष्ट वैभव है। देखिये तर्क वितर्क हितकी भावना से होना चाहिए। केवल किसीका मुँह बंद करनेके भावसे जो तर्क वितर्क किया जाता है, वह श्रोताके गुणमें शामिल नहीं है।

कुतर्ककी अप्रतिष्ठापर एक दृष्टान्त [किसी गांवमें एक तेली था। सो उसने एक ऐसी अकल लगायी कि कोल्हूमें जो बैल चलता था उस बैल के गलेमें घंटी बांध दी। जब तक यह चलता रहेगा तब तक घंटी बजती रहेगी और हम जानते रहेंगे कि यह चल रहा है और जब घंटी बन्द हो जायेगी तो समझेंगे कि अब बैल खड़ा हो गया है। सो आकरके फिर हांक देंगे। इसके पीछे-पीछे न चलना पड़ेगा। वहांसे निकलते हुए एक वकील साहब बोले, क्यों भाई यह क्या कर रखा है? इस बैलके गलेमें घंटी कैसे बांध रखी है? तो तेलीने बताया कि यह घंटी जब तक बजती रहेगी तब तक जानेंगे कि बैल चल रहा है और जब घंटी बजना बंद हो जायेगी तब जानेंगे कि बैल खड़ा हो गया है और आकर खेद देंगे। तो वकील साहब बोले कि यदि यह बैल खड़े ही खड़े घंटी बजाता रहे तब तो तुम धोखेमें पड़ जाओगे। तो तेली बोला कि वकील साहब जब हमारा बैल भी वकील हो जाएगा तो हम दूसरा इन्तजाम कर लेंगे। तो ऊहापोह किसी सीमा तक ही उचित है और वह भी हितके भावसे।]

दुर्लभ नरजीवनकी जिम्मेदारी [भैया! सच तो बात यह है कि जिसने इस जगत्के समस्त समागमोंको असार समझ लिया है, कहीं सार नहीं, कहीं सुख नहीं यों निश्चय कर लिया है, ऐसा पुरुष ही कल्याणमें उत्सुकता रख सकता है। क्या है यह ठाठ, क्या है यह देह? मायामयी स्कंध है, जलके बुलबुलेकी तरह है। जिसके मिट जानेमें आश्चर्य नहीं, किन्तु बने रहनेमें आश्चर्य है। ऐसे इस मायामय असार देहपर गर्व करना यह कितना बड़ा व्यामोह और पागलपन है? अरे खुद ही तो खुदको खुद ही की ओर आकर गुप्त ही गुप्त खुद ही में तो कल्याण करना है। मनुष्यभव पाया है तो एक कल्याणके लिए। इस भवमें कल्याणकी बड़ी जिम्मेदारी है। मनुष्य भवसे सब ओरसे रास्ते खुले हैं, यह नरक भी जा सके, स्थावर भी हो सके, देव भी बन सके; मोक्ष भी जा सके। भले ही आजके कालमें हीन संहनन होनेके कारण मुक्तिका मार्ग नहीं खुला है, लेकिन मुक्ति मनुष्यकी ही तो होती है; जब कि और जीवोंके रास्ते विभिन्न नियंत्रित हैं।

मनुष्योंको छोड़कर अन्य जीवोंकी गतिका नियन्त्रण [देव मरकर देव नहीं बन सकते, नारकी नहीं बन सकते, नारकी मरकर देव और नारकी नहीं बन सकते। कुछ और बनना पड़ेगा। इसी प्रकार सभी जीवोंमें कुछ न कुछ नियंत्रण है, पर मनुष्योंके लिए तो सब पथ खुले हुए हैं। यदि बहुत आरम्भ परिग्रह मूर्छामें ही चित्त बसाया, तृष्णा और लोभसे रंगे ही रहे, तो उसका फल नरकगतिमें जन्म लेना बताया है। सदाचारसे अपना जीवन बितायें। छल कपट रखें तो मायाचारके

परिणाममें तिर्यंच होना बताया है। व्रत तप धर्मानुराग संयम साधनासे जीवन बितायें तो उसके परिणाममें देवगतिमें जन्म होना बताया है और थोड़ा आरम्भ, थोड़ा परिग्रह व धर्ममें लीनता रही आये तो उसका फल मनुष्यगतिमें जन्म लेना बताया है। जो चाहें सो पा सकते हैं।

सुगम लाभके परित्यागका अविवेक॥देखिये भैया! यह जीव भाव बनाता है। भावके अतिरिक्त कुछ नहीं करता है। जो कुछ होने वाला है वह होने वाले पदार्थके ही परिणमनसे होता है। जीव तो केवल मन बनाता है और भावसे ही यह दुःख पाता है, भावसे ही यह आनन्द पाता है। कुछ यहां रकम नहीं लग रही है, कुछ दूसरोंकी मिन्नत नहीं करना। सारी सुष्टियां भावके अनुसार हो रही हैं। तो जब भावसे ही आनन्द मिलता है, भावसे ही दुःख मिलता है तो दुःखके योग्य यह भाव करे, आनन्दके योग्य भाव न करे तो उसे कौन विवेकी कहेगा? जैसे किसी मनुष्यके सामने एक ओर खलका टुकड़ा रख दें, एक ओर रत्न रख दें और उससे कहें कि जो तू मांगे सो ही मिल जाएगा और वह मांगे खलका टुकड़ा तो वह आदरके योग्य नहीं है। ऐसे ही हम आप सबको सब कुछ भाव के द्वारा प्राप्त होता है। भावोंसे ही क्लेश मिलता है, भावोंसे ही आनन्द मिलेगा और वहां भी हम आनन्दके योग्य भाव न करें तो यह हमारी मूढ़ता है।

तत्त्वार्थश्रद्धानमें विशद अवबोधपर एक दृष्टान्त॥तर्क वितर्क उत्पन्न करना एक बड़ा वैभव है और इसके बाद अन्तिम वैभव है उसका श्रेय और अनुभव बनाना। आजकी मानी हुई दुनियामें एक आश्चर्य बेलगोलमें बाहुबलिकी मूर्तिको गिना है। बाहुबलिकी मूर्ति इतनी सुन्दर और विशाल है जो करीब हजार वर्ष पुरानी बनी है। फिर भी ऐसा लगता है कि अभी ही बनी हो। खुले मैदान में मूर्ति है, वहां किसीने आज तक पक्षीकी बीट नहीं देखी है और न कभी कोई पक्षी बैठा देखा है, ऐसी अतिशयकी मूर्ति है। उसका हम वर्णन करें, जिसने न देखा हो वह सुने तो सुनने से बोध तो हो जायेगा कि हां कोई इस तरहकी मूर्ति है। इतने गज लम्बे पैर हैं, इतने गजके हाथ हैं, फोटो बता दें तो उससे भी पहचान हो जाती है। आप सब जान लेंगे, किन्तु जब वहां जाकर उस मूर्तिके दर्शन करें तो करने पर जो जानना होता है, उस जाननेमें और यह सुनकर जाननेमें अन्तर है या नहीं? अन्तर है। सुनकर जाननेमें वह विशद ज्ञान नहीं होता और जो स्वयं दर्शन करके जाना है, वह विशद ज्ञान है।

तत्त्वानुभवमें विशद तत्त्वबोध॥ऐसी ही तत्त्वकी बात है। तभी यह बात सुनी है, आत्माकी चर्चा सुनी है। अमूर्त है, ज्ञान दर्शन स्वरूप आनन्दमय है, सबसे न्यारा है, सब कुछ सुनकर जान तो रहे हैं, एक तो जानना और एक ऐसा जानना कि संसारके समस्त पदार्थोंको भिन्न असार समझकर उनकी उपेक्षा कर दें। अब किसी भी परपदार्थको यह न जानना चाहें, कहीं उपयोग न दें और ऐसी स्थितिमें स्वयं ही केवलज्ञान स्वरूपका अनुभव हो जाय, परिणम हो जाय, एक शुद्ध सामान्य स्थिति हो जाय उस समय आत्मा को जानें। इन दोनों ज्ञानोंमें अन्तर है। स्वयं प्रयोग करके अनुभवा जाय तो वहां है सम्पर्दर्शनकानुभव और इस अनुभवके विषयको केवल सुनने सुनानेकी

भी जो बात है वह है केवल बात का ज्ञान। यों यह श्रोता तत्त्वशब्दान् रूप अपना वैभव बनाता है। इतने जिसमें गुण पाये जायें वह शिष्य है, वही शिष्य आत्मकल्याण कर सकता है। इन गुणोंके बिना शिष्यपना नहीं बन सकता है। यह श्रोता धर्मको सुन कर विचारकर ग्रहण करता है। अहो! यह धर्म सुखकारी है, दयागुणकरिके भरा हुआ है, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही हित है। यों इस स्वाभाविक धर्म में जिसकी रुचि होती है, जिसका इसमें ही आदर होता है वही श्रोता वास्तविक शिष्य कहलाता है। यों कुछ श्रोताके गुण कहे हैं। इन्हें जानकर अपना परिणाम ऐसा बनाना चाहिए जिससे अपने आत्महित करनेका ही भाव हो और उस भावका ही हम स्वरूप अनुभवें, धर्म धारण करें, ऐसी ही अपनी परिणतिसे अपना कल्याण सम्भव है।

स्वरूपबोधकी पात्रता॥जैसे कहते हैं कि सिंहनीका दूध सोनेके पात्रमें ही ठहरता है, इसही प्रकार वस्तुतत्त्वका स्वरूप एक ज्ञानी विरक्त पुरुष में ही ठहर सकता है। इस जगत्‌में आत्महित करने वाला वस्तुस्वरूपका सम्यक् अवबोध है। सिवाय सम्यग्ज्ञानके कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो इस जीवको संतोष ला सके। खूब परख लीजिए। स्वयं ही सत्त्व है, स्वयं ही परिणमनशीलता है और प्रत्येक पदार्थ स्वयंके परिणमनसे परिणमता है। ऐसी स्थितिमें मेरे लिए सहाय मेरी विशिष्ट करतूत ही हो सकती है। किसी दूसरेसे मिन्नत करें, किससे आशा रक्खें, बड़े-बड़े धुरन्धर समाद् चक्री हो गये, भारी सेना, समस्त सेवकगण सामने खड़े रह गए, वहां भी उन्हें कोई बचा न सका। किसकी आशा रक्खी जाय और किससे संतोष मिले?

सन्तोषोत्पादक ज्ञान॥भैया! एक बात और भी ध्यानमें लायें, संतोष नामका परिणमन स्वयंमें स्वयंका है। संतोषका स्रोत स्वयंसे ही निकलता है। जब यह जीव सर्वसे विविक्त ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र निजतत्त्वकी सुध लेता है तब ममता और अहंकारका बोझ खत्म हो जाता है। उस स्थितिमें यह आनन्द स्वयं ही अपने आपमें बरस पड़ता है। आनन्दका देने वाला लोकमें कोई दूसरा नहीं है। प्रत्येक वस्तु है, उसका स्वभाव है, उसका परिणमन है। वस्तुका जो स्वरूप है उसके अनुकूल ज्ञान होना लाभदायक है। कोई पुरुष सिद्धान्त बनाए वस्तुओंके अपनी इच्छाके अनुकूल परिणमन करनेका तो यह कभी नहीं हो सकता है। करना कुछ चाहता है और होता कुछ है। इस प्रकार उसमें आकूलताएँ ही रहती हैं। कोई मनुष्य जो पदार्थ जैसा है उसके अनुकूल अपनी धारणा बनाए, उसका ज्ञाताद्रष्ट रहे, उसका परिणमन उसमें ही है यों निरखे और अपना परिणमन स्वभाव कर्तव्य क्या है, वह अपनेमें देखे तो उसे शान्ति मिल सकती है।

अपनी संभालमें सफलता पर दृष्टान्त॥जैसे कोई दो पुरुष किसी पहाड़पर यथेष्ट विहार करना चाहते थे। एकके मनमें आया कि इस पहाड़ पर कांटे बहुत हैं, इस समस्त पहाड़ पर चमड़ा बिछा दें, फिर मनमाना खूब इस पहाड़ पर घूमेंगे। दूसरे पुरुष ने यह सोचा कि मैं अपने पैरोंमें आधी पिंडली तक बहुत मजबूत चमड़ेके जूते पहन लूँ; फिर इस पहाड़पर मनमाना घूमेंगे। तो अब यह बताओ कि सफल कौन होगा? जो अपने पैरोंमें जूते पहिनकर घूमेगा। सारे पहाड़ पर चमड़ा बिछाने

की धारणा बनाने वाला सफल न हो सकेगा। ऐसे ही दुःख है किस बातका इस लोकमें? पर पदार्थका परिणमन अपनी इच्छाके अनुसार करना चाहते हैं और वह होता नहीं है तो दुःखी होते हैं। चीज एक है और चाहने वाले दसों हैं। कल्पना सबकी जुदा है, तो किस किसकी सिद्धि होगी? यह सिद्धिका मार्ग नहीं है किन्तु समस्त लोकको स्वतन्त्र जान जायें कि यह भी एक जीव है, इसमें भी वासना, संस्कार, धारणा, ज्ञान, इच्छा, कषाय सबके अपने अपने माफिक भरी पड़ा है, इसका परिणमन इस ही के अनुसार हो रहा है, बस मेरा काम जानने देखने का है, इससे आगे मेरा अधिकार नहीं है कि मैं किसी वस्तुको अपनाऊँ, बस इस ज्ञानप्रकाशमें संतोष मिलेगा।

चोरका स्वरूप [लोकव्यवहारमें कहते हैं कि जो दूसरेकी चीजको अपनाता है वह चोर है। चोरमें और क्या होता है? दूसरेके घरमें रक्खी हुई चीजको अभी यह मान रहा है कि यह इसकी है और उसे आंख चुरा कर चुरा ले, अपने घरमें रख ले अर्थात् दूसरेकी चीजको अपनी बना लेना यही चोरी है। वहां व्यवहारमें यह देखते हैं कि दूसरेकी चीज हड्डप लेना सो चोरी है, पर भीतरमें मर्म यह है कि उसे मान लिया कि यह तो चीज मेरी हो गयी, थी दूसरेकी, इसही का नाम चोरी है। इसी तरह संसारके सब जीवोंकी बात है। आत्माको छोड़कर बाकी समस्त पदार्थ पर हैं पराये हैं। जिस मकानमें रहते हैं वह मकान भी पर है, पराया है, जिस देहमें रहते हैं यह भी पर है, पराया है। जिन परिजनोंके बीचमें रहते हैं वे भी पर हैं, पराये हैं। इन परवस्तुओंको हम अपना रहे हैं या नहीं? यह देह ही मैं हूँ। मैं मोटा हूँ, दुबला हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझपर बड़ा बोझ है। ये सारी देहकी बातें ही तो अपनायी जा रही हैं। परवस्तुवोंको जो अपनाता है उसका नाम अभी क्या रक्खा था? चोर। यह सारा जगत् परमार्थः चोर ही तो है।

मुफ्त संयोग और मुफ्त वियोग [देहवत, मकानको, धनको, परिजन को अपना रहे हैं, परचीजको बरजोरी अपना मान रहे हैं, परवस्तु तो सदा नोटिस दे रही है कि हम तुम्हारे नहीं हैं, पर ये संसारी प्राणी उन परचीजोंको जबरदस्ती अपनाते हैं, अपनेको अधिकारी मानते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान। जो कुछ जगतमें स्थिति प्राप्त हुई है, यह सब वर्तमान भावदृष्टिसे देखो तो मुफ्त प्राप्त हुई है। आत्मा तो ज्ञानमात्र है। वह तो केवल भाव बनाता है, इस भावके जरियेसे तो कोई चीज नहीं प्राप्त हुई है। द्रव्य पुण्यका उदय था, समागम जुट गया है, आत्माके भावने वर्तमानमें क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। ये सब समागम मुफ्त ही मिले हैं और ऐसा ही जानो कि ये मुफ्त ही बिछुड़ जायेंगे। न कुछ उनमें मेरा पुरुषार्थ लगा और न किसी तरह ये रह सकेंगे। इस बीचमें जो कुछ भी भाव बनाया, कल्पना बुरी बनायी, उसका पापबंध अलग किया, जिसका फल भोगना शेष है।

मुफ्त संयोग और मुफ्त वियोगपर एक दृष्टान्त [एक चोर था, वह राजाकी घुड़शालामें पहुंचा। वहांसे बहुत बढ़िया घोड़ा चुराकर लाया और मेला जो पशुवोंका होता है उसमें खड़ा कर दिया। ग्राहक लोग आए। घोड़ा था मानो ४००) का, लेकिन ग्राहकोंसे बतावे वह तिगुना दाम।

ग्राहक पूछे कितनेका दोगे? उत्तर देता बारह सौ का देंगे। अब इतनेका कौन खरीदे? दस पांच ग्राहक इसी तरहसे आये और पूछकर लौट गए। एक बूढ़ा चोर भी आया, जिसने अपने जीवन भर चोरीका काम किया था। पूछा कितनेका दोगे? कहा १२००) का देंगे। उसकी आवाज और विराम सुन करके पहिचान गया कि यह घोड़ा चोरीका है। पूछा भाई, इसमें क्या गुण है? बोला अरे, इसमें कला है, इसकी चाल अच्छी है। अच्छा देखें तो इसकी चाल। हाथमें लिए था एक मिट्टीका हुक्का, सो उसे पकड़ा दिया और स्वयं घोड़े पर बैठ गया। घोड़ेको झट उड़ा ले गया। वह वहीं का वहीं खड़ा रह गया। बादमें पहिले वाले ग्राहक आए, पूछा क्या घोड़ा बिक गया? वह बोला हाँ बिक गया। कितने में बिक गया? जितने में लाये थे उतने में बिक गया। मुनाफा कुछ नहीं मिला? हाँ, मुनाफेमें एक मिट्टीका हुक्का मिल गया है। तो जैसे चोरीका घोड़ा चोरीमें चला गया, ऐसे ही समस्त समागमों की बात है। सभी पदार्थ मुफ्त ही मिले हैं और मुफ्त ही बिछुड़ जायेंगे। मुनाफेमें पापका हुक्का ही साथ रह जायेगा।

बकरीकी तरह निजकार्यकी धुन॥ जिनका मोह नहीं मिटा है वे पुरुष तत्त्वके स्वरूपकी बातको हृदयमें नहीं जोड़ सकते। उत्तम श्रोता वहीं है जिसका चित्त ज्ञान और वैराग्य से वासित है। श्रोतावोंको अपने हितके कामसे प्रयोजन है। कुछ श्रोता शुभ लक्षणके होते हैं, कुछ अशुभ। आज शुभ लक्षण वाले श्रोता बताये जाते हैं। किस-किस ढंगके श्रोता हुआ करते हैं? कुछ तो शास्त्रोपदेशकी बात तो हृदयमें धरकर अपना लाभ कर सकते हैं। एक होते हैं बकरी समान। आपने बकरियोंको देखा होगा, उन्हें केवल अपने कामका प्रयोजन है। जहाँ पत्ते मिल गये वहीं खा लिये, चाहे कोई कुछ करता हो, पर उनसे उन बकरियोंको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही उत्तम श्रोताजन केवल आत्मलाभकी ही बात सुनते हैं, उन्हें अन्य बातोंसे प्रयोजन नहीं है। कौन संस्थान है, कैसी जगह है, कौनसा दिन है, क्या भविष्यकी बात है इत्यादि कुछ भी अन्य बातोंसे उन्हें प्रयोजन नहीं है। स्वहित कैसे हो, किसमें हो, इसही बातका जिन्हें ध्यान रहता है ऐसे श्रोतावोंमें यह शुभ गुण होता है।

गौ, हंस व दर्पणकी तरह कुछ श्रोता॥ कुछ श्रोतावों को गौसम बताया है। जैसे गाय खाती है घास, किन्तु देती है दूध। वह घास जैसी अल्प मूल्य वाली चीज खाकर बहुमूल्य वस्तु देती है, इसी प्रकार कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि अल्प ही उपदेश सुननेसे महान लाभ लूट लेते हैं। हंसकी तरह कुछ श्रोता होते हैं, जो वक्ताके अवगुणोंको न ग्रहण कर गुण ग्रहण करते हैं। जैसे हंसमें यह गुण होता है कि मिले हुए दूध और पानीमें वह दूधको ही ग्रहण करता है, ऐसे ही कुछ श्रोता वक्ताके गुणको ही ग्रहण करते हैं। कुछ श्रोता दर्पणकी तरह होते हैं। जैसे दर्पणमें अपना चेहरा देख लिया, जो कुछ भी मिट्टी वगैरह लगी हो उसे हटा दिया, ऐसे ही कुछ श्रोता अपने अवगुणोंको निरखकर व निकालकर उनके गुण ग्रहण करने की कोशिश करते हैं।

तुला कसौटीके समान श्रोता॥ योग्य हेय उपादेयमें बहुत शुद्ध तोल कर सकते हैं। वे तुलासम हैं। जो भी सारतत्त्व हो उसे वे ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ श्रोता कसौटीसम बुद्धिसे

कसकर परीक्षा करके हेयको तज देते व उपादेयको ग्रहण करते हैं। प्रतिभासम्पन्न और सहज वैराग्यसे सुवासित जो पुरुष होते हैं वे तत्त्वके स्वरूपको हृदयमें धारण कर सकते हैं। लोकमें धन कन कंचन राज सुख सब सुलभ हैं। इनमें कुछ सार नहीं है। बड़े-बड़े राजा हुए, अपने-अपने समयमें उन्होंने अपना बड़ा रौब जमाया, प्रभाव जमाया, पर आज क्या हैं? आज उनका कुछ नाम निशान भी नहीं है। सम्पत्तिमें, समागममें वास्तविक सुख और सार नहीं है। एक यथार्थज्ञान हो जाय, जो कि हम आप सबके स्वाधीन हैं, केवल अंतरङ्गमें विचारने भरकी बात है। यथार्थ सिद्धि हो जाय तो इस सम्यग्ज्ञानके समान लोकमें वैभव अन्य कुछ नहीं है।

सुयोग और कर्तव्य॥आज कितना सुयोग हम आपने पाया है। स्थावरोंकी योनिसे निकलकर, कीट-पतंगोंकी योनिसे निकलकर आज मनुष्य भवमें आये। देव संयम धारण नहीं कर सकते, देव श्रुतकेवली नहीं हो सकते, देव निर्वाण नहीं पा सकते। मनुष्य संयमी बन सकते हैं, श्रुतकेवली हो सकते हैं, निर्वाण भी पा सकते हैं, समस्त भवोंसे श्रेष्ठ भव यह मनुष्य का है। लेकिन मनुष्य होकर भी वही आदत यदि बनी रही जैसी कि पशु-पक्षी की योनिमें रहकर किया था तो इस मनुष्यभवके पा लेने से कुछ भी लाभ न मिल सकेगा। कल्याणका अवसर तो इस मनुष्यपर्यायसे ही मिलेगा। जब तक बूढ़े भी नहीं हैं, कोई रोग भी नहीं है तब तक ज्ञानार्जन करके समयका सदुपयोग करें। यह ही एक लाभदायक बात होगी, किन्तु इस दुर्लभ मनुष्य भवको यदि विषयोंके सुखमें, व्यर्थके मोहमें ही गवां दिया तो कुछ भी लाभ न उठा पाया। जो चीज त्रिकाल भी अपनी नहीं हो सकती, उसे जो अपनी माने, उसका सुधार न हो सकेगा।

नरबलका सदुपयोग॥जैसे गन्ना होता है, उसके बीचके पोरोंमें कीड़ा लग गया हो तो वह भीतर लाल-लाल हो जाता है, जो कि खाया नहीं जा सकता। उसही गन्नेको कोई मूर्ख चूसकर खराब करदे तो उसने अपना भी मुँह खराब किया और गन्ना भी खराब किया। कोई विवेकी गन्नेके पोर काटकर खेतमें बो दे तो उससे अनेकों गन्ने पैदा होंगे। गन्नेकी जड़ तो खायी नहीं जाती, बड़ी कठोर होती है और गन्नेका ऊपरी भाग नीरस होता है वह भी चूसनेमें नहीं आता। केवल गन्नेका बीचका हिस्सा चूस सकते हैं और उसमें भी लग जाय कीड़ा तो कर्तव्य क्या है कि उसे चूसकर अपना मुँह न बिगाड़ें, न गन्ना बरबाद करें, उसके पोर काटकर बो दें, फिर तो न जाने उससे कितने गन्ने पैदा होंगे। ऐसे ही यह मनुष्य जीवन है। इसमें तीन पोर हैं बुढ़ापा, जवानी और बालपन। बुढ़ापेमें तो कुछ किया नहीं जा पाता। बालपनमें अज्ञान रहता है। केवल एक जवानीका समय ही ऐसा है कि जिसमें पुरुषार्थ करनेकी भी शक्ति है और ज्ञान प्रतिभा भी मिली हुई है, लेकिन उस जवानीके पोरोंमें लग गया विषयभोगों का कीड़ा और इसे विषयसुखमें ही गवां दें तो यह विवेककी बात नहीं है। विवेक तो यह है कि इस जवानीको सिर्फ ज्ञानार्जनमें, धर्ममें, तपस्यामें लगावें अर्थात् बो देवें तो इसके फलमें जो शुभ भाव होंगे, धर्मदृष्टि होगी वह लाभ देगी। इस कर्तव्यको भूलकर कुमारगमें चलें तो कोई सहाय न होगा।

आत्मशरणकी बुद्धि॥भैया! यह बुद्धि तज दो कि मेरे मित्र, पुत्र, स्त्री, माता, पिता, मकान, सम्पदा आदि मेरे शरण हैं, इस भ्रमको छोड़ दो कि ये कोई मेरे शरण हैं। आप सदाचारसे रहते हैं तो आपके पुत्र, स्त्री माँ, बाप आदि भी खबर लेंगे और आप दुराचारसे रहते हैं तो कोई भी आपकी खबर न लेगा। तो शरण तो सदाचार ही हुआ। सदाचार होने से ही दूसरे लोग खबर लेते हैं। वह सदाचार क्या है? आत्मधर्म। तो धर्म ही शरण हुआ, दूसरे लोग शरण नहीं हुए। ऐसा जानकर अपने आपकी शरणमें पहुँचें, तत्त्वज्ञान बनाएँ, सम्यक श्रद्धान् बनायें, सम्यग्ज्ञान बनायें और वैसा ही अपना आचरण बनाएँ। कुछ अपना भी काम कर लेंगे तो काम देगा, न कर सके अपना काम तो इस जीवनमें भी क्लेश होगा और परभव में भी क्लेश होगा। ज्ञानी विरक्त श्रोता उपदेशग्रहणका पात्र है, उसमें किसी कुमार्गकी बातका आग्रह नहीं होता है। जिसे जिद् हो, हठ हो वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। जिसे आत्मकल्याणकी रुचि है वही उपदेश का पात्र है। ऐसे इस श्रोताके प्रकरणमें श्रोताके लक्षण कहे हैं, जिसमें श्रोताजन अपनी ऐसी योग्यता बनाएँ कि इस ग्रन्थमें जो घटनाएँ आयेंगी, उन सबको धारण कर सकें।

अशुभ श्रोताओंमें पाषाणसम श्रोता॥इस ग्रन्थमें आत्मा पर अनुशासन किया है। जिस पर अनुशासन करना है वह पुरुष कैसा होना चाहिए अर्थात् उपदेश ग्रहण करनेके योग्य कैसा पुरुष हो सकता है? उसका यह प्रकरण चल रहा है। कुछ ऐसे विपरीत श्रोता होते हैं जो उपदेशके योग्य नहीं हैं। जैसे कोई श्रोता पाषाणसम होते हैं। जैसे पाषाणमें न भीतर कोमलता है, न बाहर कोमलता है, उस पर कितना ही पानी डाला जाय तो पानी का प्रवेश उसके भीतर नहीं हो सकता है। ऐसे ही कोई श्रोताजन इतने विपरीत आशय वाले हों कि धर्मका उपदेश उनके हृदयमें प्रवेश न कर सके तो वह श्रोता अयोग्य बताया है। कौनसा श्रोता योग्य है? इसका वर्णन पहिले ही किया जा चुका है, अब शेष रहे खोटे श्रोताओंकी बात कही जा रही है।

भग्नघटसम श्रोता॥कुछ श्रोता फूटे घड़ेके समान होते हैं। जैसे फूटे घड़ेमें पानी भरा जाय, कुएंसे खींचा जाय तो ऊपर आते ही आते पानी सब कुएंमें गिर जाता है, घड़ेमें नहीं रह पाता है। ऐसे ही जिसे कहते हैं कि इस कानसे सुना उस कानसे निकल गया। इस प्रकारके श्रोताजन होते हैं वे उपदेश के योग्य नहीं हैं अर्थात् वे लाभ नहीं लूट पाते हैं। श्रोताओंमें सबसे प्रमुख विशेषता बतायी गयी थी कि इसमें मेरा क्या हित है, किसमें मेरी कुशलता है इस बातका जो चिन्तन रखता हो वही वास्तविक श्रोता हो सकता है। एक आत्मकल्याण की चाह न हो तो समस्त अवगुण उसमें आ जाते हैं, यह एक ऐसी मूल औषधि है। आत्मकल्याणकी वाज्ञा ही सब अवगुणोंको दूर कर देती है और जैसे आत्महित हो सके उस प्रकारसे प्रवृत्ति कराने लगती है। अतः सबसे पहिले हम आपमें यह वाज्ञा जगनी चाहिए कि हमारा किसमें हित है? हम उस तत्त्वको ढूँढें।

विषयोंसे अतृप्ति॥भैया! कुछ अनुभवने भी बताया होगा इस जीवनमें किसी भी परवस्तुसे सुख नहीं मिल सकता। जैसे रोज खाते हैं, फिर दूसरे दिन वैसे ही भूखे रह जाते हैं। भूख लग उठती

है, वह खाया हुवा बह जाता है, मानों कुछ खाया ही न हो। ऐसे ही भोग हैं। इन भोगों को भोगते हैं और भोगनेके कुछ थोड़े समय बाद वैसे ही उत्सुक और प्यासे बने रहते हैं। उनसे कौनसा तत्त्व मिला अब तक? किसी भी परवस्तुमें मेरा हित नहीं है। मेरा हित मेरे ही स्वरूपमें बसा हुआ है। जो जाननहार है वही जान सकता है।

अनुभवकी अवक्तव्यता॥प्रथम तो विषयोंकी भोगी हुई बात भी मुखसे प्रकट नहीं की जा सकती है। वह अनुभवमें उतर जाय यह तो सम्भव है, पर शब्दों द्वारा नहीं बतायी जा सकती है। कोई बतावे कि मिश्री का स्वाद कैसा होता है, कोई शब्द ही नहीं हैं कि कोई बता सके? भले ही वह अनेक युक्तियोंसे प्रतिपादन करे कि देखो गन्ना मीठा होता है ना, उस गन्नेका रस ही रस निकाल लीजिए, उसे गाढ़ा करके राब बना लीजिए तो उस रससे भी अधिक मीठा वह राब होता है। उसका मैल छुटा कर गुड़ बना लीजिए तो वह गुड़ उस राबसे भी अधिक मीठा होता है। उस गुड़का भी मैल छुटाकर शक्कर बना लीजिए तो वह शक्कर उस गुड़से भी अधिक मीठी लगती है, उस शक्करकी चासनी करके उसका भी मैल निकालकर विधिवत् मिश्री बना ली जाय तो तुम अंदाज कर लो कि वह तो कितनी मीठी होगी। इस तरह बातोंसे बहुत कुछ बता दिया, लेकिन जिसने मिश्री नहीं चखी है उसके चित्तमें विशद ज्ञान हो ही नहीं सकता कि मिश्री कैसी मीठी होती है? उसे बातोंमें समय गुजारने की अपेक्षा मिश्रीकी डली खिला दीजिए तो उसे खाकर वह स्वयं अनुभव कर लेगा कि मिश्री ऐसी मीठी होती है।

ज्ञानानुभूतिकी मात्र अनुभूतिगम्यता॥आत्मतत्त्व के अनुभव की बात कितने ही शब्दोंमें कही जाये, सामान्य परिज्ञान चाहे हो जाय, पर जिसने निर्विकल्प होकर अपने शुद्ध ज्ञानप्रकाशका अनुभव नहीं किया है उसको विशद परिज्ञान नहीं हो सकता है। आत्मानुभवका विशद बोध उसके ही होगा जो परद्रव्योंको हेय, भिन्न, असार समझकर उनका उपयोग करना छोड़ दे और सहज विश्राम पाये, उसके ही ऐसी शुद्ध ज्ञानानुभूति स्वयं होती है कि उस आनन्दमें तृप्त होकर वह जानता है कि आत्मतत्त्व कैसा है? वह भावात्मक है, ज्ञानात्मक है, यह सब विशद परिज्ञान उसके हो जाता है। यह आत्मतत्त्वकी बात जब तक विपरीत आशय रहता है तब तक यह भली प्रकार सुनी भी नहीं जा सकती है।

मेघसम श्रोता॥कुछ श्रोता मेंढ़ाकी तरह बताये गए हैं। मेंढ़ा जैसे पालनहार मालिकको ही मारने लगता है, ऐसे ही विपरीत आशय वाले श्रोताजन वक्ताके दोषोंको ही निरखकर दोष-ख्यापन करके अथवा अन्य प्रकार वक्ताको ही मारने लगते हैं। कहीं यह वक्ता वर्णन करने लगे कि परस्त्री सेवन महान् पाप है, उसके सेवने वाला नरक जाता है, तो जो परस्त्रीगामी होगा वह ऐसा ख्याल बड़ी आसानीसे कर सकता है कि यह वक्ता मेरेको ही लक्ष्यमें लेकर ऐसी गालियां देता है और वह मारनेका, घात करनेका उद्यमी हो जाय तो इसमें कौनसे आश्चर्यकी बात है? जब तक आत्मकल्याणकी भावना उत्पन्न नहीं होती है तब तक श्रोतामें जो गुण होने चाहियें वे प्रकट नहीं हो पाते हैं। उन

समस्त गुणोंके विकासका मूल आत्मकल्याणकी भावना है। यदि सुख विषयोंमें होता तो आचार्यदेव विषयोंके भोगने को ही धर्म बता देते। कोई कठिनाई की बात न थी, किन्तु ये समस्त विषय प्रथम तो पराधीन हैं, क्षणिक हैं और फिर उनसे सुख भी नहीं आता है, केवल यह जीव कल्पना करके अपनी कल्पनावोंको विषय बनाकर सुखकी कल्पना करता है। ये विषय जितनी देर तक प्राप्त हैं उतनी देर तक भी क्लेशके कारण हैं और उनके वियोगके समय भी यह बड़ा कष्ट मानता है। श्रोताका प्रकरण इस ग्रन्थमें भूमिकाके अन्तमें रखा है कि जिनको सुनना है उन्हें पहिले अपनी पात्रता बनाना है, जिससे ये समस्त उपदेश टिक सकें। आजके इस प्रकरणके बाद इस ग्रन्थका प्रारम्भ होगा।

घोटकसम श्रोता॥ श्रोतावोंमें कुछ ऐसे भी विपरीत आशयके श्रोता होते हैं, जिन्हें शास्त्रमें घोटकसम कहा है। जैसे घोड़ा धास डालने वालेको ही काटता है। घोड़ेमें करीब-करीब ऐसी आदत होती है कि धास डालने वालेको अपने दांत निकाल कर हिनहिनाता है व कुछ मुँह भी पसारता है, तो जैसे थोड़ा धास देने वालेको ही काटता है, यों कुछ श्रोताजन उपकार करने वाले वक्तासे भी द्वेष रखते हैं। सर्वत्र यह बात देखते जाना कि जितने भी अवगुण श्रोतामें हो सकते हैं उन अवगुणों की जड़ केवल अपने हितकी वाञ्छा न रहना है। जो अपनी कुशलकी चिन्तना नहीं करते हैं, जिन्हें सांसारिक विषयवासनाएँ सताती रहती हैं उनको धर्मवार्ता सुनने, ग्रहण करने और अवधारण करनेका अवकाश ही नहीं है। हम इस भावसे सुनें कि हमें अपना हित करना है। संसारके समस्त समागम ये मेरे शरणभूत नहीं हैं, इनसे मेरा कुछ पूरा न पड़ेगा। मुझे कुछ अपने आपमें ही अंतस्तत्त्व निरखना है, जिसके दर्शनके प्रसादसे नियमसे सुखपूर्ण अवस्था प्रकट होती है।

चलनीसम श्रोता॥ एक श्रोता चलनीसम बताया गया है। जैसे आठा छाननेकी चलनी सार-सार चीजको तो नीचे गिरा देती है और छुकलन छिलका असार चीजको अपने आपके अन्दर रख लेती है, ऐसे ही सार-उपदेशपर, तत्त्वकी बातपर तो दृष्टि न जाय, उसे तो फेंक दे और जो दोषकी बात हो, कुछ त्रुटिकी बात हो याने कल्पनामें कुछ त्रुटि समाई हो उसे ग्रहण करले। इस प्रवृत्तिमें हम आपका कुछ लाभ नहीं है। कुछ लोग अपने आपका बड़प्पन दिखानेके लिए भी वक्तासे चर्चा, प्रश्न शंका, रोष अथवा कुछ चुभती हुई वचनशैलीसे बोलना आदिक व्यवहार करते हैं। ऐसे श्रोताजनोंको उपदेश ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं कही गई है।

भैया! करना क्या है? विडम्बना और विपदामें तो हम आप इतने अधिक फंसे हुए हैं, देहके बन्धनमें पड़े हैं, कर्मोंके बंधमें जकड़े हैं और निश्चयतः अपने आपके विभावके बन्धनमें जकड़े हैं, इतने कठिन गुलामीमें पड़े हैं, और फिर इन मायामय रूपोंको मायामय लोगोंमें दिखाने की मायामय कोशिश कर रहे हैं। इसमें सार क्या मिलेगा? गुप्त ही गुप्त अपने आपमें ही अपने आपको बसाकर चिन्तन करके, बातचीत करके कुछ हितकी समस्या हल कर लें, हितकारी पायें, यह हम सबके लिए लाभकारी बात है।

मशकसम श्रोता॥कुछ श्रोता मशकसम बताये गये हैं। जैसे हवासे भरी हुई मशक ऊपरसे कितनी सुहावनी लगती है किन्तु भीतर रिक्त है। ऐसे ही ऊपरसे हम अपना धर्मात्मापन प्रकट करें, किन्तु तत्त्वज्ञानानुभूति इसमें न बसी हो और अपने कषायसंस्कारके माफिक ख्याति तो धर्मात्माके रूप में चाहे और जो आत्माकी ख्याति है, प्रसिद्धि है, वह हममें न बस पाये तो हम अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। श्रोतावोंके सम्बन्धमें भलापन क्या-क्या होते हैं, इसका वर्णन तीन दिनोंसे चल रहा था। आज चूँकि यह भूमिका समाप्त हो रही है और ग्रन्थके वक्तव्यका आरम्भ अगले छंदसे होगा तो कुछ विपरीत आशय वाले श्रोतावों की बात कह रहे हैं ताकि हम उस विपरीतताको जानकर उस विपरीत आशय को त्यागें, हृदयको स्वच्छ बनाएँ ताकि इस इष्ट उपदेशको धारण करनेके पात्र बन सकें।

सर्पसम श्रोता॥हम शास्त्र सुनें, किन्तु सुनकर उसमेंसे केवल दोषमयी बातोंको ही उगलें, दूसरोंको बतायें। क्या हुआ आज? यों यों कैसे किया? किसी शब्दके तीन-चार अर्थ भी हो सकते हैं। उसमें से हितकारी अर्थको त्यागकर अनिष्ट अहित अर्थका ख्यापन करके हम केवल दोषोंका ही विस्तार करें तो ऐसी स्थितिमें ऐसे श्रोताजनोंको शास्त्रमें सर्पसम कहा गया है। दृष्टान्तमें यों जानना कि जैसे सर्प दूध पीवे तो वह अमृत अथवा एक शुद्ध रस नहीं बनता, वह विषरूप ही परिणत होता है। ऐसे ही जब हम में कोई पर्यायबुद्धिकी बात अटकी है। मैं मनुष्य हूँ ऐसे ही परिणमन, इसमें ही आत्मीयताकी प्रसिद्धि है तो वहां ब्रह्मस्वरूपकी बात उसका गुण स्वभाव हमारे ग्रहणमें नहीं आ सकता है। सभी इन अवगुणोंके सम्बन्धमें यह जानते जायें कि जब तक आत्मकल्याण की भावना नहीं जगती है तब तक नाना प्रकारके अवगुण हममें समाये रहते हैं। आत्महितकी विशुद्ध भावना जगने पर वे सब गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं और सर्व दोष स्वयं टल जाते हैं। जैसे व्यवहारमें एक विनय गुण ऐसा है कि निष्कपट निःस्वार्थ विनयवासनाकी सिद्धि, विनयकी परिणति की जाय तो उसमें सभी गुण स्वतः प्रकट होने लगते हैं।

महिषसम श्रोता॥कुछ सुनने वाले ऐसे भी विपरीत आशयके होते हैं जो स्वयं भी कुछ ग्रहण न करें और वातावरण भी गंदा बना दें। बोलकर चर्चा करके क्रोध भरी प्रवृत्ति दिखाकर कि समस्त अन्य श्रोताजनोंका भी बिगाड़ करदें, ऐसे श्रोतावोंको महिषसम बताया गया है। अपने आपमें भलापन प्रकट करनेके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अवगुणों की जांच करें। हमारेमें अवगुण हों तो उन्हें निकालकर अपनी स्वच्छता बनायें।

विडालसम श्रोता॥भैया! बिलावको देखा होगा। कहीं दूध रक्खा होगा तो वह दूध पीना तो भूल जायगा और दूध रखे हुए बर्तनको उलट देगा, ऐसे ही उपदेशको धारण करना तो दूर रहा, उस उपदेशके समयका, वातावरणका इसने ऐसा उलट-पलट कर दिया कि वह सब अवसर चला जाय। श्रोतावोंके गुण और अवगुणोंकी चर्चा चल रही है। कोई यदि इस बातको सुनकर स्वयंमें कोई कमी हो और ऐसा सोचले कि वाह ये तो हमारा लक्ष्य करके यों कह रहे हैं, तो भाई ऐसी बात

नहीं है। यह प्रकरणवश कहा जा रहा है, उस क्रमका भंग न करके इस प्रकरणको पूरा करने के बाद इस ग्रन्थमें आत्माके लिये किस प्रकार अनुशासन किया है, कैसे आत्माको कुपथ से हटाकर सत्यथमें लगानेकी प्रेरणा की है, कितने कोमल और प्रिय शब्दों से सम्बोधन किया है ये सब बातें इस ग्रन्थमें पाकर अपने आपका प्रकाश पायेंगे।

सारभूत तत्त्व॥समस्त शास्त्रोंमें उपदेशका सारभूत, उपदेश सुनने योग्य तत्त्व मात्र इतना है कि हम अपने आपको यथार्थ समझ जायें अर्थात् परकी अपेक्षा बिना, परके सम्बन्ध बिना केवल अपने आप ही मेरा जो स्वरूप रह सकता है उस स्वरूपको हम परिचयमें पायें कि मैं क्या हूँ? इस सहजस्वरूपके परिचयके प्रसादसे ही यह मोहका महान् संकट टलता है।

आत्मपरिचय बिना क्लेशोंका प्रसंग॥जगतके सभी जीव एक परमानन्दमय स्वभाव वाले हैं, किसीको कोई कष्ट नहीं है, किन्तु कष्टरहित केवल ज्ञानानन्दस्वरूप मेरा है इसका जब परिचय नहीं होता है तो चूँकि आनन्दका कुछ न कुछ परिणमन करते रहने का इस जीवका स्वभाव है, इसे ऐसा अपना तो परिचय है नहीं, तब परवस्तुवोंमें बुद्धि अटकती है और वहां यह निर्णय बनाता है कि ये भोग, ये विषय, ये पदार्थ मेरा हित करने वाले हैं, आनन्द देने वाले हैं, किन्तु बात होती है उल्टी, कारण कि भिन्न और क्षणिक पदार्थमें इसने आत्मीयता की है। जो कभी मेरे हो नहीं सकते उनको अपना मानना, अपना समझना यह तो क्लेशका ही कारण है।

मोहमत्तकी चेष्टापर एक दृष्टान्त॥जैसे मार्गमें सड़कके किनारे किसी गांवके निकट कोई पागल आदमी बैठा हो, सड़कपरसे अनेक लोग गुजरते हैं, कोई मोटर वाले, कोई तांगे वाले सभी वहांसे गुजरते हैं। वे अपना मोटर तांगा आदि खड़ा करके खाने पीने के लिए कुएं पर आ जायें और फिर खा पीकर अपने मोटर तांगा आदिको लेकर वे तो चले जाते हैं, पर यह पागल दुःखी होता है कि हाय मेरी मोटर चली गई, मेरा तांगा चला गया। ऐसे ही ये समस्त पदार्थ अपनी परिणतिसे ही मेरे निकट आते हैं, अपनी ही परिणतिसे बिछुड़ जाते हैं, किन्तु निकट आने पर इस मोहमत्त प्राणी ने परमें ऐसी कल्पना बना ली है कि यह चीज तो मेरी ही है, पर वह चीज कब तक रह सकेगी? अपनी अवधिपर उसका वियोग होगा तब यह दुःख होता है हाय मेरा पिता गया, मेरी माँ गयी, मेरा पुत्र गया, मेरा धन गया। इस प्रकार हाहाकार करता है, रुदन मचाता है।

क्लेशविनाशका उपायभूत परिज्ञान॥समस्त दुःखोंके मिटानेका उपाय मात्र इतना ही है जो बड़ी धीरतासे, सुगम रीतिसे कर लिया जाता है ‘निजको निज परको पर जान’। अपना जो सहज आत्मस्वरूप है उसे तो यह मैं हूँ यों जानो और इस आत्मतत्त्वके सिवाय अन्य जितने भी पदार्थ है, धन वैभव सम्पदा हैं इन्हें पर जानो। ये समस्त परद्रव्य अपने ही चतुष्टयमें तन्मय होकर रहा करते हैं। यह मैं आत्मपदार्थ अपने ही द्रव्य क्षेत्र, काल भावमें तन्मय होकर रहा करते हैं। मेरी जो शक्ति है और उन शक्तियोंका जो परिणमन है बस उन शक्तियोंमें और व्यक्तियोंमें ही मैं तन्मय रह पाता हूँ। अन्य पदार्थकी शक्तियों और व्यक्तियोंमें कोई अन्य पदार्थ प्रवेश भी नहीं कर सकता। मेरा जो क्षेत्र है, मैं जितने में विस्तृत हूँ, उस निज क्षेत्रमें ही मैं रहा करता हूँ। शरीरमें बसकर भी

शरीरका क्षेत्र जुदा है, मेरा क्षेत्र जुदा है, आकाशके एक ही क्षेत्रमें मेरा क्षेत्र भी पड़ा हुआ है। शरीरका क्षेत्र भी पड़ा हुआ है। फिर भी स्वक्षेत्रकी अपेक्षा मेरा क्षेत्र पृथक् है, शरीरका क्षेत्र पृथक् है। मैं अपने ही क्षेत्रमें, प्रदेशमें तन्मय हूँ। मेरा जो परिणमन होता है, उस ही परिणमनमें तन्मय हूँ, मैं किसी भी अन्यकी परिणतिमें तन्मय नहीं हो सकता।

भेदविज्ञानमें गुणोंका विस्तार॥जैसे जब किसीके बुखार आए तो बुखारका अनुभव किसे होगा? सभी प्रायः जानते हैं, बुखारका अनुभव उसे ही होता है जिसे बुखार आता है। दूसरेको बुखार आये तो उसके थर्मामीटर लगाकर निरख लेते हैं कि इसके इतना बुखार है, लेकिन उसके बुखारका अनुभव नहीं हो सकता है, यह साधारण ज्ञान हुआ। इसी प्रकार मेरे में जो कल्पना जगती है वह मेरे ही अनुभवकी तन्मयतासे होती है, किन्तु दूसरे किन्हीं भी जीवोंके किसी भी परिणमनका अनुभव नहीं होता। यों मैं सबसे न्यारा हूँ, अपने आपमें हूँ, ऐसा भेदविज्ञान होनेपर कल्याण की भावना जगती है। कल्याणभावनामें समस्त गुण उपस्थित हो जाते हैं।

वक व शुकसम श्रोता॥कोई श्रोता वकसम कहे जाते हैं। जैसे बगुला ऊपर उज्ज्वल है, किन्तु अन्तरङ्गमें मलिन है। ऐसे ही कोई श्रोता पुरुष ऊपरसे वचन और कायकी प्रवृत्तिसे उज्ज्वलता प्रदर्शित करते हैं, किन्तु मन दोषग्रहण, पापसेवन आदि दुर्वृत्तियोंसे मलिन रहता है। जिनके निज कुशलकामना नहीं है उनकी ऐसी ही मायाचारमयी परिस्थिति हुआ करती है। कोई श्रोता तोतासम होते हैं। जैसे सुआको जितना सिखावो उससे जितना बुलवावो उतना बोल लेता है, किन्तु उस बोलका अर्थ या भाव कुछ भी उसके ज्ञानमें नहीं है। ऐसे ही कोई श्रोता कुछ बार-बार सुनकर रट लेते हैं, किन्तु उन शब्दोंका क्या भाव है वह हृदयमें नहीं उतरता। जिनकी बुद्धि विषयकषायके संस्कारमें लगी है, उनके उपयोगमें तत्त्वमर्म नहीं समाता है।

मृत्तिका व दंशसम श्रोता॥कोई श्रोता मृत्तिकासम होते हैं। जैसे मिट्टी गीली हालतमें कोमल रहती है, जैसा चाहे मोड़ लो उसे, उससे जो चाहे बर्तन बना लो, किन्तु सूख जानेपर वह कठोर हो जाती है, उसे फिर रंच भी मोड़ नहीं सकते और न उससे फिर कोई दूसरा बर्तन बन सकता है, वह फूट-फूट कर टुकड़ा-टुकड़ा हो जायगी, किन्तु उससे कुछ बन न सकेगा। ऐसे ही कोई श्रोताजन शास्त्र सुनते समय तो कोमल परिणाम वाले रहते हैं, किन्तु उसके बाद ज्योंके त्यौं कठोर हो जाते हैं। जिनके मूल लक्ष्यमें आत्महित की भावना नहीं बन पाई है, उनकी ऐसी ही कठोर स्थिति बनी रहती है। कुछ श्रोता दंशमशकसम कहे गये हैं। जैसे डांस अपनी चौंचसे इन्जेक्शन देकर मनुष्यादिको सता डालते हैं, ऐसे इस स्थितिके श्रोता कुवचन बोलकर वक्ताको खेद पहुँचाते हैं। जिसको आत्मस्वरूपका भान नहीं हुआ है और तीव्र कषायवासना रहती है, उसकी ऐसी ही दुष्प्रवृत्ति होती है।

जौंकसम श्रोता॥कुछ श्रोता जौंकसम हुआ करते हैं। जैसे जौंक गायके स्तनोंमें भी लग जाय तब भी वहां दूधको ग्रहण नहीं कर सकती है, वह तो खूनको और उसमें भी गंदे खूनको ग्रहण करती

है। ऐसे ही इस श्रेणीके श्रोता धर्मस्थलमें, शास्त्रसभामें भी पहुँच जायें तब भी वहां वक्ताके उपदेशके गुण ग्रहण न कर सकेंगे। वे तो वहां दोष ही खोजकर या बना कर ग्रहण करेंगे। यों श्रोता भले बुरे अनेक प्रकारके होते हैं।

योग्य श्रोतावांमें स्वहितभावनाकी प्राथमिकता॥इनमें शुभ श्रोता चूँकि आत्मकल्याणभावनासे पोषित हैं, अतएव ये उपदेश ग्रहणके पात्र होते हैं, किन्तु अशुभ श्रोता अपने कषायसंस्कारके कारण न खुद उपदेश लाभ ले सकते हैं और न अन्य जनोंका अवकाश बना रहने देते हैं। खेदकी बात है कि वे इतना श्रम भी करते हैं और फल उल्टा पाते हैं। हम सब आत्महितकी भावनासे वासित हों, ताकि ज्ञानलाभ पाकर अपना जीवन सफल कर सकें। यहां तक भूमिकारूपमें आचार्यदेव वक्ता व श्रोताके लक्षण बताकर ग्रन्थके प्रारम्भमें कल्याणार्थी जनोंको हितकारी आदेश अथवा उपदेश देते हैं।

**पापाद्दुःखं धर्मात्मुखमिति सर्वजनसुप्रसिद्धमिदम् ।
तस्माद्विहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मम् ॥८॥**

सुखार्थीयोंको हितनिर्देशन॥इस ग्रन्थके वक्तव्यके प्रारम्भमें गुणभद्र आचार्यदेव सुखके चाहने वालोंको सम्बोधित करके एक आदेश और उपदेश दे रहे हैं। हे सुखार्थीजनों! समस्तजन इस बातको समझते हैं और सबके यहां यह बात सुप्रसिद्ध है कि पापसे दुःख होता है और धर्मसे सुख होता है। इस कारण पापको त्याग करके सदा धर्मका आचरण करें।

पापोंके छः विकल्प॥पापके भेद कितनी ही दृष्टियोंसे कितने ही भागोंमें बांट दिये गये हैं। विकल्पोंकी दृष्टिसे इन पापोंको ६ भागोंमें बांटिये मोह, काम, क्रोध, मान, माया और लोभ। मोह नाम मिथ्यात्वका है। जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा न मानकर विपरीत मान्यता देना इसका नाम मिथ्यात्व है। मोहपरिणाममें होता भी यही है। प्रेमका नाम मोह नहीं है, इसे राग कहते हैं। किसी परवस्तुके प्रति यह मेरी है, मेरे लिए हितकारी है इस प्रकारकी श्रद्धा बसी है। विपरीत श्रद्धा का नाम मोह है, लेकिन शीघ्रतामें मोह और प्रेमको एक ही कक्षामें रख दिया है। अधिक प्रेमका नाम मोह कह दिया है और साधारण प्रेम होने का नाम राग कह दिया है। किन्तु मोहमें रागकी परिभाषा नहीं घटित की गई है। इसमें अज्ञानकी परिभाषा है। मोहका सम्बन्ध अज्ञानसे है। राग और द्वेष तो मोहके फल हैं।

मोह रागद्वेषकी वृत्तिपर एक दृष्टान्त॥जैसे हाथी को पकड़ने वाले शिकारी लोग वनमें एक गङ्गा खोदते हैं और उस गङ्गेपर बांसकी पंचें बिछा देते हैं, उस पर एक झूठी हथिनी बनाकर उसी रंगके कागजोंसे मढ़ देते हैं, उसे करेणु कुट्टनी बोलते हैं, और एक करीब ४०-५० हाथ दूर पर एक दौड़ता हुआ हाथी बना देते हैं। अब जंगलका हाथी उस सुन्दर करेणु कुट्टनीको देखकर उस हथिनीके समीप रागवश आता है। वह रागमें इतना आसक्त है, कामवासनासे इतना पीड़ित है कि वह उस रहस्यका ज्ञान नहीं कर पाता है कि यहां गङ्गा है और यह झूठी हथिनी बनी है। सामने

हाथीको देखकर उसे विषयबाधक जानकर उससे द्वेष करता है। यों मोह रागद्वेषके वशीभूत होकर उस गड्ढे पर आता है, वे बांसकी पंचें जो बिछी थीं, टूट जाती हैं, वह हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। इस वन-हस्तीने मोह रागद्वेषकी पीड़ा सही है, मोह तो उसका अज्ञानरूप था। यह झूठी हथिनी है इसका उसे ज्ञान नहीं रहा। राग उस झूठी हथिनीका था और द्वेष उस विषयबाधक झूठे हस्तीका था। यों वह हस्ती मोह राग द्वेषके वश होकर शिकारीके पंजेमें पड़ जाता है।

मोह पापराज॥पापोंमें मुख्य पाप है मोह, मिथ्यात्व। जगतके ये दृश्यमान् पदार्थ बिल्कुल भिन्न हैं, न साथ आये हैं, न साथ जा सकेंगे। यह देह भी मेरे आत्मासे भिन्न है। लेकिन मोह, पर्यायबुद्धि कितना कलुषित कार्य होता है कि इस देहको ही अपना सर्वस्व मानते हैं। यही मैं हूँ। इस शरीरमें चलते हुए कहीं भींत की कलईका दाग लग जाय तो उसे साफ किए बिना चैन नहीं पड़ती है। यह एक भीतरका परिणाम है। यद्यपि किया सब कुछ जाता है, किन्तु भावकी गतिकी विचित्रता है। पापोंमें मुख्य पाप है मिथ्यात्व। यह मैं आत्मा अपने आप निरापद हूँ, अतः निरपेक्षरूपसे अर्थात् कोई पर-उपाधिसे सम्बन्ध नहीं होता, निमित्त नहीं होता, स्वयं अपने आप यह मैं आत्मा कैसा हूँ, केवल ज्ञानभावरूप और ज्ञानभावके अविनाभावी आनन्दरूप यह मैं आत्मतत्त्व हूँ। इसमें न रूप है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न स्पर्श है, न शब्द है, केवल आकाशवत् निर्लेप, अमूर्त, किन्तु चैतन्य प्रतिभासस्वरूप मैं आत्मा हूँ, इसका इस देह तकसे भी सम्बन्ध नहीं है। यह देह अचेतन है। यह मैं जो कुछ समझ रहा हूँ वह चेतन है। जब इस जीवका देहके साथ भी सम्बन्ध नहीं है तो अन्य परिजन, मित्रजन धन वैभव इनसे तो कुछ सम्बन्ध ही कैसे हो सकता है? लेकिन इस भिन्नता को न जानकर इन ही परपदार्थोंमें आत्मीयताकी बुद्धि लग गयी, इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है? अज्ञान, भ्रम, अंधेरा ही सबसे मुख्य पाप है। अन्य पापोंसे तभी दूर हो पाते हैं वास्तविक मायनेमें जब कि यह अंतरङ्गमें मिथ्यात्व पाप दूर हो सकें।

काम पाप॥द्वितीय पाप बताया है काम। यद्यपि यह काम लोभ कषायमें ही गर्भित है तथापि कुछ विशिष्टता है। इस कारण इसे अलग गिनाया है। जो पुरुष कामवासनासे खिन्न हो जाता है वह आपेमें नहीं रहता है। उसकी दयनीय दशा दुर्दुशा होती है। उसका इस लोकमें भी बुरा होता है और परलोकमें भी बुरा होता है। सुख चाहने वाले साधु-संत जनों का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने इस ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वमें लीन रहा करें, इसही का नाम ब्रह्मचर्य हैं। ब्रह्म में चर्या अर्थात् लीनता करना इसका नाम है ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्यके बाधक जितने भी परिणाम हैं उनका नाम है व्यभिचार। कानोंसे कुछ सुनकर उसमें भी यदि रागद्वेषका परिणाम हो तो वह भी व्यभिचार है। आंखोंसे देखकर कोई खोटी कल्पना जगे अथवा किसी प्रकारका राग अथवा द्वेषका विकल्प हो वह भी व्यभिचार है। किसी सुगंधित वस्तुको सूंघनेकी इच्छा होना, दुर्गन्धित वस्तुसे घृणा होना यह भी व्यभिचार है। रसीला, स्वादिष्ट भोजन करनेकी वाञ्छा जगे, किसी स्त्री अथवा पुरुषविषयक कामकी वासना जगे, मैथुन प्रसंग होना वह भी व्यभिचार है। यद्यपि ये सभी व्यभिचार हैं किन्तु लोकमें

प्रसिद्धि व्यभिचार की केवल काम-वासना की है। इससे यह परिज्ञान करें कि ब्रह्मस्वरूपके परिज्ञानमें बाधक यह कामवासना अत्यन्त बाधक है।

क्रोध पाप॥तीसरा पाप है क्रोध। ये सभी पाप दुःखके कारण हैं। जैसे मोह में मार्ग नहीं मिलता, आकुलता ही बनी रहती है, आत्मसंतोष नहीं होता, यों ही कामवेदनामें तृप्ति संतोष नहीं होता है, विह्वलता ही बनी रहती है, यों ही क्रोधमें यह जीव संतप्त हो जाता है। क्रोध आता है किस बात पर अपने कल्पित इन्द्रियविषयोंमें कोई बाधा जंची और उस बाधामें निमित्त जो कोई पुरुष हुआ तो उस पर क्रोध होता है अर्थात् परपदार्थ इस रूप परिणमें कि वह हमारी कल्पनामें हमारे विषयका बाधक जान जायें तो क्रोध होता है। अरे विषय ही एक विडम्बना है। कोई मेरे पर विडम्बना है, विपदा है, उस विडम्बना और विपदाका कोई बाधक हो तो वह कैसे मेरा शत्रु है? जो मेरे शत्रुका भी शत्रु हो उसे तो मित्र समझना चाहिए था। मेरे शत्रु हैं ये सब विषय संस्कार, इनका जो बाधक है वह मेरा शत्रु नहीं है, किन्तु मोहमें उसे शत्रु समझा जाता है और उस पर क्रोध आता है।

क्रोधज्वालामें सकलगुणोंका दहन॥भैया! क्रोधमें रहे सहे सभी गुण भस्म हो जाते हैं। कोई दूसरोंका उपकार करता हो, दूसरोंकी मदद करता हो, वह किसी समय एक बार क्रोध कर डाले तो उसका उपकार, उसका आभार प्रायः सब भस्मसे हो जाते हैं। यह तो है दूसरेके विषयकी वार्ता, किन्तु अपने आपमें भी जो गुण बनाये जा सके थे, जैसे क्षमा, संतोष आदिक गुण वे सब गुण इस क्रोधकी ज्वालामें भुनकर खाक हो जाते हैं। जो पुरुष गम्भीर होता है, ज्ञानवान् होता है वह क्रोध का शिकार नहीं बनता है। क्रोध तो क्षणिक है, इसके बहकावेमें आकर अपनी बरबादी कर लेना मूर्खता है। यह क्रोध करना भी पाप है, इससे क्लेश ही भोगनेमें आते हैं।

घमण्ड पाप॥घमण्डका परिणाम भी क्लेशका कारण ही है। जिसे अपनी यथार्थमहत्ताका बोध नहीं है वही घमण्ड कर पाता है। मेरा स्वरूप तो ज्ञानरूप है ना। जाननेकी प्रकृति है। अब जाननेकी वृत्तिमें सीमा क्या हो सकती है? हम १० मील तक का ही जानें क्या ऐसा मेरे ज्ञानका स्वभाव है? मैं इतने समय पूर्व या भविष्य की बात जानूँ क्या ऐसी सीमा होना मेरे ज्ञानका स्वभाव है? यद्यपि वर्तमानमें उपाधिवश ऐसी स्थिति बन गई है कि हम इतने समयसे अधिक पहिलेकी बात नहीं जान सकते हैं अथवा इतनी अवधिसे दूरकी बात नहीं जान सकते हैं यह एक परिस्थिति है, व्यवस्था है, किन्तु जिस आत्मामें जाननेका स्वभाव पड़ा हुआ है उस आत्माके जाननेमें सीमा हो ही नहीं सकती है, चूँकि इसके जाननेका स्वभाव है तो यह इस उपाधि व्यवस्थासे मुक्त हो जायगा, केवलज्ञानपुञ्ज रूप बरतेगा तो यह समस्त लोक अलोकको एक साथ स्पष्ट जान सकता है। इतना महत्त्व है मेरे स्वरूपका, किन्तु इसका जिसे पता नहीं है वह पायी हुई कला पर, चतुराई पर, स्थितिपर, सम्पदापर अपनेको महान् मानकर घमण्ड किया करता है। इस मानमें भी अपनी सुध नहीं रहती है। यह भी महापाप है। इससे मिलता क्या है इस जीवको? कुछ नहीं, बिगड़ता सब कुछ है।

मायाचार पाप॥एक पाप है मायाचार। मनमें कुछ है, वचनमें कुछ, कह कुछ रहे, करेंगे कुछ, यह एक बहुत भीतरी विडम्बना है। बताया गया है कि जैसे मालामें जो दाने होते हैं उनमें छेद होते हैं ना, किसी दानेमें यदि टेढ़ा छेद हो तो उसमें सूतका प्रवेश नहीं होता है। सूतमें दाने पोये जाते हैं ना, तो वक्र छेद वाले दानेमें तो सूतका प्रवेश नहीं होता है, इसही प्रकार वक्र हृदयमें मायाचार से भरे हुए इस अंतरङ्गमें, अंतःकरणमें धर्मका सूत्र प्रवेश नहीं कर सकता है। यह तो सदा ही कलुषित है। जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं, सदैव कलुषित चित्त है। इस जगत्‌में कौनसी वस्तु ग्रहण करने योग्य है, संचय करने योग्य है, जिसके पीछे मायाचार किया जाय? मायाचारसे वस्तुका संग्रह भी नहीं होता है। यह तो एक भ्रम है कि हम मायाचार न करें, झूठ न बोलें, चालाकी न करें तो धन न आयेगा। यह भेद कैसे पड़ गया है कि कोई लखपति है, करोड़पति है, कोई भिखारी है। क्या यह चालाकी का, चतुराईका भेद है? अरे यह सब पूर्वकर्मकृत भेद हैं। जिसका जैसा पूर्वकृत पुण्य है, उसके अनुसार समागम मिला है। तो स्वतः ही जिस अपेक्षासे भेद है वही अपेक्षा सर्वसमागमोंके मिलानेका कारण बनती है। मायाचारसे दूषित हृदयमें तृप्ति, संतोष, दयाधर्म ये नहीं ठहर पाते हैं।

लोभ पाप॥छठा पाप है लोभ। लोभ पापका बाप बखाना, ऐसी प्रसिद्धि भी है। लोभ सर्वप्रकारके पापोंका जनक है। इसमें तृष्णा भाव है। इस तृष्णामें यह मनुष्य पायी हुई सम्पदाको भी आरामसे नहीं भोग सकता है। जितने वर्तमानमें साधन हैं भली प्रकार खा पी सकते हैं और धर्म दानके लिए भी अवसर है। इतनी सम्पदा है, लेकिन इससे दूनी हो जाय, इतना लाभ और हो जाय, इस ओर दृष्टि होनेके कारण खाने-पीनेका सुख भी किरकिरा हो जाता है, वर्तमान सम्पदाका भी आराम नहीं लिया जा सकता है। यों इस पापसे भी दुःख ही होता है।

आनन्दका कारण धर्म॥पापसे तो दुःख ही होता है, किन्तु धर्मसे सुख होता है। धर्ममें एकमात्र धर्म तो अपने आपके शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप का अनुभव करना है और इस ज्ञानानुभूतिसे शुद्ध आनन्द प्रकट होता है। लोग सुखको ही महत्व देते हैं, इसलिए आचार्यदेव चूँकि इन लोगोंको समझानेका प्रयास कर रहे हैं, इस कारण इन्हें सुख शब्दसे ही समझाते हैं। यद्यपि सुख अच्छी चीज नहीं होती है क्योंकि इसमें कलुषता है, ख मायने इन्द्रिय और सु मायने सुहावना, जो इन्द्रियोंको सुहावना लगे उसे सुख कहते हैं। इन्द्रियोंको सुहावनी लगने वाली बात पवित्र नहीं है, वह एक कलुषित प्रवृत्ति है; लेकिन लोग सुखको ही एक हितरूप समझते हैं, अतः हितरूप तो है आनन्दभाव, फिर भी आनन्दभावको ही आचार्यदेव सुख शब्दसे यहां बोलते हैं। धर्मसे आनन्द प्रकट होता है। आनन्दका अर्थ है समृद्धिशालिता। आत्मामें जितनी भी ज्ञानादिक शक्तियाँ हैं वे सब पूर्ण विकासरूप हो जायें, ऐसी समृद्धि प्रकट हो जाय, इसका नाम है आनन्द।

ज्ञानविकासका अविनाभावी सुखविकास॥जहां सम्पूर्ण ज्ञान होता है वहां आकुलता नहीं रहती। आकुलता होनेका कारण ज्ञानकी कमी भी है। ज्ञान तो हो कम और जाननेकी इच्छा लगी हो ऐसी स्थितिमें आकुलता हुआ करती है। किसी भी वेदनामें आकुलता बढ़नेका कारण यह है

कि यह पता नहीं है कि कल क्या हो जायेगा? यदि यह विदित हो जाये कि कल यह स्थिति होगी तो वेदनामें वृद्धि नहीं हो सकती है, अथवा वेदना भी न रहेगी। ज्ञान तो हो कम और बनी हो जिज्ञासा तब आकुलता हुआ करती है। जहां ज्ञान भी पूर्ण विकसित है, दर्शन आदिक समस्त गुण विकसित हैं, वहां उस ही के साथ यह आनन्दगुण भी पूर्ण विकसित हो जाता है। धर्मसे आनन्द प्रकट होता है।

अनहोनीको होनी बनानेके विकल्पमें क्लेशकी प्राकृतिकता॥अनहोनी को होनी बनानेके भावमें नियमसे क्लेश ही होगा। जो बात नहीं हो सकती है उसे हम होनी बनाना चाहें तो उसका फल केवल क्लेश है, आनन्द नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा हो सकता नहीं है। हम धन सम्पदाको अपनेसे अभिन्न बनाना चाहते हैं और वह भिन्न रहती है, हम परिजनोंको सदा अपने ही निकट रखना चाहते हैं किन्तु वे रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वे भिन्न हैं, ऐसे ही सर्वत्र घटाते जाइए। अनहोनीको होनी बनानेका प्रयास केवल कष्टरूप है और जितने भी जीव दुःखी हैं, वे सब केवल इस ही रोगसे दुःखी हैं।

ज्ञातृत्व सम्पदा॥जो जैसा है उसे उसही रूपसे जानते जाइए, चाहें कुछ नहीं अपने लिए। अरे यथार्थ जाननेसे बढ़कर और वैभव भी क्या है? क्यों हम कुछ चाहें? जो जैसा है वैसा ज्ञानमें आता रहे, इससे बढ़कर और क्या संपदा है? जब किसी प्रकारकी चाह नहीं रही तो वहां आकुलताका फिर काम ही क्या है? तो धर्मोंमें एकमात्र धर्म यह ही है कि निज ज्ञानानन्द स्वरूपमें अपनी प्रतीति और अपना आचरण हो अर्थात् मात्र समस्त वस्तुवोंके ज्ञाताद्रष्टा रहनेके लिए हमारा जो भी यत्न होता है वह सब धर्म कहा जाता है।

धर्मपरम्परामें परिस्थितियाँ॥धर्मकी परम्परामें कुछ पुण्य सत्संगमें बैठना, मंदिरमें आना, पूजन करना, आरती करना, भजन बोलना, कुछ दिल इस ओर आना यहांसे उसका प्रारम्भ होने लगता है। यद्यपि ये सब बातें धर्मरूप अभी नहीं हुई हैं, किन्तु इन बातोंमें लगकर फिर इससे और आगे बढ़कर अब शास्त्राभ्यास किया, ज्ञानार्जन किया, वस्तुका तत्त्व समझने लगे, मनन किया, चिन्तन किया, और आगे बढ़ो, अब इस ओर ध्यान आने लगा। अब यह उपयोग अपने स्रोतभूत इस ज्ञानप्रकाशको ग्रहण करने लगा और इन स्थितियोंमें जिस क्षण समस्त परद्रव्योंका उपयोग छूट जाय विकल्प हट जाय और दृढ़ता से इसही स्वरूपको स्वीकार करले कि ‘यह ही मैं हूँ’ ऐसा मान ले तो वहां धर्म प्रकट होता है।

पापसे हटने व धर्ममें लगनेका आदेश॥पापसे दुःख होता है व धर्मसे आनन्द होता है। यह बात सर्वजनोंमें सुप्रसिद्ध है। इस कारण जो आनन्दके चाहने वाले हैं उन्हें उतना ही तो काम करना है कि जो दुःखकारी उपाय हैं उनका त्याग करदें और जो आनन्दकारी उपाय हैं, उनका पालन करें। यह बात कितनी स्पष्ट है, किसीसे भी पूछ लो। क्यों भाई! तुम यह मेरा पाप ले लोगे ना? तो वह स्वीकार न करेगा। पापका नाम भी इतना अनिष्ट है कि लोग इतना कहनेमें भी भय खाते हैं कि अच्छा तुम यह काम करलो, पाप हमारे लग जायेगा। इससे यह जानो कि पापोंसे आनन्द

नहीं होता है, आनन्द तो धर्मसे होता है। इस कारण सुखार्थियोंका यह कर्तव्य है कि पापोंको छोड़कर धर्मकार्य करें। अब आगे यह बतावेंगे कि इस धर्मकी परम्परा कहांसे चली है और इसका जो मूल स्रोत है उसकी उपासनामें हम धर्मपालनमें सफल हो सकेंगे, इसको स्पष्ट करेंगे।

सर्वः प्रेप्सति सत्पुखाप्तिमचिरात्सा सर्वकर्मक्षयात्।

सद्द्वृत्तात्स च तच्च बोधनियतं सोऽप्यागमात्सः श्रुतेः ॥

सा चाप्तात्स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेऽप्यतः ।

तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदं सन्तः श्रयन्तु श्रिये ॥१॥

सुख प्राप्तिके लिये प्रथम कर्तव्य[समस्त जीव उत्तम सुखकी प्राप्ति को चाहते हैं। उनकी एक यही कामना है कि मुझे शीघ्र ही उत्तम सुख प्राप्त हो। उत्तम सुखकी प्राप्ति समस्त कर्मोंके क्षयसे होती है। सुखमें बाधा देने वाला इन कर्मोंका उदय है। समस्त कर्मोंका क्षय सच्चारित्रसे हुआ करता है। अपने आत्माका आचरण आत्माके स्वभावके अनुरूप बने तो समस्त कर्मों का क्षय होता है और यह सम्यक्यारित्र, शुद्ध आचरण ज्ञानमें नियत है। सम्यग्ज्ञान हो तो भला आचरण बन सकता है और यह सम्यक् अवबोध आगमसे प्रकट होता है। शास्त्रसे शुद्धज्ञानकी प्राप्ति होती है और ये आगम-शास्त्र श्रुतिसे प्रकट होते हैं। श्रुतिका अर्थ है भगवंतका सातिशय वचन। इसका नाम दिव्यध्वनि भी है और वह ध्वनि आप्तसे प्रकट होती है। आप्त कहते हैं पहुंचे हुए को, अर्थात् जो वीतराग और सर्वज्ञ हो। आप्त समस्त दोषोंसे रहित होता है। तब सुखकी प्राप्तिके अर्थ सुखकी परम्पराके मूल निमित्त कारण हुए आप्त सर्वज्ञदेव। अतः हे सज्जनों! सत्सुखके अर्थ उनकी आराधना करनी चाहिए।

शुद्धानन्दमार्गप्राप्तिका मूल निमित्त[इस छंदमें हम आप सबके लिए सुख प्राप्तिका मूल निमित्तकारण बताया गया है। उपादेय तो सुख पानेके लिए हम स्वयं ही हैं। प्रभु यदि दूसरोंको तारते हों और यह जीव स्वयं अपनी बुद्धि योग्य न बनाता हो तो ये प्रभु किसको तारें, किसको न तारें यह उनमें पक्ष हो जायगा। प्रभु तो तीनों लोक के ज्ञाता हैं और आनन्दमें मग्न रहा करते हैं। उनका तो आदर्श स्मरणमें आ जाय, यही उनका प्रसाद है तथा इस प्रसादमें हम अपने आपही अपने में शक्तिको प्रकट करते हैं और उस शक्तिके प्रतापसे सुख प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी इस छंदमें जो परम्परा दिखायी है उससे आप यह जानेंगे कि मूल निमित्तकारण हम सबके आनन्दमें लगनेका भगवान् सर्वज्ञ वीतरागदेव हैं।

आप्त देव[जो कोई श्रमण आत्मसाधना करके रागद्वेषसे रहित होकर अपने ज्ञानका पूर्णविकास कर लेता है, वह महाश्रमण सकल परमात्मा हो जाता है। ‘कल’ का अर्थ है शरीर व ‘स’ का अर्थ है सहित अर्थात् शरीर सहित परमात्मा, साकार परमात्मा या सगुण ब्रह्म। शरीर तो तब विमुक्त होगा जब आयु के निषेक समस्त खिर जायेंगे। जो मुक्त होता है उसे चरमशरीरी कहते हैं। इनके शरीरका जब वियोग होगा तो शरीर कपूरकी तरह उड़ जायगा, पर जब तक आयु है तब

तक शरीर लगा हुआ है, किन्तु आत्मसाधनाके प्रतापसे उनमें वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट हुई है। जो पुरुष वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं और साथ ही हितोपदेशक हैं उन्हें आप्त कहते हैं। आप्तका शुद्ध अर्थ है पहुंचा हुआ। जो ज्ञानमें सर्वोल्कृष्ट हो उसे पहुंचा हुआ कहते हैं। जिसने अपने ज्ञानका शुद्ध विकास कर लिया है उसे आप्त कहते हैं।

उपदेशका मूलस्रोत॥इन सकलपरमात्माने चूँकि श्रमण अवस्था में अथवा इससे पहिले लोगोंके उपकारकी भावना की थी, इस कारण इनके इस प्रकारकी प्रकृतिका बंध हुआ कि सकलपरमात्मा प्रभु हो जाने पर भी वचनयोगवश उनकी दिव्यध्वनि खिरती है। देखलो भैया! कर्मोंका फल भी किस-किस रूपमें प्रकट होता है? भव्य जीवोंके तो पुण्यका उदय है और प्रभुमें पुण्य प्रकृतिके उदयवश जो वचनयोग चल रहा है, ध्वनि हो रही है इसे कहते हैं श्रुति।

वेद, श्रुति, स्मृति व पुराण॥चार बातें प्रसिद्ध हैं वेद, श्रुति, स्मृति और पुराण। इनमें वेद नाम है केवलज्ञानका। भगवान् से वेद भिन्न नहीं हैं सो भगवान् ही वेद है। सकलपरमात्माका जो लोकालोकका जाननहार ज्ञान है उस ज्ञानका नाम वेद है। ऐसे वेदके अधिकारी सकलपरमात्मा से श्रुति प्रकट होती है। श्रुतिका अर्थ है दिव्य ध्वनि। जिसे लोग सुनें उसका नाम है श्रुति। और जो सर्वोल्कृष्ट हो, प्रभु परमात्माकी यह ध्वनि सर्वोल्कृष्ट श्रुति है। इस श्रुतिको सुनकर गणेश जो बड़े उल्कृष्ट गुणोंके पुंज आचार्योंके भी ईश हैं, जिनका अपर नाम है गणधर। ये गणेश उस श्रुति को सुनकर स्मृति उत्पन्न करते हैं, अर्थात् उस श्रुतिसे द्वादशांगरूप स्मृति बनाते हैं। फिर भी जगत्‌के जीवोंको आचार्यजनोंने जो उपदेश दिया है, उस उपदेशपरम्परासे जो शास्त्र रचे जाते हैं उन शास्त्रोंका नाम है पुराण। यों इन समस्त पुराणोंका मूलस्रोत है वेद अर्थात् प्रभुसर्वज्ञदेवका केवलज्ञान। उस केवलज्ञानमय आप्तसे श्रुति निकली है, उस श्रुतिसे द्वादशांग की ‘स्मृति’ निकली है और उसकी परम्परामें ये समस्त प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग चार विषयोंमें विभक्त पुराण (शास्त्र) रचे गये हैं। यों आप्तदेवकी श्रुतिसे जो आगमका विस्तार हुआ है, उस आगमका अध्ययन करके भव्य जीव अपना समीचीन ज्ञान बनाते हैं।

सम्यग्ज्ञानमें पदार्थका स्वरूप॥सम्यग्ज्ञान उसे कहते हैं जो जैसा हो उसे वैसा जानना। जो भी पदार्थ आज सामने हैं, सम्यग्ज्ञान सबका निर्णय वर्तमान पदार्थमें ही कर लेता है। ज्ञानको भूतकालकी अपेक्षा नहीं लेनी है। ये पदार्थ कहांसे आये, किसने बनाये आदिक विकल्पोंकी ज्ञानमें आवश्यकता नहीं है। वर्तमानमें जो पदार्थ सामने है उस ही पदार्थमें उसके धर्मको जान कर निर्णय करलो। प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक है। उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त है। इन्हीं का दूसरा नाम है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ध्रौव्य नाम सत्त्वका है। जिसमें आविर्भाव और तिरोभाव नहीं है। उस सत्त्वके आधारमें जो पर्यायों का आविर्भाव होता है उसका नाम उत्पाद है अथवा रजोगुण है और उत्पन्न हुई वृत्तिका जो अगले क्षण अभाव होता है उसका नाम व्यय है अथवा तमोगुण है। प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक होते हैं, उन्हीं तीन गुणों को देवताके रूपमें जाना जाय तो प्रत्येक पदार्थमें ध्रौव्य का

प्रतीक विष्णु और उत्पादका प्रतीक ब्रह्म और व्ययका प्रतीक महादेव है, शंकर है। ये त्रिदेवतामय समस्त जगतके पदार्थ हैं।

पदार्थकी परिणमनशीलता॥जो पदार्थ है वह प्रतिसमय परिणमता रहता है। कोई उसका ख्याल करे तो, न करे तो, किसी की जानकारीमें हो तो, न हो तो। यदि परिणमन करने वाले देवता उसही पदार्थमें, स्वभाव में न हों तो अनन्तानन्तपदार्थ हैं, और वे प्रतिक्षण अपने पर्यायकी सृष्टि करते रहते हैं, इसमें बाधा आ जायगी। जैसे घड़ीमें चाबी भर दी जाय तो वह निरन्तर चलती रहेगी। इसी प्रकार अनन्त पदार्थ हैं, जिनमें अनन्त सूक्ष्म हैं, अनन्त स्थूल हैं, वे समस्त पदार्थ प्रतिक्षण स्वनिहित द्रव्यत्वदेवता के प्रसादसे परिणमते रहते हैं और उनका तिरोभाव भी होता रहता है और वे सदैव सत् रहा करते हैं।

पदार्थोंकी त्रिगुणात्मकता॥ये तीनों गुण, उत्पाद व्यय ध्रौव्य प्रत्येक पदार्थमें एक साथ रहते हैं। जैसे एक यह अंगुली है, इसको कुछ झुका दिया तो यह बतलावो कि इस अंगुलीमें कौनसी दशा बनी है? यह अंगुली टेढ़ी हुई है यह दशा बनी है और कौनसी दशा मिट गयी है? यह सीधी थी वह दशा मिट गयी है। मिट जावे सीधी दशा और हो जावे टेढ़ी दशा, फिर भी क्या यह अंगुली नहीं है? तब भी वह अंगुली थी और अब भी अंगुली है। अच्छा अब यह बतलावो कि पहिले इस अंगुलीकी सीध मिटी या टेढ़ बनी? न यह बुद्धिमें जंचता है कि इस अंगुलीमें टेढ़ पहिले बनी और सीध पीछे मिटी और न यह कहा जा सकता कि इस अंगुलीकी सीध पहिले मिटी, टेढ़ पीछे बनी। इसके अगले क्षणमें जो टेढ़रूप परिणति हुई है इसीका नाम सीधका विनाश है, यहां दो बातें नहीं हैं। जो उत्तर क्षणमें परिणत होता है उसही को पूर्व पर्यायका विनाश कहते हैं। कोई पुरुष अपने महिमानको पहुंचाने जाय स्टेशन तक, वह महिमान गाड़ीमें बैठकर चला गया, वह लौट आया तो अब यह बतावो कि उन दोनोंका वियोग कहां हुआ? आप कहेंगे कि स्टेशन पर उनका वियोग हुआ था। औरे स्टेशन पर तो वह साथ ही था। वियोग हुआ और संयोगका अन्त हुआ, इन दोनोंका एक ही समय है। यों पदार्थमें आविर्भाव, तिरोभाव और सत्त्वका रहना ये तीनों ही चीजें एक साथ होती हैं।

वस्तुस्वरूपके सम्यग्ज्ञानसे मोहका प्रक्षय॥अब बताओ भैया! जब समस्त पदार्थ अपने आविर्भाव, तिरोभाव और सत्त्वसे सम्पन्न हैं तो फिर किसी पदार्थका कोई दूसरा पदार्थ कैसे अधिकारी होगा और किसीका दूसरा कैसे कुछ लग जायगा? हम आप एक जानदार पुरुष हैं इसलिए मकान और सम्पदा इत्यादिको गाली दे रहे हैं कि यह मेरा है। ठीक है। पुण्यका उदय है, सो उन्हें अपना मान रहे हैं। वे यदि जानदार होते तो वे भी कह देते कि यह पुरुष मेरा है। आप कितनी ही कल्पना करें कि मकान मेरा है, सम्पदा मेरी है, फिर भी न मकान आपका हो सकता है, न सम्पदा आपकी हो सकती है। स्वरूपमें अन्याय नहीं है। भेदविज्ञान से वासित यह अवबोध इन आगमोंसे उत्पन्न होता है। जब यह सम्यग्ज्ञान प्रकट हो तब ही परवस्तुवोंसे उपेक्षा करके अपने

आपमें रमने, लगने, मग्न होनेका आचरण किया जा सकता है। इस कारण यह सम्यक्‌चारित्र इस ज्ञानमें नियत है।

ज्ञानका माहात्म्य॥ज्ञानका बड़ा चमल्कार है। अज्ञानी जीव दुर्धर तप करके करोड़ों जन्मोंमें भी जितने कर्म झड़ सकते हैं उतने कर्म यह ज्ञानी अपने ज्ञानके बलसे, ज्ञानमग्नताके बलसे क्षण मात्रमें नष्ट कर सकता है। सम्यक्‌चारित्र, सम्यज्ञानके बिना हो नहीं सकता है। और इस सत्‌ आचरणमें ही यह सामर्थ्य है कि भव-भवके संचित कर्म नष्ट हो जायें। कर्मोंका विनाश उन्हें देख-देखकर, खोज-खोजकर नहीं किया जा सकता है। वे परवस्तु हैं, उन पर मेरा कुछ अधिकार नहीं है। जीवने रागद्वेषका भाव बन्धन किया था, उसका निमित्त पाकर ये कार्मणवर्गणायें स्वयं कर्मरूप बन गयी थीं। न उस समय भी मैंने इन्हें कर्मरूप बनाया था और न इस समय भी मैं इन कर्मोंका नाश कर सकता हूँ। पहिले भी मैंने अपने भावों का बन्धन, भावोंका जाल गूँथा था। जैसे इस भावका जाल गूँथनेमें हम स्वतन्त्र थे और तब उसके इस भावबन्धनोंका निमित्त पाकर ये कार्मणवर्गणायें अपने ही स्वतन्त्र रूपसे कर्मरूप हो गयी थीं और अब भी यह मैं आत्मा सम्यज्ञानके बलसे स्वतन्त्र होकर अपने आपमें रमण करूँ, आचरण करूँ तो ये कर्म स्वतन्त्ररूपसे इन शुद्ध भावोंका निमित्त पाकर अथवा इन कर्मोंके पोषक रागादिक निमित्त थे, उनका अभावका निमित्त पाकर ये कर्म स्वयं यहां से हट जाते हैं। मानो यहां वे कहते हैं कि अब हमारा यहां क्या काम है? यहां मेरा पोषक तत्त्व ही नहीं रहा। मेरी कौन पूछ करे? ये रागद्वेषादिक भाव ही मेरे रक्षक थे, मेरी पूछ करते थे, मुझे पालते पोसते थे। अब मेरा पालनहार यहां नहीं है, वे स्वयं खिर जाते हैं। तो सम्यक्‌ आचरणके निमित्तसे समस्त कर्मोंका क्षय होता है। जब सर्वकर्मोंका क्षय हुआ तो जीवको विशिष्ट शुद्ध आनन्दकी प्राप्ति होती है।

प्रभुभक्तिसे आनन्दप्राप्तिका विवरण॥इस आनन्दकी प्राप्तिका परम्परया मूल निमित्त करण आप्त भगवान् है, इसी कारण हम भगवान्की श्रद्धा करते हैं, स्तुति करते हैं। इस मर्मको यथार्थरूपमें जिसने नहीं समझा है वह भगवान्को सीधा अपना कर्ता-र्धर्ता सुखदाता दुःखदाता मान लेता है। मर्म वहां यह पड़ा है कि जो प्रभुकी भक्ति नहीं करता है, प्रभुके स्वभाव का दर्शन नहीं करता है, प्रभुतासे जिसका मिलाप नहीं हो पाता है वह दुःख ही पाता है, और जो प्रभुस्वरूपमें ज्ञुकता है, प्रभुकी भक्ति करता है उसका ज्ञान सावधान रहता है और वह स्वयमेव ही आनन्द भोगने लगता है। जैसे हम दर्पणको देखते हैं, दर्पणके सामने हम अपना मुख करें तो हमें दर्पण दीखता है और एकाएक थोड़ा हर्ष होता है और अपना चेहरा देखकर कुछ मुस्कान भी आ जाती है, और मुख न करें दर्पणकी ओर तो उस प्रकार की बात हम पर नहीं आ पाती है। यह हर्ष की रेखा क्या दर्पणने उत्पन्न कर दी है? हम ही दर्पणके सम्मुख आये तो हमने अपने में हर्षकी रेखा उत्पन्न की। इसही प्रकार हम प्रभुस्वरूपके सम्मुख आयें तो अपने स्वरूपका परिचय हुआ, स्वरूपका ग्रहण हुआ, आनन्दकी प्राप्ति की, पुण्यका बंध हुआ, दुःखसे दूर हुए। ये सभी बातें अपने आप हो जाती हैं।

प्रभुसे विमुख हों तो विषयकषायोंके गंदे परिणामोंमें बसना पड़ा और उन परिणामोंमें बसने से खोटा वातावरण हुआ, पापकर्म बंधा, दुर्गतियोंका सामना करना पड़ा ।

प्रभुकी उपासनाका अनुरोध॥प्रभु न किसीको सुख देता है और न दुःख देता है । वह तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप निज आनन्दरसमें लीन आदर्शरूप है । जो उनको आदर्शरूप मानकर चलते हैं, वे स्वयमेव ही सुख पाते हैं और जो उनके आदर्शसे विमुख रहते हैं वे दुःख पाते हैं । यों हमारे आनन्द मिलने में सुखकी प्राप्तिमें निमित्त हुए आप्त, सर्वज्ञ, वीतराग हितोपदेशक भगवान् । इस कारण जो पुरुष श्री चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, इन सबका एक ही अर्थ है तो वे पुरुष अपनी भलाईके लिए ऐसे आप्तदेवका आश्रय करें, अर्थात् प्रभुकी ओर आयें । हम आपकी दिनचर्यामें दिन होनेके बाद सबसे पहिले नहा धोकर मंदिर आना, प्रभुमूर्ति के सम्मुख खड़े होकर प्रभुका ध्यान करना, यह चलता आया है । क्योंकि हमारे सुखोंका मूल निमित्त कारण यही प्रभु हैं । इनकी मूर्तिको देखकर उस प्रभुकी याद आती है । इस कारण यह मूर्ति भी व्यवहारमें पूज्य मानी गयी है । यों सुख चाहते हो तो हर प्रकारसे इस आप्त वीतराग सर्वज्ञदेवकी उपासना करो ।

श्रद्धानं द्विविधं त्रिधा दशविधं मौढच्याद्यपोढं सदा ।

संवेगादिविवर्द्धितं भवहरं त्र्यज्ञानशुद्धिप्रदम्॥

निश्चिन्वन् नवसप्ततत्त्वमचलप्रासादमारोहताम् ।

सोपानं प्रथमं विनेयविदुषामाद्येयमाराधना ॥१०॥

अभीष्ट कार्यके लिये श्रद्धाकी अनिवार्यता॥इससे द्वितीय, पहिले छंदमें यह बताया गया था कि सुख धर्मसे होता है । इसके बाद यह भी प्रतिपादित कर दिया गया है कि उस सुखकी प्राप्तिमें मूल निमित्तकारण सर्वज्ञ वीतरागदेव हैं । अब उस धर्मकी व्याख्यामें सर्वप्रथम जो परिणति आती है, उस परिणतिके सम्बन्धमें इस छंदमें जो प्रतिपादन किया है वह है धर्मका पहिला सोपान सम्यगदर्शन । जिसके सम्बन्धमें छहठालामें भी कहा है॥‘मोक्ष महलकी प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा । सम्यक्ता न लहै सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा’ यह सम्यगदर्शन मोक्षमन्दिरकी प्रथम सीढ़ी है अथवा धर्मपालनका मूल स्थान है यह सम्यगदर्शन । इस निज आत्मस्वरूप का जब तक दर्शन नहीं होता तब तक हम करेंगे क्या मोक्षप्राप्तिके लिए? शाश्वत सत्य आनन्दकी प्राप्तिके लिए जो कुछ हमें करना है उसका नाम है सम्यक्चारित्र । जो करना है उसकी श्रद्धा तो पहिले चाहिए । श्रद्धा नहीं हो तो आगे कुछ किया नहीं जा सकता ।

लौकिक अभीष्ट सिद्धिके लिये भी श्रद्धाकी अनिवार्यता॥जितने लौकिक काम भी किए जाते हैं, वे सब श्रद्धापूर्वक किए जाते हैं । जैसे महिलावोंका रोटी बनाने का ही काम ले लो, उनमें कितनी दृढ़ श्रद्धा है कि रोटी आटेसे ही बनती है । कभी ऐसा वे नहीं सोचतीं कि कहीं ऐसा न हो कि आज आटे से रोटी न बने । जिस विधिसे रोटी बनती है उसका भी कितना श्रद्धान है? श्रद्धानके बिना तो कोई कुछ भी कार्य नहीं करता है । व्यापारमें व्यापारविषयक श्रद्धान होता है ।

जो श्रद्धान नहीं किए हुए है उसकी चेष्टा को पागलोंकी चेष्टा कहा करते हैं। उस श्रद्धानके सम्बन्धमें कहा जा रहा है। आत्माको चाहिए आत्माकी मुक्ति, सर्वसंकटोंसे रहित आत्मापदका अनुभवन। तो जिससे सम्बन्धित कार्य चाहिए उसका श्रद्धान होना प्रथम आवश्यक है।

श्रद्धानके दो प्रकार॥श्रद्धान कहो या आत्मश्रद्धान कहो। आत्मश्रद्धान दो प्रकारसे होता है एक निसर्गज और एक अधिगमज। यह श्रद्धानुके स्वरूपके भेदसे भेद नहीं है, किन्तु साधनाके भेदसे भेद है। किसी जीव को दूसरेका उपदेश मिले बिना भी सम्यक्त्व स्वभावतः उत्पन्न हो जाता है और किसी जीवको उपदेश आदिक का साधन मिलने पर सम्यग्दर्शन होता है। जो स्वयं होता है उसे निसर्गज कहते हैं और जो परके उपदेशसे होता है उसे अधिगमज कहते हैं। सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें जो ५ लक्धियाँ बतायी हैं उनमें देशनालक्ष्मि भी है। निसर्गज सम्यक्त्वका अर्थ यह है कि इस भव में उपदेश नहीं मिला, फिर भी सम्यक्त्व हो गया, किन्तु उसने पहिले कभी उपदेश पाया था किसी भवमें और उसका संस्कार बना हुआ है, जो अब इस भवमें उपदेशका साधन न मिलने पर भी सम्यक्त्व उत्पन्न किया है। दूसरा भेद है अधिगमज। परउपदेशका निमित्त पाकर सम्यक्त्व हो, उसे अधिगमज कहते हैं। यह केवल उत्पत्तिके भेदसे भेद किया गया है।

सम्यक्त्वके तीन प्रकारोंकी भूमिका व सम्यक्त्वबाधक क्रोध॥निमित्त के भेदसे सम्यक्त्वके तीन भेद हैं औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यग्दर्शन। सम्यग्दर्शनके बाधक निमित्त हैं ७ प्रकृतियाँ। अनन्तानुबंधी क्रोध मान, माया और लोभ, मिथ्यात्व, सम्यकमिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति। अनन्तानुबंधी कषाय उसे कहते हैं जो अनन्त अर्थात् मिथ्यात्वका बंधन बनाये। जिस कषाय से मिथ्यात्वका सम्बन्ध बढ़े उसे अनन्तानुबंधी कहते हैं। धर्मका प्रसंग लेकर क्रोध मान माया लोभका आना, ये अनन्तानुबंधी कषाय के बाह्य लक्षण हैं। धर्मकार्य करते हुए पूजन स्वाध्याय अथवा धर्मात्मावोंकी व्यवस्था, धर्म चर्चा करते हुए किसी कारणसे क्रोध उमड़ आये व ऐसे क्रोध की प्रकृति बनी रहे तो यह अनन्तानुबंधी क्रोध है। क्योंकि उस जीवने धर्म का भी आदर नहीं किया, धर्मको भी कुछ नहीं समझा। जैसे पूजा करनेमें ही कोई कहे कि तुम यहां मत पूजा करो, कल हम यहां खड़े थे, यहां से हट जाओ, ऐसी कुछ भी बात आए तो ये अनन्तानुबंधी क्रोधके लक्षण हैं। यह एक लक्षण बताया है। ऐसे ही बहुतसे लक्षण होते हैं। इस जीवमें धर्म का स्वरूप समाया हुआ न था। उसने अपने विकल्पमें पर्यायबुद्धि की थी, ऐसी वासना होने के कारण उसे क्रोध उमड़ आया है।

सम्यक्त्वबाधक मान, माया व लोभ॥धार्मिक प्रसंगमें घमण्ड आ जाना अनन्तानुबंधी मान है। जैसे साधर्मीजनोंके बीच बैठे हों, एक मानके आसनसे, उस धर्मके प्रसंगमें अपनेको महान जताना यह अनन्तानुबन्धी मान है। ये संसारकी वृद्धि करने वाली कषायें हैं। धर्मके मामलेमें मायाचार बना रहना, किसी संस्थाकी सेवामें, मंदिरकी व्यवस्थामें या धर्मात्मावों की सेवामें ऐसे धर्मप्रसंगोंमें मायाचार रहना, छल कपट रहना यह अनन्तानुबंधी माया है। कोई बड़ा सेवाभाव

दिखाये और अंतरङ्गमें कोई स्वार्थवासना हो, या अन्य कोई धर्मप्रसंगमें छल कपट हो यह अनन्तानुबंधी माया है। जैसे एक कथानक आया है कि किसी चोरने किसी सेठके चैत्यालयसे मणिरचित् छत्र चुरानेके लिए त्यागीका भेष रखकर पहिले विश्वास जमा दिया और फिर मौका पाकर वह चुराकर चला गया। ऐसी अनेक घटनाएँ गृहस्थजनोंमें भी समाई हो सकती हैं। यह सब अनन्तानुबंधी माया है और धार्मिक कार्योंकी आवश्यकता समक्ष होते हुए भी अपनी सामर्थ्य होकर भी उसमें उदारता न लाना, तृष्णाभाव रखना यह अनन्तानुबंधी लोभ है।

सम्यक्त्वके तीन प्रकार [३] यों चार कषायें और मिथ्यात्व, सम्यग् मिथ्यात्व व सम्यक् प्रकृति ये तीन दर्शन मोहनीय, ये सात प्रकृतियां सम्यक्त्व में बाधा देने वाली हैं। इन ७ प्रकृतियोंका उपशम हो अर्थात् ये दब जायें, उदय अथवा उदीरणामें न आ पायें, ऐसी स्थितिका निमित्त पाकर औपशमिक सम्यक्त्व होता है। अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके अथवा जिसने सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक्प्रकृतिकी उद्देलनाकी हो ऐसे जीवके ५ प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम सम्यक्त्व होता है। इन्हीं ७ प्रकृतियोंमें ६ प्रकृतियां तो हैं सर्वधाती, जिन ६ के उदयमें सम्यक्त्व रंच भी नहीं रह सकता और एक प्रकृति सम्यक्प्रकृति नामकी देशधाती है, वह सम्यक्त्वमें चल मतिन अगाढ़ दोष उत्पन्न करती है। इन ७ में से ६ प्रकृतियोंका उदयाभावी क्षय व उपशम हो और सम्यक् प्रकृतिका उदय हो ऐसी स्थितिमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। उन्हीं ७ प्रकृतियोंका जब मूलतः क्षय हो जाय तो क्षायिक सम्यक्त्व होता है। ये तीन भेद निमित्तनैमित्तिक कारणके भेदसे भेद किए गए हैं।

सम्यक्त्वका परिचय [४] अब कुछ सम्यक्त्वके स्वरूप पर दृष्टि कीजिए। सम्यग्दर्शन सम्यक् मायने भली प्रकारसे दर्शन, मायने दिख जाना। अपने आपका आत्मा अपने आपके उपयोगमें भली प्रकार सही तौरसे दिख जाये इसका नाम सम्यग्दर्शन है। यहां दिखनेका अर्थ आंखोंसे दिखना नहीं है। आत्मा आंखोंसे नहीं दिख सकता है, किन्तु आत्मामें तन्मय एक चैतन्यगुण है, उस चेतनाके दो प्रकारसे भेद हैं ज्ञान और दर्शन। उनमें ज्ञान गुणके द्वारा तो यह आत्मा जाना जाता है और दर्शन गुणके द्वारा यह आत्मा दृष्ट होता है। दर्शन से जैसा सही आत्मा दृष्ट हुआ, उस ही प्रकारका प्रत्यय हो जाय, श्रद्धान् हो जाय कि यह ही मैं हूँ, इसका नाम है सम्यग्दर्शन।

अपने आपके सम्यग्दर्शनकी उपयोगिता [५] जगत्के जीवोंने अपने आपको नानारूप माना है मैं मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, धनिक हूँ, पढ़ा-लिखा हूँ, विद्वान् हूँ, इतने परिवार वाला हूँ, नाना रूपोंसे अपनेको अनुभव किया है और इन विविध अनुभवोंके परिणाममें इस जीवने अनेक कुयोनियोंमें जन्म लिया है। जो मैं हूँ सो नानारूप नहीं हूँ। मैं कुछ भी होऊं एक रूप हूँ, अपने आप सहजस्वभावसे मैं जिस किसी भी रूप होऊं, एक रूप ही होऊंगा। वह मैं इसी रूप का ही हूँ इसका दर्शन निर्विकल्परूपमें होता है। इसकी दृष्टिके लिये पुरुषार्थ इस प्रकारका करना चाहिए, अपने आपको यों निरखें कि मैं अकेला कैसा हूँ, मेरे साथ जो दूसरी चीजका सम्बन्ध है उस सम्बन्धको अपने उपयोगसे हटा दीजिए। मैं यह भी नहीं हूँ तो मैं कैसा हूँ? ये कर्म और कर्मके प्रभावरूप ये

रागादिक भाव ये सब मैं नहीं हूं तो मैं कैसा हूं? मैं एक जाननहार पदार्थ हूं, जानन देखनेका मेरा स्वभाव है। यह मैं प्रतिभासात्मक तत्त्व हूं। उस प्रतिभास स्वरूपका अनुभवन होना यही तो सम्यग्दर्शन है।

सम्यक्त्वमें देवमूढ़ता व गुरुमूढ़ताका अभाव॥सम्यग्दर्शनमें मूढ़ता और रुढ़िवादका स्थान नहीं है। मूढ़तामें कितने ही प्रकार होते हैं। जो यथार्थ देव हैं, आप्त हैं उनको न मानकर, देव नाम रखकर किसी भी रागी-द्वेषी आत्माकी मान्यता रखना, उसे अपना आदर्श मानना, उसे पालनहार मानना यह भी मूढ़ता है। गुरु जैसे हुआ करते हैं, जिनके आरम्भ नहीं परिग्रह नहीं है, ज्ञान ध्यान और तपस्यामें ही जिनका उपयोग लगा है, ऐसे जो गुरु हैं, उनका जो कुछ भी स्वरूप बताया है, उस स्वरूपको तजकर गप्प मारने वाले, अफीम, गांजा, चरस आदिका प्रयोग करने वाले, नानाप्रकारके भेष रखने वाले और चित्तमें छल-कपट रखकर महंतता रखने वाले जो गुरु स्वरूपसे विपरीतस्वरूप वाले हैं उनको गुरु मानकर पूजना मानना यह भी मूढ़ता है।

सम्यक्त्वमें लोकमूढ़ताका अभाव॥लोकमें अनेक अविवेक पूर्ण रुढ़ियां भी चलती हैं, रास्ता चलते जातेमें कोई पथरोंका ढेर मिल गया या कोई साधारण चबूतरा-सा बना मिल गया तो वह देवताके रूपमें प्रसिद्ध हो जाता है। कोई देहाती पुरुष अपने पुत्रका विवाह करके घर जा रहा हो तो घर जाते-जाते करीब ५० नारियल उसके खर्च हो जाते हैं। कोई भी चबूतरा मिला, कोई भी पथरोंका ढेर मिला तो उसे देवता मानकर उसपर नारियल फोड़कर चढ़ा देते हैं। कभी मन कच्चा रह जाय या कोई शंका हो जाय तो दिल भी ऐसा भयभीत हो जाता है, कमजोर हो जाता है कि अटपट प्रवृत्ति वह करने लगता है। लोग समझते हैं कि इसे कोई देवता लग गया है। परेशानी मच जाती है। धर्मके नाम पर पहाड़ोंसे गिरकर मरें, नदी में गोते लगावें, जलती हुई अग्निमें कूद पड़ें, इस प्रकारकी अनेक रुढ़ियां धर्मके नाम पर फैली हुई हैं। इन मूढ़तावोंमें सम्यग्दृष्टि नहीं फंसता है। वह तो अपने आपमें स्थित निज ब्रह्मस्वरूपकी श्रद्धा कर लेनेके कारण यह जानता है कि ऐसे ज्ञानानन्दस्वरूप जिसके प्रकट हुआ है वह तो देव है और इस ज्ञानानन्दस्वरूपके प्रकाशमें जो यत्न कर रहा है वह गुरु है। वह मूढ़तावोंसे रहित होता है। यह ही सम्यग्दर्शनकी कुछ पहिचान है।

सम्यग्दृष्टिकी भवभयभीतता॥सम्यग्दृष्टि जीव संसारके संकटोंसे भयभीत रहता है। रागद्वेष मोह संकल्प विकल्प आदि संकटोंको यह नहीं चाहता। सम्यग्दृष्टि इन बाह्य संकटोंसे रंच भी भय नहीं खाता है। कोई शत्रु आये, कोई क्रूर जानवर सतावे तो उसका उसे भय नहीं होता है, उसको मात्र ज्ञेय मानता है कि यह भी एक स्थिति है। यदि इस देहमें आत्मीय बुद्धि आ जाय तो उसे वह संकट समझता है, उसे तो केवल आत्मस्वरूपकी आराधना ही चाहिए अथवा धर्ममें उसका अनुराग बढ़ा हुआ है। जिसको धर्ममें अनुराग होता है उसकी पहिचान यह है कि धर्मात्मा पुरुषोंमें भी उसके अनुराग होता है। धर्म धार्मिकोंको छोड़कर अन्य कुछ नहीं है। जो धर्ममय जीव हैं, जिनके धर्मका विकास है, वे ही तो धर्ममूर्ति हैं।

सम्यगदृष्टिका प्रशमगुण॥प्रशम, सम्वेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य ये चार गुण सम्यक्त्वकी पहिचान हैं। जो सम्यगदृष्टि है उसके प्रशमगुण बरतता रहता है। कोई जीव अपराध करे, इसे कष्ट पहुंचाये अथवा प्रतिकूल वचन बोले उसको तुरन्त क्षमा कर सकता है ऐसी उसमें योग्यता होती है।

सम्यगदृष्टिके संवेग और अनुकम्पा॥यह प्रकृत्या धर्ममें और धर्मात्माजनोंमें अनुराग रखता है, और किसी दुःखित पुरुषको देखकर इसमें अनुकम्पा जगती है। अनुकम्पा किसे कहते हैं? अनु मायने अनुसार, कम्प मायने कप जाना। दूसरेको दुःख है, जैसा, वह दूसरा अपने दुःखमें क्लेश मान रहा है तो उसके अनुसार, कुछ यहां भी क्लेश उत्पन्न हो। परमार्थतः कोई जीव किसी दूसरेकी मदद नहीं करता है। कोई पुरुष मोहसे, रागसे पीड़ित होकर परिजनों की सेवा किया करता है तो करुणामें भी यह बात है कि विवेकके कारण दुःखी जीवको देखकर हृदयमें वेदना उत्पन्न होती है, तो वेदना शान्त करने के लिए उनका दुःख मेटते हैं। फर्क इतना है कि यह मोही जीव विषयकषायोंमें अंधा होकर मोहरागवश परिजनोंकी सेवा करता है और यह विवेकी ज्ञानी पुरुष विवेक बलसे जगतके जीवोंकी सेवा करता है।

सम्यगदृष्टिका आस्तिक्य॥इसमें आस्तिक्य गुण भी है आस्तिक्य उसे कहते हैं जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लेना। जो वैसा न माने वह नास्तिक। नास्तिकका अर्थ यह नहीं कि जो जिस धर्मका है उसे न माने, उसके शास्त्र न माने सो नास्तिक। यों तो सभी कह सकते हैं कि यह नास्तिक है, पर नास्तिक उसे कहते हैं जो वस्तुका जैसा स्वरूप है वैसा न माने। आत्मा है, उसे न माने उसे नास्तिक कहते हैं। आत्मा शाश्वत है। जैसे आज इस लोकमें हैं, इस भवको छोड़कर फिर परलोकमें भी किसी प्रकार होंगे, पर जो न माने ऐसा उसका नाम नास्तिक है। यह सम्यगदृष्टि जीव आस्तिक्य गुणसे भरा हुआ है और प्रभुका जो स्वरूप है उसकी ऐसी दृढ़ प्रतीति है जिससे सम्वेगमें भक्तिमें लगे रहने का यत्न उसके रहता है। उसे चैतन्यस्वरूप प्रभुकी भक्तिके सिवाय अन्य कुछ भोगनेमें नहीं आता है। प्रभुभक्ति या आत्मध्यान याने आत्मविकासकी ओर उसका यत्न है। परिवार अथवा अन्य झगड़े उसकी दृष्टिमें आस्थाके योग्य नहीं हैं। यह सम्यगदृष्टि पुरुष अपनी आस्थामें इस सम्यक्त्वको धारण करता है। संसारके जन्म मरण इत्यादिके समस्त संकटोंको मिटा देनेकी सामर्थ्य इस सम्यक्त्वमें है।

सम्यक्त्वमें ज्ञानशुद्धि॥सम्यक्त्व होने से पहिले इस जीवके ज्ञान कुमतिज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधिज्ञान कहलाते हैं किन्तु सम्यक्त्व होते ही उस ज्ञानमें शुद्धि आ जाती है और यह सम्यक् बन जाता है। श्रद्धानसे पहिले ज्ञान चाहे सही भी हो रहा हो, किन्तु उसमें दृढ़ता नहीं है। इसलिए वह सम्यक् नहीं कहलाता है। श्रद्धान् होने पर भी दृढ़ता नहीं है, इसलिए वह सम्यक् नहीं कहलाता है। श्रद्धान होने पर दृढ़ता हो जाती है और वह सम्यक् कहलाता है। जैसे मिश्री खानेसे पहिले खूब उसका वर्णन करते जायें, ज्ञान भी उस मिश्रीके बारेमें सही है, लेकिन दृढ़ता कुछ नहीं है। जब मिश्री खाई तो समझमें आया कि ओह यों मीठी मिश्री होती है। उसे मिश्रीका ज्ञान बिल्कुल

स्पष्ट आ जाता है। ऐसे ही आत्माके सम्बन्धमें सब बातें करना जानते हैं, चर्चा करते हैं, युक्ति लड़ते हैं किन्तु जो शुद्ध ज्ञायकस्वरूप जानते हैं, चर्चा करते हैं, युक्ति लड़ते हैं किन्तु जिनको शुद्ध ज्ञायकस्वरूप आत्मतत्त्वका अनुभव नहीं जगा है, उनको यह समस्त ज्ञान अभी कुज्ञानरूप है। अनुभव जगता है तो यह ज्ञान सम्यकरूप हो जाता है। इसी प्रकार श्रद्धानके सम्बन्धमें यह कुछ प्राथमिक वर्णन चल रहा है। यह सम्यग्दर्शन मोक्षमहलका प्रथम सोपान है। इस ही सम्बन्धमें अब आगे कुछ कहेंगे।

श्रद्धानमें मूल दो तत्त्व—जो विनेय विद्वान् लोग हैं अर्थात् आगमके मर्मको ग्रहण करने के पात्र जो बुद्धिमान् जन हैं उनके लिए सर्व प्रथम आराधने योग्य आराधना सम्यग्दर्शन है। मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत ६ तत्त्वों का अथवा ७ तत्त्वोंका यथार्थ निश्चय करना सो सम्यग्दर्शन है। मुक्त होना है जीवको, हम आपको। जीवको किससे मुक्त होना है? जो जीव नहीं है उससे मुक्त होना है, क्योंकि अपने को या किसी भी पदार्थको कष्टमें डाल सकने वाला निमित्तरूपसे परपदार्थ होता है। मैं जीव हूं तो जो कोई अजीव हो ऐसा विशिष्ट पदार्थ ही मेरे बन्धनका कारण हो सकता है, उससे हमें मुक्त होना है। मुझे मुक्त होना है और अजीवसे मुक्त होना है, इस प्रकार दो तत्त्व तो प्रथम ही आ गए जीव और अजीव।

आश्रव और बन्ध—इस जीवमें अजीव आया है तभी तो ये जीव विपरीत आशय कर रहे हैं और ये अजीव जीवमें बंध कर रह रहे हैं। आये बिना रहना किसे कहोगे? कोई आये नहीं और रह जाय, यह कैसे होगा? जो कोई बाह्य तत्त्व ठहर जाय उसका आना तो पहिले ही होता है। यों जीव में अजीव का आना इसका नाम है आश्रव और जीवमें अजीवका ठहरना इसका नाम है बंध। अब इस अजीवसे इसे छुटकारा पाना है यह है संसार की स्थिति, विपन्न परिस्थिति। इसमें दो तत्त्व आ गये आश्रव और बंध। यहां तक तो संसारमार्गकी बात कही गयी है, अब मोक्षमार्गकी बात चल रही है।

संवर, निर्जरा व मोक्ष—भैया! हमें होना है मुक्त। किससे? अजीवसे। तो पहिला उपाय यह है कि अजीव और न आयें और न ठहरें। नहीं तो नवीन कर्म आते रहे तो पूर्व ठहरे हुए अजीव को छुड़ाकर हटाकर हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? प्रथम तो ऐसा होता नहीं है कि ये कर्म आते रहें और इन्हें छुड़ाते रहें। एक दृष्टिसे कहा जा रहा है। बाहुल्यकी दृष्टिसे कर्मोंका आना विशेष बना रहे और कर्मोंका झड़ना भी थोड़ा साथ चलता रहे तो इससे मुक्ति निकट नहीं आ सकती। जैसे कोई दूसरेसे ऋण लेता रहे और अन्य दूसरेका ऋण चुकाता रहे तो वह ऋणसे कभी मुक्त नहीं हो सकता है। ऋणसे मुक्त तो तब हो सकेगा जब कि वह दूसरे से ऋण न ले और ऋण चुकाता रहे। तो जिसे मुक्त होना है उसे प्रथम आवश्यक है कि नवीन कर्म उसके न आएँ और वद्धकर्मोंको धीरे-धीरे खिराये। जब सभी कर्म धीरे-धीरे झड़ जायेंगे तब मोक्ष होगा। इस तरह उपादेय संवर, निर्जरा व मोक्ष ये तीन तत्त्व आये। मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत ये जीवादिक ७ तत्त्व जानने योग्य हैं।

उन्हीं सातोंमें से आश्रवके २ भेद कर दिये जाते हैं पाप और पुण्य, तो ये ६ कहलाने लगते हैं। इन ६ तत्त्वोंका यथार्थस्वरूपका निश्चय रहे वहां सम्यग्दर्दशन होता है।

मुमुक्षुवोंकी आद्य-आराधना॥जिन जीवोंको इस अचल मोक्ष प्रासादपर चढ़ना है, जिससे कभी अनन्तकाल तक भी चलित नहीं हुआ जा सकता है ऐसा जो यह शुद्ध उत्कृष्ट मोक्षपद है उसमें जिनको चलने की इच्छा है उनको सर्वप्रथम यह सम्यक्त्वकी आराधना धारण करनी चाहिए। इस जीवको सम्यक्त्व नहीं है इसलिए दर-दर आशा लगा-लगाकर भीख मांगता हुआ अपनी दुर्दशा भोग रहा है। जैसे किसी गरीबके कपड़ेमें लाल बंधा हो और उसे पता न हो कि मेरे कपड़ेके खूंटमें लाल बंधा है तो वह तो गरीबीका ही दुःख भोगेगा। यद्यपि अपने ही कपड़ेके खूंटमें लाल बंधा है, किन्तु उपयोगमें तो नहीं है, इस कारण वह दरिद्रताका ही दुःख भोगता है। कोई मनुष्य चिकने चोपड़े उजेलेमें बैठा हो और जिस वस्तुको ढूँढ़ना है वह अंधेरेमें पड़ी हो तो वह मनुष्य उस वस्तुको जान नहीं सकता। यद्यपि वह चिकने चोपड़े जाज्वल्यमान् उजेलेमें बैठा है, किन्तु जिस चीजको ढूँढ़ना है वह अंधेरेमें बैठा हो, फिर भी प्रकाश में रहने वाली चीजको वह भली-भांति देख सकता है। यों ही इस दुनियाके चमत्कारिक इन प्रतिष्ठासम्पदा आदिके जालोंमें कोई पुरुष मस्त रहता हो किन्तु जो परखनेकी चीज है, जिसके आश्रयसे ये समस्त कलंक दूर होते हैं, शुद्ध आनन्द प्रकट होता है, वह तो अभी अंधेरेमें ही है, उसे कहां खबर आएगी। जैसे कोई दरिद्र कितनी कठिनाईकी परिस्थितिमें है, खानेको भी भली प्रकार नसीब नहीं होता, फिर भी यदि इसका तत्त्व परमात्मस्वरूप ज्ञान प्रकाशमें पड़ा है तो भी यह मोक्षमार्गको पा लेगा।

अमोघ अमूर्त धन आश्रय॥यह ज्ञानी अपने अन्दरमें मूलसे निराकुल बना हुआ है। जबकि एक सम्पन्न पुरुष जिसको शरण सारभूत संतोषकारक तत्त्व नहीं दिख रहा है, वह बाहरमें हंसता हुआ भी अन्तरमें आकुल बना हुआ है। उसकी हंसी, उसकी मौज केवल बनावटी है। भीतर में तो उसे विह्लता बनी हुई है। अपने आपके स्वरूप का दर्शन इतना उत्कृष्ट वैभव है, जिसकी तुलना तीन लोकके वैभवसे भी नहीं की जा सकती है। मनुष्य धन सम्पदाकी होड़में दौड़ रहे हैं, किन्तु ऐ मनुष्य! यदि सुखी होना है तो धन वैभवकी होड़के लिए दौड़ मत कर। कुछ ठहर, अपने आपमें निरख। जितने भी सुख आनन्द संतोष निकलते हैं, वे तेरे इस आनन्दनिधिसे ही निकलते हैं। बाहरमें सुख है ऐसा भ्रम न कर। एक अपने आपकी सिद्धिमें सब अर्थोंकी सिद्धि हो जाती है। एक निष्काम, निश्चल ज्ञान प्रकाशमात्र अपने आपका विश्वास होने पर आनन्दकी अनुभूतिके बाद फिर उसे जगतमें किसी अन्य तत्त्वकी, भावकी पदार्थकी चाह नहीं रहती है।

इच्छापूर्तिका मर्म॥भैया! इच्छा पूरी होना किसे कहते हैं? जैसे बोरोंमें गेहूँ भरते हैं, उस तरहसे इच्छाओंको ठसाठस भरनेसे क्या इच्छा पूर्ण हो जाएगी? अरे! इच्छाका अभाव हो जाना, इसका नाम इच्छाकी पूर्ति है। इच्छा पूर्ण होनेका अर्थ इच्छाका नाश होना। इच्छाका नाश होना इस शब्दको व्यवहारीजन उपयोगमें नहीं लेते। अर्थ सही है। किसीको किसी चीजके देखनेकी चाह हो

और दिल भरकर देख ले। देख चुकनेके बाद अब देखने से विश्राम लिया। वह कहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो गयी, मतलब यह है कि अब उसके इच्छा नहीं रही। जब तक इच्छा थी, तब तक क्लेश था, जब तक इच्छा पूरी न हुई थी, पूरी होनेका अर्थ नष्ट होना है। लोग कहते हैं कि अब हमारी इच्छा पूर्ण हो गयी है। तो क्या भर भरकर इच्छा पूर्ण हो गयी? नहीं। मिट मिटकर पूर्ण हो गयी। जब इच्छा बिल्कुल नहीं रही तो कहते हैं कि अब हमारी इच्छा पूर्ण हो गयी है। जब तक यह इच्छा अधूरी थी, तब तक कष्ट था। अगर यह इच्छा और भर जाय हमारे आत्मामें, जिसको हम इच्छाका पूर्ण होना कहें, तब तो हमारी विपदाका ठिकाना न रहेगा।

संकटविपाकी दवा॥यह इच्छा मिटती है तो मनुष्यको चैन मिलता है। जब तक इच्छा रहती है तब तक चैन नहीं है। जैसे औषधि और दवाई ये दो चीजें होती हैं। दवा तो नाम है जो रोगको दबा दे, जड़से रोग न मिटे उसका नाम दवा है। कहीं ऐसा न हो कि योग्य चिकित्सकको पता पड़ जाय, सो रोगीको ऐसी दवा पिलावो जिससे रोग अच्छी तरहसे इसके अन्दर बना रहे। रोग बना रहे, नष्ट न हो, यह है दवाका काम। जबकि औषधिका काम है कि उस रोगको मूलसे नष्ट करदे, रहे नहीं। ऐसे ही इच्छाका विषय भोगकर इस इच्छाको दबा दिया जाय तो थोड़ी देर चूंकि इच्छाका व्यक्तरूप सामने नहीं है, इसलिए कुछ सुख मालूम होता है, लेकिन भोग भोगना, उस इच्छारोगको नष्ट करनेकी औषधि नहीं है, किन्तु इच्छा रोगको दबा देनेकी एक दवा है।

इच्छारोगकी औषधि सम्यग्ज्ञान॥किसी प्रकारके भोगोंकी इच्छा हो, विषय भोगने लगे, उस भोगके कालमें अथवा पश्चात् उसे कुछ सुख मालूम हुआ, तो वह सुख किसका है? भोगका नहीं है। जो इच्छा सता रही थी उस इच्छाका दबाव हो गया है। अभी उस भोगसे इच्छाका रोग मिटा नहीं है, दब गया है, और दबी हुई चीज फिर समय पर बहुत बुरी तरहसे उखड़ती है। इच्छारोगकी नष्ट करनेकी औषधि सम्यग्ज्ञान है। ज्ञान और वैराग्यकी परिणितिसे इच्छा रोगका मूलतः नाश होता है। तो यह ज्ञान और वैराग्य ही इस आत्माको इच्छाके जालसे बचाकर सुखमें पहुंचाता है। आनन्दका परमस्थान है मोक्ष-अवस्था।

मोक्षका स्वरूप कैवल्य॥मोक्ष किसी स्थानका नाम नहीं है। यद्यपि मुक्त हुए जीव एक विशेष स्थानमें ही रहा करते हैं। जो लोकका अन्तिम भाग है वहां विराजमान रहते हैं, लेकिन वहां पहुंच जानेसे वहां आनन्द मिला हो ऐसी बात नहीं है। स्थानमें पहुंच जाना मुक्त होना नहीं है। जिस स्थानमें मुक्त जीव रहते हैं। उसी स्थानमें अनन्ते निगोदिया जीव भी रहते हैं। जहां सिद्ध भगवान् विराजे हैं वहां अनन्त निगोदिया जीव भी रह रहे हैं, वे निराश्रित हैं, किसी अन्य शरीरके आधारसे नहीं हैं, सूक्ष्म निगोद हैं। उनके दुःख उतना ही है जितना कि यहांके निगोदिया जीवोंको है। अतः किसी स्थान विशेष पर पहुंच जानेका नाम मोक्ष नहीं है, किन्तु अजीवसे और अजीवके कारण उत्पन्न हुए रागादिक विकल्पजालोंसे छुटकारा पा लेनेका नाम मोक्ष है। यों ७ तत्त्वोंका जहां यथार्थ-निश्चय होता है, उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं।

सम्यक्त्वमें अशुभगति वाली आयुके बन्धका अभाव॥यह सम्यगदर्शन कल्याणार्थी पुरुषोंके लिए प्रथम आराधना है। जहां सम्यक्त्व जग जाता है, सम्यगदर्शनकी स्थितिमें पुरुष नरक आयुका बन्ध नहीं करता है। सम्यगदर्शनकी स्थितिमें मनुष्य हो तो देव-आयुका ही बन्ध करेगा। देव सम्यगदृष्टि हो तो कर्मभूमिज मनुष्यकी आयुका ही वह बन्ध करेगा। तिर्यच हो तो वह भी देव-आयुका ही बन्ध करेगा सम्यगदर्शन रहते हुएमें। नारकी जीव सम्यगदृष्टि हो तो वह मनुष्य-आयुका ही बन्ध करेगा। यह बात दूसरी है कि ऐसे अनुपम सम्यगदर्शन को प्राप्त करके प्रमादवश उसे खो दें, फिर मिथ्यात्वको ही अपनाले तो उसकी दुर्गति प्राकृतिक है, किन्तु जिसे एक बार सम्यक्त्व हुआ वह नियमतः मुक्तिको प्राप्त करेगा। सर्वोत्कृष्ट वैभव है सम्यगदर्शन।

मोहमें आनन्दके लक्ष्यका परिवर्तन॥भैया! इस जीवको आनन्द ही तो चाहिए। यदि इस आनन्दकी झलक समस्त परिग्रहोंके त्याग करनेमें, समस्त परपदार्थोंके भूल जानेमें उनका उपयोग छोड़कर एक केवल निजका उपयोग रखनेमें लगता है तो ऐसा करनेमें तुझे क्या कष्ट है? कौनसी कठिनाई है, क्या बुराई है? कोई ऐसे भी होते होंगे कि धर्मध्यान करते हुए, आत्मध्यान करते हुए उनका मन लग जाय आत्मस्वरूपकी ओर झुकनेमें तो झुकते हुएमें थोड़ी ही कसर रह गयी थी कि अनुभव हो जाता, आनन्द मिल जाता किन्तु इतनेमें ही फिर ऐसा चिन्तन आ जाय कि ओह! कहीं ऐसा न हो जाय कि इसमें ही गड़गप्प हो जायें, तो फिर घरके लोग कहां जायेंगे? उनका क्या हाल होगा?

मोहमें भिखारीपनकी प्रकृति॥अरे! कितना मोहका विष अन्तरमें पड़ा है कि उत्कृष्ट विभूतिका समागम होनेको था और इन्हीं बासे तिबासे कितने ही पुराने झूठे खाये हुए, भोगे हुए अनन्त बारके झूठे भोगोंको भोगने के लिए ही उत्सुक रहते हैं। जैसे किसी भिखारीको जो कि अपनी झोलीमें १०-५ दिनकी बासी रोटियां रखवे हुए है उससे कोई सेठ कहे अरे! तू इन बासी, तिबासी, दसबासी रोटियोंको फेंक दे मैं तुझे ताजी पूड़ियां खिलाऊंगा तो उसे विश्वास न होनेसे फेंकना नहीं चाहता है। वह तो यही जानता है कि यदि पूड़ियां न मिलीं तो फिर मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही इस जीवको जब थोड़ी कसर रह जाती है आनन्द मिलनेकी तो झट मोह विष का अंकुर पनप जाता है। यह भय उसे हो जाता है कि अभी तो कच्ची गृहस्थी है कहीं मेरा उपयोग न बदल जाये तो फिर घरका क्या होगा?

आत्माश्रयमें सर्वतः लाभ॥जिस जीवने एक बार भी परम विश्रांत होकर अपने आत्मीय आनन्दका अनुभव किया है उसका इस लोकमें भी जीवन आनन्दसे व्यतीत होनेमें सुगम मालूम होता है और परलोकमें भी प्रकाश पाते रहना और अपनी उन्नतिके पथ पर चलते रहना यह सुगम मालूम होता है। यदि दुहरा लाभ हो रहा हो तो उस लाभसे क्यों मुड़ना? धर्मकी प्राप्तिसे दुहरा लाभ मिलता है, एक तो पाप क्षीण होते हैं, लौकिक समागम बढ़ते हैं और बीच बीचमें आत्मानुभव कर करके आत्मबलको पुष्ट कर लिया जाता है। फिर सांसारिक कितने भी संकट इस पर आयें उनको हंस

हंसकर झेलनेकी इसमें ताकत हो जाती है। जो मनुष्य संकट नहीं सह सकते, समतापूर्वक हंस हंसकर इन काल्पनिक संकटोंको नहीं सह सकते, वे शुद्ध आनन्दको भोगनेके पात्र भी नहीं हो सकते।

संकटोंकी कल्पना॥भैया! संकट तो कुछ है ही नहीं इस जीव पर। ममताने संकटोंकी दृष्टि बनायी है। संकट कुछ नहीं है, संकटोंकी सृष्टि मायासे हुई है और आनन्दकी सृष्टि इस ब्रह्मसे हुई है। इसका और मर्म ही क्या है? जहां माया और कल्पना बस रही हैं, वहां सारे संकट ही संकट हैं। एक चीज प्रसिद्ध चली आयी है हउवा! माताएं बहुत जानती हैं, जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि अरे! चुप रह, नहीं तो हउवा आ जायगा। अरे! हउवा क्या चीज है, क्या किसीने कभी उस हउवेको देखा है? उसके कितने हाथ होते हैं, कितने पैर होते हैं? है कुछ नहीं, पर कल्पनासे मान लिया है, ऐसे ही यहां संकट कुछ भी नहीं हैं, पर कल्पनासे अनेक संकट अपने ऊपर इस जीवने लाद लिये हैं और उन्हीं काल्पनिक दुःखोंसे सभी दुःखी हो रहे हैं।

धर्मपालनमें सम्यक्त्वका प्रथम स्थान॥जो पुरुष निःसंकट क्लेश-रहित आत्मस्वरूपका अनुभव करता है, उसके सम्यग्दर्शन होता है। यह सम्यग्दर्शन मोक्ष महल पर चढ़ने वाले विनेय विद्वान् पुरुषोंको प्रथम सीढ़ी के समान काम देता है। जब तक सम्यग्दर्शन नहीं होता, तब तक धर्मका आरम्भ नहीं होता। जब तक शुद्ध आनन्दमय स्थितिकी झलक नहीं होती है, तब तक मोक्षकी प्राप्तिके लिए उत्सुकता नहीं जागती। यों धर्मपालनमें सम्यग्दर्शनकी प्रथम आवश्यकता जानकर ग्रन्थके आदिमें श्रद्धानुका संकेत किया है।

आज्ञामार्गसमुद्धवमुपदेशात् सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थाभ्यां भवमवपरमावादिगाढे च ॥११॥

निमित्तादिकी दृष्टिसे सम्यग्दर्शनके भेद॥श्रद्धानुके दश प्रकारोंका जो संकेत किया था, उन दश प्रकारोंका इसी छंदमें वर्णन है। सम्यक्त्व तो एक ही प्रकारका है। **विपरीत अभिप्रायरहित अन्तस्तत्त्वका यथार्थ श्रद्धान होना, सो यही सम्यग्दर्शन है।** इसके स्वरूपमें कोई प्रकार नहीं है। जिस भी जीवके सम्यग्दर्शन होता है, उसे इस ही एक अन्तःस्वरूपका श्रद्धान होता है, किन्तु यह श्रद्धान किन जीवोंको किस निमित्तसे हुआ है? उन निमित्तोंकी अपेक्षासे सम्यग्दर्शनमें भेद डाला है, जिससे लौकिक जन जान जायें कि सम्यक्त्वके वे उपाय होते हैं, इस निमित्तसे होते हैं, ऐसे जीवोंके होते हैं।

(१) **आज्ञासम्यक्त्व॥**सम्यक्त्वके इन भेदोंमें प्रथम भेद है आज्ञा सम्यक्त्व। कितने ही पुरुष जिनेन्द्रदेवकी आज्ञा मानकर उनके वचनोंको शिरोधार्य करके अपनी श्रद्धा पुष्ट करते हैं। जैसे कोई श्रद्धालु इस प्रकारके भी देखे गये हैं कि जिन्हें तत्त्वचर्चाका कुछ ज्ञान नहीं है, किन्तु विनयभाव, श्रद्धाभाव, भक्तिभाव, वीतरागदेवको छोड़कर किसीको न माननेका दृढ़ संकल्प है। कोई सत्यशास्त्रोंको जो भी उसकी कल्पनामें आये हैं, जिनका नाम सुना है, जो परम्परासे चले आये हैं, उन शास्त्रोंको

छोड़कर अन्य शास्त्रोंमें चूंकि उनमें रागद्वेष विषय कषाय बढ़ाने वाले ही उपदेश हैं ऐसा मानकर उसे अन्य शास्त्रोंकी श्रद्धा नहीं होती है। गुरुविषयक श्रद्धा तो उनके बड़ी प्रबल रहती है। निर्ग्रन्थ दिगम्बर जैनेन्द्रमार्गके अनुसार चर्चा करने वाले साधुजनों को छोड़कर अन्य कुभेषी नाना प्रकारके वेशभूषा रखने वाले गुरुजनोंमें ये मोक्षमार्गके गुरु हैं इस प्रकारकी श्रद्धा नहीं होती है। अनेक पुरुष प्रभुकी आज्ञा मानकर धर्ममार्गमें लगे हुए हैं ऐसे जीवोंके आज्ञासम्यक्त्व कहा है।

(२) मार्गसम्यक्त्वोंमें साधुमार्गके दर्शनिका प्रभाव॥दूसरा है मार्गसम्यक्त्व। जैनसिद्धान्तके मार्गमें त्याग और तपस्याकी प्रधानता है। अहिंसा का जितना पालन ये साधुजन करते हैं, वह पालन किये जाने वाली अहिंसा का उत्कृष्टरूप है। भोजनका कोई साधन साथमें न रखना, यह अहिंसाका ही एक उत्कृष्टरूप है। किसीभी परिस्थितिमें अपने हाथसे भोजन न बनाना, और श्रावकके घर भी यदि यह जान जायें कि इसने केवल मेरे लायक ही और मेरे लिए ही आहार बनाया है तो उसे भी नहीं लेते। सब घरके लिए बन रहा हो, उसमेंसे कुछ ले लेना यह सब अहिंसाका ही तो एक उत्कृष्टरूप है। जिसमें मेरे निमित्तसे किसीको बाधा न हो, पूर्ण सत्य व्यवहार होना, यह अहिंसाका ही रूप है। चोरीका तो कोई काम ही नहीं है। कदाचित् कोई चीज चुरायें भी साधु तो वह उसे धरेगा कहां? उसके पास धरनेके लिए, छिपानेके लिए कुछ भी तो नहीं है। उनका तो केवल शरीर मानों परिग्रह है। पीछी, कमण्डल और शास्त्र शुद्ध संयमके लिए रखते हैं। कुशील की तो वहां कोई बात ही नहीं है। प्रकट नग्न है, खोटे परिणाम करे तो वे सब विकार दृष्ट हो जायेंगे, फिर उसकी साधुता टिक नहीं सकती है। कितना शीलका एक व्यक्तरूप है वह। परिग्रहका भी कोई साधन नहीं है, त्याग भी सबका किया है। कैसा उत्कृष्ट है साधुओंका मार्ग?

श्रावकमार्गके दर्शनिका प्रभाव व निश्चय मार्गकी रुचि॥श्रावकजनों का मार्ग भी कितना पवित्र है? रात्रिभोजन श्रावकोंमें नहीं होता, क्योंकि वह हिंसाका साधन है। साथ ही निशा भोजनसे परिणामोंमें मलिनता उत्पन्न हो जाती है। जलमें सूक्ष्म अनेक जन्तु बताए गये हैं, कोई जल बिना छाने नहीं पीते। भगवानकी भक्तिमें; देव, शास्त्र, गुरुकी उपासनामें सावधान रहते हैं और आगे चलो तो प्रतिमापोंका रूप क्रमसे कैसा है? दर्शन प्रतिमामें किस प्रकारका त्याग है? त्यागमें बढ़े तो कैसा क्रम क्रमसे बढ़ते हैं। इन सबका वर्णन सुनकर और इस मार्गको आंखोंसे निरखकर सहसा श्रद्धा उत्पन्न होती है। ओह उद्धारका मार्ग है तो यह है। निश्चयसे आत्मतत्त्वका श्रद्धान् ज्ञान आचरण मोक्षका मार्ग है इस प्रकारके मार्गको निरखकर जो सम्यक्त्व उत्पन्न हो, उसे मार्गसम्यक्त्व कहते हैं। किसी भी प्रकारसे सम्यक्त्व हो, आखिर सम्यक्त्वोंमें अन्तःबात सबमें एकसी ही आती है।

(३, ४) उपदेशसम्यक्त्व व सूत्रसम्यक्त्व॥उपदेशसम्यक्त्व तीसरा प्रकार बताया है। तत्त्व उपदेश सुनकर तत्त्वके सम्बन्धसे श्रद्धा होना, पुराणपुरुषों के चरित्र सुनकर सन्मार्गमें झुकाव होना, यह उपदेश सम्यक्त्व है। सूत्र सम्यक्त्व जो तत्त्वज्ञानके पोषक सूत्र हैं, गाथाएं हैं, उन सूत्रोंको ही

सुनकर श्रमणाचार प्रतिपादक आचारसूत्रोंको सुनकर उनका मर्म जानकर सम्यक्त्व होना सो सूत्रज सम्यक्त्व है। तत्त्वार्थसूत्र एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, कोई यदि यह पूछे कि जैनसिद्धान्तमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा ग्रन्थ है, जिसका अध्ययन करके पूरा ज्ञान कर सकें तो इसका उत्तर तो यह है कि जैन सिद्धान्तमें कोई एक ग्रन्थ मुख्य नहीं बताया जा सकता है। सभी ग्रन्थ मुख्य हैं। कारण यह है कि वस्तुस्वरूपका बहुत विस्तार है। किस-किस विषयको लेकर प्रतिपादन किया जाय। अध्यात्मविषयोंके ग्रन्थ अध्यात्म ढंगके मुख्य हैं। तीन लोक तीन कालकी बातें प्रकट करने वाले ग्रन्थ उस विषयके मुख्य हैं। चारित्रिका निरूपण करने वाले ग्रन्थ उस ढंगके मुख्य हैं। और पुराण पुरुषोंका वर्णन करने वाले ग्रन्थ अपनी दिशाके बहुत निराले और प्रामाणिक हैं। किन ग्रन्थोंका नाम लिया जाय कि जैनसिद्धान्तके प्रतिपाद्य विषयोंका जो प्रतिनिधित्व करदे। फिर भी बहुत कुछ समता लेकर प्रधानता बतानेका यत्न किया जाय, तो यह कह सकते हैं कि एक तत्त्वार्थसूत्र व दूसरा समयसार। यद्यपि इतनेमें भी समस्त विषय नहीं आ सकते हैं, न सभी विषयोंका दिग्दर्शन हुआ, फिर भी बहुत कुछ पूर्ति प्रतिपाद्य विषयों की इन दोनों ग्रन्थों से हो जाती है। तत्त्वार्थसूत्र सूत्रमें एक-एक शब्द कैसे-कैसे मर्मको प्रकट करता है? कमसे कम शब्द लिखकर कितना महान् अर्थ प्रकट किया है। ऐसा जब सूत्रविषयक मर्मका ज्ञान होता है तो सहसा सम्यक्त्व दृष्ट होता है।

(५, ६) **बीजसम्यक्त्व व विस्तारसम्यक्त्व॥**एक है बीज सम्यक्त्व। बीजरूप किसी शब्दको सुनकर एक बहुत विस्तृत मर्म जाननेमें आता है, वहां जो सम्यक्त्व हो अथवा दुर्गम गणितपूर्ण करणानुयोगके बीजोंकी महिमा जान कर जो सम्यक्त्व हो उसे बीजसम्यक्त्व कहते हैं। (७) एक है संक्षेपसम्यक्त्व। किसी प्रतिपाद्य विषयको अति संक्षेपमें सुनकर सम्यक्त्व होना। जो संक्षेप के रुचिया लोग हैं वे उस सूक्ष्मरूपको जब उपयोगमें लेते हैं तो उससे उनकी दृष्टि निर्मल होती है। एक विस्तार सम्यक्त्व है। द्वादशङ्गरूप वाणीको सुनकर जो सम्यक्त्व होता है अथवा बहुत विस्तारसे वर्णन सुन कर जो सम्यगदर्शन होता है वह विस्तारसम्यक्त्व है। (८) एक अर्थसम्यक्त्व है। सूत्रोंका, गाथावोंका, मूल रचनावोंका अर्थ ही सुनकर अथवा अर्थके सम्बन्धसे उनका स्वरूप जानकर जो सम्यक्त्व होता है उसे अर्थसम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्वका अर्थ है समीचीनता, समीचीनता का अर्थ है जहां दोष न रहे, विपरीत आशय न रहे उसे सम्यक्त्व कहते हैं।

विविध विपरीत आशय॥विपरीत अभिप्राय अनेक प्रकारके होते हैं। जैसे ये समस्त द्रव्य भिन्न हैं, उन्हें यह जीव मानता है कि यह मेरा है, यह मैं हूं यह विपरीत आशय है। ये समस्त परद्रव्य अहितरूप हैं, इनके सम्बन्धसे आत्माको शान्ति नहीं मिलती है। ये पदार्थ, ये समागम जब भी कारण बनेंगे तो आकुलताके ही कारण बनेंगे। शान्तिका कारण तो अपने आपके आत्माका अवलम्बन है। शान्ति तो आत्माके आश्रयसे ही प्रकट होगी। दुःख भी आत्माके आश्रयसे होता है, पर उसमें विषय परद्रव्य होते हैं, आश्रय परद्रव्यका होता है, प्रकट आत्मासे होता है। किन्तु आनन्द और शान्ति आत्मासे ही प्रकट होती है, आत्माके आश्रयसे ही प्रकट होती है, विपरीत आशयको

संक्षेपमें तीन प्रकारोंमें रखा है एक स्वरूपविपर्यय, दूसरा भेदभेदविपर्यय, तीसरा कारणविपर्यय। जितने भी विपरीत सिद्धान्त हैं वे सब इन तीनोंके विस्तार हैं।

स्वरूपविपर्यय॥स्वरूपविपर्यय तो स्वरूपमें उल्टी बात समझना है, जैसे जीव है तो चेतन और माने भौतिक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुसे यह जीव प्रकट होता है ऐसा मानना स्वरूपविपर्यय है और जब पृथ्वी पृथ्वीमें मिल जाय; जल, अग्नि, वायु अपने-अपने स्वरूपमें मिल जायें, इसका ही नाम मरण है ऐसा भी एक सिद्धान्त कहता है। जिस सिद्धान्तको चारुवाक् सिद्धान्त कहते हैं। चारु मायने मीठा वाक् मायने वचन। जिसके वचन संसारी जनोंको मीठे लगें, प्रिय लगें उसे चारुवाक् कहते हैं। धर्मकी बात संसारीजनों को अप्रिय लगती है, कठिन लगती है और गप्पे, विषयकषाय भरी बातें बड़ी रुचिकर लगती हैं। जो यह प्रतिपादन करे कि जीवसे अलग सत् कुछ नहीं है, यह तो भौतिकरूप है। ये जब तक ठीक ठिकाने मिले हुए हैं तब तक जीव है। जब ये बिखर जाते हैं तो जीव कहां रहता है? जीव नामकी कोई चीज ही अलग नहीं है, तब क्या करना, खूब मजेसे खावो-पियो, धी शक्करकी कमी न पड़े, चाहे कर्जा लेकर खाना पड़े। जब वह देह भस्म हो जायगा तो कहां जीव है? परभवका यहां डर लगा दिया है। कहां परभव है, खूब मौजमें खावो पियो ऐसी प्रेरणा मिलती है। इस उल्टे प्रतिपादनसे इस आत्माका अहित है।

भेदको अभेद करने रूप भेदभेदविपर्यय॥दूसरा विपर्यय बताया है भेदभेदविपर्यय। जो चीज भिन्न है उसे अभिन्न बताना और जो अभिन्न है उसे भिन्न बताना यह भेदभेदविपर्यय है। जैसे जीवसे राग न्यारा है, रागद्वेषादिक भाव जीवके स्वरूपमें नहीं हैं। प्रकट यद्यपि जीवमें होते हैं, जीवके ही चारित्रिगुणके विभावपरिणमन है तिस पर भी मात्र जीवके सत्त्व के कारण केवल जीवसे ही याने परनिमित्त हुए बिना यह व्यक्त हो जाता हो, ऐसा तो है नहीं। कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर, बाह्यपदार्थोंको उपयोगमें लेकर ये रागादिकभाव उत्पन्न होते हैं। ये रागादिक जीवके स्वरूपसे भिन्न हैं। लौकिकजनोंकी रागमयता निरखकर व्यामोही मानव जीवका स्वरूप ही रागादिक जानते हैं। रागस्वभाव ही है जीवका, कोई जीव रागसे रहित हो ही नहीं सकता ऐसी श्रद्धा होना भेदभेदविपर्यय है। राग मंद हो जाय इसे लोग मोक्ष बोलते हैं, बैकुण्ठ बोलते हैं। ऐसे इस विपरीत सिद्धान्तकी बात सुनाई जा रही है, वहां राग भीतर मंद पड़ा रहता है। जब समय पूरा हो जाता है तब राग उमड़ता है और इसे वहां से पटककर फिर संसारकी योनियोंमें पैदा कराता है। फिर कभी तपस्या करे, राग मंद हो जाय तो फिर वह बैकुण्ठ पहुंच जाता है। इस तरह बैकुण्ठ और संसारकुण्ठ इनमें ही भ्रमण होता रहता है, क्योंकि रागको उन्होंने अभिन्न माना है। तो जो चीज भिन्न है उसे आत्मासे अभिन्न मान लेना, यह भेदभेदविपर्यय है।

अभेदको भेद करनेरूप भेदभेदविपर्यय॥जिस प्रकार जो चीज भिन्न है उसे आत्मासे तन्मय मान लेना भेदभेदविपर्यय है। इसी प्रकार अभिन्नको भिन्न मान लेना यह भी विपरीत श्रद्धान् है। जीवका ज्ञान जीव से अत्यन्त अभिन्न है। जैसे आगकी गर्मी आगको छोड़कर कहां रहती है?

आगमें ही रहती है। गर्मी निकल जाय आगसे तो फिर आगकी कोई सत्ता रही क्या? आग नहीं रहती है। इसी प्रकार ज्ञान यदि जीवसे निकल जाय, कभी निकलता नहीं, त्रिकाल असम्भव है, पर कल्पनासे सोचो, फिर क्या रहा? जीव ज्ञानमय है। फिर भी कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं जो जीवको न्यारा और ज्ञानको न्यारा मानते हैं। सुनते हुए आश्चर्य होगा। जीव ज्ञानरहित है, जब जीवके ज्ञानका सम्बन्ध होता है तब ज्ञानकी चेष्टा होती है ऐसा मानने वाले भी कोई सिद्धान्त हैं और इन सिद्धान्तोंसे फल यह निकाला कि जब यह ज्ञान जीवसे बिल्कुल न्यारा हो जाय तो जीवका मोक्ष होगा। जब तक ज्ञान जीवमें चिपका है तब तक मोक्ष नहीं है जीवका। ज्ञान मिट जाय तो जीवका निर्वाण होगा ऐसा इस सिद्धान्तका फल निकलता है।

विपरीत मन्तव्यमें पूर्वमें मूल आशयका अनुमान॥यद्यपि ऐसा मंतव्य करनेवाले की दृष्टि पहिले पूर्वमें यह रही होगी कि संसारी जीवका जो कुछ ज्ञान है, छुटपुट अधूरा, पराधीन इन्द्रियज जो ज्ञान है वह मिटेगा अर्थात् छुटपट रागदेष भरा ज्ञान दूर होगा तो जीवका मोक्ष होगा। यहां तक तो यह बात है, किन्तु यह दृष्टि हो जाने पर सर्वथा यह मान लिया जाने पर कि ज्ञान जीवसे भिन्न है, ज्ञानके सम्बन्धसे जीवको दुःखी होना पड़ता है, ज्ञान मिट जाय तो जीव सुखी हो जाय यह सिद्धान्त एकदम विपरीत मार्गमें चला गया है। इसमें अभिन्न चीजको भिन्न मान लिया गया है। यह भेदभेदविपर्यय नामका विपरीत आशय है।

कारणविपर्यय॥तीसरा विपरीत आशय है कारणविपर्यय। किसी वस्तुके परिणमनका कारण कुछ और है और मान लिया जाय कारण कुछ और, इसको कहते हैं कारणविपर्यय। जैसे सब पदार्थ अपनी परिणतिकी योग्यता रखते हैं और उन पदार्थोंमें ऐसा स्वभाव भी पड़ा है कि वह विभावरूप परिणमें तो किसी योग्य परपदार्थको निमित्त पाकर परिणमें, क्योंकि परका निमित्त पाये बिना कोई पदार्थ विभावरूप परिणम जाय, तो उसका विभावपरिणमन अमिट हो जाएगा। फिर मिटेगा कैसे? वह तो स्वभाव बन गया। प्रत्येक पदार्थमें परिणमनेकी योग्यता है। वह अपने द्रव्य गुणके कारण प्रतिक्षण प्रतिक्षण परिणमता रहता है, किन्तु वस्तुगत मर्मका परिचय न हुआ तो यह कल्पना कर ली कि इन सबका करने वाला कोई समर्थ एक ईश्वर है। वह इन पदार्थोंको कर रहा है। भला हम आपको दो-चार काम करनेकी बात पड़ी हुई है, तब तो इतनी हैरानी रहती है और जो जगतके अनन्तपदार्थोंका काम करे, उसकी हैरानीका क्या ठिकाना है? ईश्वरका तो आदर्श स्वरूप है, जिसकी आराधना करके हम आप सब अपना कल्याण कर सकते हैं। तो पदार्थ परिणमता तो अपने उपादान कारणसे है। परका निमित्त पाकर परिणमता अपनी परिणतिसे है, लेकिन इस वस्तुस्वरूपको ओझल करके कुछसे कुछ मान लेना, यह सब कारणविपर्यय है।

अपरिचयमें प्रकृतिकी प्रेरणा॥जब मनुष्यको किसी बातका सही पता नहीं रहता है तो प्रकृति उसमें ऐसी बुद्धि उत्पन्न करती है कि कोई गुप्त शक्ति है, जो इसे परिणमा रही है। बहुत पहिले समयमें जब भारतमें रेलगाड़ीका इंजन चलनेको था तो यह जानकर कि आज यहांसे रेल

निकलेगी, लोगोंकी भीड़ जुड़ जाती थी उसे देखनेके लिए और देखने पर उस समय कुछ लोग यह कल्पना करते थे कि यह अपने आप तो चल ही नहीं सकती। न इसमें घोड़े जुते हैं, न कोई आदमी ही इसे खींच रहे हैं, यह जो आगे काला-काला लगा है इसमें कालीमाई रहती है वह इस रेलगाड़ी को चलाती है। अरे! उन्हें पेच पुर्जोंका बोध न था कि ऐसे भाप बनती है, इसके टक्कर लगनेसे यह डंडा चलता है, इस डंडेकी टक्करसे ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि पहिये धूमने लगते हैं ऐसा बोध न होने से ऐसी दृष्टि बन गई कि इसे कालीदेवी चलाती है। तो यों ही समझिये कि जब वस्तुके उत्पाद व्यय धौव्य आदिकका स्वरूपगत परिचय नहीं है तो कुछ भी कल्पना बनायी जा सकती है। इन समस्त विपरीत आशयोंसे रहित आत्मस्वरूपका श्रद्धान् होना यही सम्यक्त्व है।

अवगाढ और परमावगाढ सम्यक्त्व॥अब एक अवगाढ सम्यक्त्व सुनिये। उसका भाव यह है कि अंग व अंगबाह्य सहित समस्त आगमका बहुत ऊँचा ज्ञान श्रुतज्ञान होनेके साथ-साथ जो सम्यक्त्वकी आभा होती है, सम्यक्त्व विलासमान होता है वह अवगाढसम्यक्त्व। और परमात्म प्रभु केवलज्ञानी हैं। उनके ज्ञानमें समस्त लोक और कालकी बात स्पष्ट ज्ञात है। उस ज्ञानके साथ जो सम्यक्त्व विराजता है उसका नाम परमावगाढ सम्यक्त्व है। इस प्रकार इसमें सम्यग्दर्शनके १० भेद बताये गए हैं।

आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञायैव ।
त्यक्तग्रन्थप्रपञ्चं शिवममृतपथं श्रद्धन् मोहशान्तेः ॥
मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणो पदेशो पजाता ।
या संज्ञानागमाब्धिप्रसृतिभिरुपदेशादिरादेशिदृष्टिः ॥१२॥
आकण्याचारसूत्रं मुनिचरणविधेः सूचनं श्रद्धानः ।
सूक्तासौ सूत्रदृष्टिदुर्धिगमगतेरर्थसार्थस्य बीजैः ॥
कैश्चिज्जातोपलब्धेरसमशामवशाद्बीजदृष्टिः पदार्थान् ।
संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधुसंक्षेपदृष्टिः ॥१३॥
यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गी कृतसुचिरथं तं विद्धि विस्तारदृष्टिं ।
संजातार्थात् कुतश्चित् प्रवचनवचनान्यतरेणार्थदृष्टिः ॥
दृष्टिः साङ्गाङ्गबाह्यप्रवचनमवगाह्योत्थिता यावगाढा ।
कैवल्यालोकितार्थं रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा ॥१४॥

आज्ञासम्यक्त्व मार्गसम्यक्त्व व उपदेशसम्यक्त्वका निर्देश॥इन तीन छन्दोंमें दस प्रकारके सम्यक्त्वोंका स्वरूप कहा है (१) शास्त्रपठनके बिना ही वीतराग देवकी आज्ञा प्रमाण ही उनके वचन सुनकर सन्मार्गका श्रद्धान् होना, सो आज्ञासम्यक्त्व है। (२) ग्रन्थ विस्तारके सुने बिना ही दर्शनमोहकी शान्ति होनेसे बाह्य आभ्यन्तर परिग्रहोंसे रहित कल्याणरूप अमृतपथका मोक्षमार्गका

श्रद्धान् होना, सो मार्गसम्यक्त्व है। (३) पुराणपुरुषोंके उपदेशसे उत्पन्न हुए सम्यज्ञानके बलसे जो शुद्ध दृष्टि होती है, उसे उपदेशसम्यक्त्व कहते हैं।

सूत्रसम्यक्त्व, बीजसम्यक्त्व व संक्षेपसम्यक्त्वका निर्देश॥(४) मुनियोंके आचरणका विधान बताने वाले आचारसूत्रोंको सुन कर जो सन्मार्गका श्रद्धान् होता है, उसे सूत्रसम्यक्त्व कहते हैं। (५) गणित ज्ञानके कारणभूत करणसूत्ररूप बीजों द्वारा दुर्गमपदार्थ समूहको जान लेने से प्रकट हुई सन्मार्गकी श्रद्धाको बीजसम्यक्त्व कहते हैं। (६) पदार्थोंको संक्षेप कथनसे ही जानकर यथार्थबोधकी ज्ञालक होनेसे, उत्पन्न हुई निर्मलता से जो सन्मार्गका श्रद्धान् होता है, उसे संक्षेपसम्यक्त्व कहते हैं।

विस्तारसम्यक्त्व, अर्थसम्यक्त्व, अवगाढ़सम्यक्त्व व परभावगाढ़ सम्यक्त्वका निर्देश॥(७) द्वादशाङ्गवाणीरूप आगमविस्तारको सुनकर जो सुत्त्वकी रुचि होती है, उसे विस्तारसम्यक्त्व कहते हैं। (८) आगमके मूलवचनोंको बिना सुनेभी उनके अर्थोंके श्रवणसे जो तत्त्वदृष्टि जगी है, उसे अर्थसम्यक्त्व कहते हैं। (९) द्वादश अङ्ग और अनेक अङ्गबाह्यों सहित प्रवचन परमागमका अवगाहन करके उत्कृष्टरूपसे स्थित जो सम्यक्त्व है, उसे अवगाढ़सम्यक्त्व कहते हैं। इसका भाव यह है कि श्रुतकेवली महाश्रमणोंके सम्यक्त्वको अवगाढ़सम्यक्त्व कहते हैं। इसका यह भाव है कि केवलज्ञानियोंके अर्थात् परमात्मा प्रभुके सम्यक्त्वको परमावगाढ़सम्यक्त्व कहते हैं। यों एक ही सम्यक्त्वके निमित्तभेदसे १० भेद कहे गए हैं।

**शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंसः।
पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम् ॥१५॥**

प्रारम्भ में ही सम्यक्त्वाराधना के निर्देश का कारण॥इस ग्रन्थके प्रारम्भके सम्यक्त्वकी आराधनाके लिए उपदेश किया है। प्रथम ही प्रथम सम्यक्त्वकी आराधनाके लिए ही क्यों कहा गया? सम्यक्त्वमें ऐसी क्या खासियत है? उसका दिग्दर्शन करानेके लिए आचार्यदेव इस छंद में यह कह रहे हैं कि कषायोंका उपशम, शास्त्रोंका अभ्यास करके पाया हुआ ज्ञान और पापोंका त्यागरूप चारित्र तथा बड़ी दुर्धर तपस्यायें ये सब इस जीवको पत्थरकी तरह बोझरूप हैं, यदि सम्यक्त्व नहीं है तो और वहीके वही सब सम्यक्त्व करके सहित हों तो महामणिकी तरह वे सब पूज्य हो जाते हैं।

सम्यक्त्वरहित उपशमभावका बोझ॥अनन्तानुबंधी कषायके मंद उदयमें मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिङ्गी साधुके भी इतनी शान्ति आ जाती है, कषायों का उपशम हो जाता है कि कोई बैरी उन्हें कोल्हूमें पेल दे तो भी वह उस शत्रु पर द्वेष भाव नहीं लाता है, किन्तु निर्विकल्प शुद्ध ज्ञायकस्वरूपका भान न होने से अपने शुभ विकल्पोंमें ही वह अटका हुआ है। मैंने साधुव्रत लिया है, साधुको क्रोध न करना चाहिए, साधुके लिए तो शत्रु और मित्र दोनों समान हैं, सम्मान और अपमान दोनों बराबर हैं, इस प्रकारके विकल्पोंमें उसकी अटक हो गयी है। यह सहजभावसे शान्तिकी वृत्ति नहीं है, किन्तु जान बूझकर उपयोग लगाकर विकल्पोंमें रमकर शान्ति बनाई है। ऐसा बड़ा उपशमभाव भी इस

जीव पर मिथ्यात्वकी स्थितिमें एक पाषाणकी तरह बोझ हो गया है। विषयकषायों का बोझ तो प्रकट ही है, किन्तु ऐसा उपशम भाव भी सम्यक्त्व बिना बोझ कहा गया है।

प्रकृत उपशमभावकी हीनताका दृष्टान्तपूर्वक समर्थन॥जैसे मणिकी जाति और पत्थरकी जाति एक पाषाण कही गई है। मणि भी तो आखिर पत्थर है और यह छतों पर लगाया जाने वाला, भींतोंमें चिना जाने वाला पत्थर भी तो पत्थर ही है, फिर भी इस पत्थरकी कोई महिमा नहीं है, मूल्य नहीं है और मणि दो-चार रत्तीका भी हो तो भी उसकी महिमा मानी गयी है। ऐसे ही यह प्रशमभाव सम्यग्दृष्टियोंके भी हैं, मिथ्यादृष्टियोंके भी हैं, पर सम्यक्त्वरहित मिथ्यादृष्टि जनोंका शुभभाव की अटकके कारण बनाया गया यह प्रशमभाव भी महिमा नहीं रखता मोक्षमार्गके लिए। आखिर बिल्कुल व्यर्थ तो यों नहीं जाता कि प्रशमभाव से विशेष पुण्यका बंध होता है, उत्तम आयु प्राप्त होती है, व्यर्थ तो यों नहीं गया, किन्तु मोक्षमार्ग बिल्कुल नहीं हुआ इस दृष्टिसे वह व्यर्थ गया है।

सम्यक्त्वरहित ज्ञानका भार॥ज्ञानकी बात देखो, अभ्य साधुके भी ११ अंग ६ पूर्वका पूर्ण ज्ञान हो जाता है, इतनी तपकी महिमा है। यह बहुत विशाल ज्ञान है। इतना तक ज्ञान हो जाने पर भी जिसको सहज भाव में अनुभूति नहीं हुई है ऐसे पुरुषको इतना विशाल ज्ञान भी पाषाणकी तरह एक बोझ बताया गया है। दृष्टि मोक्षमार्गमें देनी है, उसकी अपेक्षा यह समस्त कथन है। पुण्यके रुचिया जीव तो यह आशंका करेंगे कि क्या बोधकी बात कही जा रही है? इतनी बड़ी तपस्या गर्मीमें, सर्दीमें, बरसातमें विभिन्न कठिन साधनाएँ इन्हें बोझ कहा जाय व उनसे उत्पन्न हुआ ऐसा ऊँचा ज्ञान जो हर एक में सम्भव नहीं है, ऐसे ज्ञानको भी बोझ कहा जाय, लेकिन संसार संकटोंसे दूर करने वाले मोक्षमार्गकी दृष्टिसे निरखी तो उसकी दिशाएँ बिल्कुल भिन्न हैं, अतएव वह मोक्षमार्गका काम नहीं दे सकता है।

सम्यक्त्वकी सहज दिशा॥सम्यक्त्वकी दिशा अलौकिक है। कहो एक बैल कहीं बैठा हुआ घास खाकर जुगाली कर रहा हो, कहो उसकी दृष्टि ऐसी निर्मल हो जाय कि वह आत्माकी ओर झुके, अपने शरीरको भी भूले और ‘शुद्ध ज्ञानज्योति मात्र मैं हूँ’ ऐसी अनुभूति जगे। यद्यपि वह बैल बोल नहीं सकता है अक्षरोंके रूपमें और इसी कारण जो ज्ञान और अनुभव करता है उसका अन्तर्जल्य भी न कर सके, फिर भी अनुभूति प्रत्येक सैनी पर्याप्त जीवके होने का अधिकार है। कहो वह सम्यक्त्व उत्पन्न करले, हाँ लब्ध्यपर्याप्तक संज्ञी जीवको अधिकार नहीं है किन्तु जितने भी संज्ञी पर्याप्त जीव हैं उन्हें सम्यक्त्वका अधिकार है, ऐसे पशु कहो सम्यक्त्वको पा लें और एक मनुष्य जो साधु होकर बड़ी ऊँची तपस्या कर रहा है और कहीं विभावमें अटक है, वह कहो अपने विकल्पोंमें ही फंसकर सम्यक्त्व न उत्पन्न कर सके। यह बोझ भी सम्यक्त्वके बिना बोझ है।

सम्यक्त्व बिना विशाल शास्त्रज्ञान भी भार॥जैसे भावभासना हुए बिना शास्त्रोंकी विद्याएँ भी विडम्बना करने वाली होती हैं, ऐसे ही भावभासना हुए बिना आत्मतत्त्वकी विद्या जानकारी भी उसके लिए विडम्बना अथवा भाररूप होती है। एक कथानक है कि चार ज्योतिषी गए एक राज

दरबारमें। कहा हम लोग गुप्त प्रचण्डन सब बातें बताया करते हैं। राजा ने अपने हाथमें एक चीज ले ली और कहा अच्छा बतलावो मेरे हाथ में क्या है? तो एक ज्योतिषीने गणित लगाकर बताया कि आपके हाथमें सफेद चीज है। तीसरे ने कहा कि उस गोल-गोल चीजके बीचमें छेद भी है, तो चौथा कहता है कि खोलो महाराज, आपके हाथमें चक्कीका पाट है। अरे, उसको इतनी अक्ल न हुई कि हाथकी मुट्ठीमें चक्कीका पाट कैसे आ सकता है? वह चीज गोल तो थी, सफेद भी थी, बीचमें छेद भी था, मगर वह मालाका दाना था। जिसे चौथे ने कहा कि खोल दो महाराज चक्कीका पाट है। तो भावभासना बिना, विवेक बुद्धि बिना शास्त्रोंकी विद्यावोंसे अक्षरोंकी विद्यावोंसे मर्म तक नहीं पहुंचा जाता है। ऐसे ही आत्माके सम्बन्धमें शब्द उतने ही हैं, अमूर्त है, नित्य है, निरञ्जन है, सनातन है आदि, पर इतना बोलकर भी भावभासना न होनेसे उसकी पहिचान नहीं हो पाती है, पकड़ नहीं हो पाती है। ऐसे ही यह सब ज्ञान जो शास्त्रोंके अभ्यास से सम्पादित किया है वह ज्ञान भी अपने लक्ष्यको पकड़नेमें असमर्थ रहता है। वही समस्त ज्ञान सम्यक्त्व उत्पन्न होने पर महामणिकी तरह पूज्य हो जाता है।

ज्ञानकी सम्यक्त्वके कारण समीचीनता॥ भगवान् महावीर स्वामीके समयमें इन्द्रभूति नामका एक विप्र था जो उस समयके विद्वानोंमें सर्वप्रमुख विद्वान् था। इन्द्रने अवधिसे जाना कि महावीर स्वामीकी ध्वनि नहीं खिर रही है, उसको झेलने वाला भी कोई नहीं है, इसको झेलने वाला तो इन्द्रभूति ही होगा। इसे किसी तरह समवशरणके नजदीक तक ले चलें तो सबका कल्याण है। इन्द्र वृद्धरूप धरकर एक प्रश्न करता है जो बहुत प्रसिद्ध है “त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश्याः पञ्चान्ये चस्तिकाया व्रतसमिति गतिज्ञानचारित्रभेदाः। इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्द्विरीशैः; प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः ॥” ३ काल, ६ द्रव्य, ६ पदार्थ, ६ काय, ६ लेश्या, ५ अस्तिकाय, ५ व्रत, ५ समिति, ४ गति, ५ ज्ञान, ५ चारित्र इन सबका विशद परिज्ञान और जहां जिसरूप आचरण करना है वह आचरण हो यह सब मोक्षका मूल है। जो इसकी श्रद्धा करता है, ज्ञान करता है और इसका स्पर्श करता है वह सम्यग्दृष्टि है, मोक्षको प्राप्त होता है। इस छंदमें संज्ञाके संकेत भर हैं, इसे वह स्पष्ट तो नहीं बता सका, क्योंकि यह मूल-मूल भाव मात्र हैं, किसी विवरणके साथ इस छंदमें वर्णन नहीं है, लेकिन अपना अभिमान तो रखना था, उस समयके विद्वानोंमें सबसे बड़ा विद्वान् था वह, तो अपनी शान रखनेके लिए कहता है कि तुम्हें क्या बतलाएँ, तुम्हारा कोई गुरु है? हम सीधा गुरुसे बात करेंगे। उन्होंने कहा, हां मेरा गुरु है। लिवा लाया महावीर स्वामी के समवशरणमें। वहां मानस्तम्भ देखकर उसका मान गल गया, सम्यक्त्व जग गया। ज्ञान तो सब पहिले था ही, वह सब ज्ञान एक सम्यक्त्व जगे बिना, स्याद्वादका आश्रय लिए बिना जो विपरीत हो रहा था, वह समस्त ज्ञान अब सही-सही रूपमें वही तत्त्वभूत नजर आने लगा।

सम्यक्त्वके बिना चारित्रका भार॥ यह बोझ सम्यक्त्वके बिना पाषाण की तरह बोझरूप है

और सम्यक्त्वसे संयुक्त हो तो महामणिकी तरह वह पूज्य है। जिसका आशय विपरीत है वह कितना ही प्रिय बोले, कितना ही बनकर बोले, आखिर वह घातक ही होता है। ऐसे ही जिस आत्माका आशय विपरीत है वह कितना ही ज्ञान करे वह सब ज्ञान खोटा ही होता है। यही समस्त ज्ञान सम्यक्त्व सहित हो तो पूज्य है। ऐसी ही चारित्रिकी भी बात है। पंचमहाव्रत ५ समिति, ३ गुप्तिका पालन, २८ मूल गुणोंका निर्दोष धारण कितनी कठिन बात है? मन, वचन, कायको कितना ही संभाल करके यह दुर्धर व्रत किया जा सकता है। फिर भी जिसे कहते हैं कि भीतरकी गुंडी नहीं खुली, सबसे निराले केवल ज्ञानप्रकाशमात्र, असहाय, स्वसहाय, परमशरणभूत आत्मसर्वस्वका अनुभव न हुआ, विकल्पमें ही अटक रही तो यह दुर्धर चारित्र भी पाषाणकी तरह बोझ है, क्या होगा? सम्यक्त्वरहित चारित्रिसे कुछ पुण्यका बंध होगा, देवगतिमें जन्म होगा, वहां विषयोंमें रमेगा, पापबंध करेगा, और फिर जहां भी उत्पन्न हुआ मनुष्योंमें अथवा तिर्यज्ज्वोंमें वहां भी वही आदत बनेगी, संसारको लम्बा करेगा, लाभ कुछ न उठा पायेगा क्योंकि सम्यक्त्व जो एक दिग्दर्शन आश्रय है, वह पासमें नहीं है।

सम्यक्त्वकी लक्ष्यदर्शकता॥जैसे पानीका जहाज अथवा हवाई जहाज चलाने वाले लोग अपने साथ कुछ ऐसा यंत्र रखते हैं जिससे दिशा का भान रहता है। हवाई जहाज नक्शे के आधार पर चलता है। आकाशमें कहां लाइन है, कहां सड़क है? जैसे वहां अपने यंत्रके आधारपर ठीक दिशामें चला लेते हैं, यों ही मोक्षमार्गमें चलनेके लिए यह सम्यक्त्व दिग्दर्शक यंत्र है। चलना तो चारित्रिसे है, पर किस तरह चलना यह सब दिशा बनाने वाला यह सम्यग्दर्शन है। जैसे नाव खेने वाले लोग अपने बल से नावको आगे खेते जाते हैं। नावके खेने तक ही उनका काम है, पर किस दिशामें नाव जाय, इसका अधिकारी तो वह करिया लेने वाला है जो नाव के पीछे बना रहता है। ऐसे ही चारित्रिका काम तो उपयोगको कहीं रमानेका है, पर उपयोग कहां रमें? इसका निर्णय तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व पर निर्भर है। मिथ्यात्वका उदय है, विपरीत आशय है तो चारित्र रमेगा विषय कषायोंके लक्ष्यमें और सम्यक्त्वका आशय है, शुद्ध चित्त है तो उपयोग रमेगा शुद्ध ध्येयमें, आत्मतत्त्वमें। यह समस्त चारित्र भी सम्यक्त्वके बिना बोझरूप हैं।

सम्यक्त्वरहित पुरुषके अनशनसे मोक्षमार्गमें सफलताका अभाव॥तपस्या भी बहुत कठिन होती है। अनशन करना, माह दो माह चार माह छः माहका अनशन करना कितना कठिन तप है? यहां तो एक बार भी भोजन छोड़ना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। इतना भी जाने दो, दो बार दिनमें खायें, तीन बार भी खायें तो भी रातमें खानेको मन ललचाता है। दिन भर खाया, चलो रातको न खायें, इतनी भी सबर नहीं होती है। और मुनिराज दो-चार माह तकका भी उपवास किया करते थे। अनेक साधु अथवा श्रावक अब भी ५-७ दिनका पर्वोंमें उपवास कर लिया करते हैं। उपवासकी कठिन तपस्या करके भी यदि दिशाका भान नहीं है, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं इसका सही परिचय नहीं मिला है तो इतना श्रम करके भी वह मोक्षमार्गमें कुछ भी सफल नहीं हो सका है।

सम्यक्त्वरहित तपश्चरणोंका भार॥भैया! एक अनशन ही क्या अनेक तपस्याएं ऐसी हैं जो दुर्धर हैं, गर्मी ऋतुकी तपस्या, शीत ऋतुकी साधनाएं, बर्फ गिर रही है, ओस गिर रही है, जंगलमें साधना कर रहे हैं बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, पर्वतोंमें विचार रहे हैं, ध्यान साधनामें लगा रहे हैं, कितनी-कितनी कठिन तपस्याएं हैं, लेकिन कोई साधु यदि यह विकल्प रखें कि मुझको मोक्ष पाना है और ये-ये व्रत पालना है, मैं साधु हूं साधु हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता, सब कुछ सोचकर देहको लक्ष्यमें लिया है अथवा भीतरमें एक यह त्यागमय विकल्प चल रहा है, उस विकल्प में उलझे हुए हैं, उस विकल्पको पार करके परम विश्राम न लिया जा सकता हो तो ऐसी पर्यायबुद्धिका यह तपश्चरण भी एक बोझ है और वही तपश्चरण सम्यक्त्व यदि है तो वह महामणिकी तरह पूज्य हो जाता है।

ग्रन्थारम्भमें धर्मप्रारम्भकका निर्देश॥सम्यक्त्वकी आराधना करना धर्मपालनके लिए सबसे पहिले क्यों बताया गया है? इसका कारण यही है कि यथार्थ भान हुए बिना धर्मका प्रारम्भ नहीं होता है। इसलिए सबसे पहिले ज्ञानार्जन, तत्त्वचिन्तन, आत्ममनन करके अपने आपका यथार्थ निर्णय बना लेना चाहिए, अपना अभिप्राय विशुद्ध बना लेना चाहिए। जो पुरुष अपनी स्वच्छताका तो यत्न न रखें, किन्तु व्रत चारित्र षट्कर्म आदि क्रियायें करनेके लिए ही उद्यमी बना रहे, हृदय अपवित्र ही रखें, लोभका रंग, मानका भूत, मायाका जाल, क्रोधकी ज्वाला कितनी ही बनी रहे, जिनकी ओटमें यह प्रभु ढका रहे तो उसके ये सब श्रम कार्यकर नहीं होते हैं।

सम्यक्त्वकी धर्ममूलता॥किन्हीं दो चित्रकारों को एक सेठने एक कमरा दे दिया और कहा कि तुम दोनों एक-एक भींत पर अपने-अपने चित्र बनावो। उनके बीचमें एक पर्दा डाल दिया गया, इसलिए कि वे दोनों एक दूसरेके चित्रोंको न देख सकें। अब उनमें जो होशियार चित्रकार है वह तो यह करेगा कि भींतकी पहिले सफाई करेगा चूनासे तथा और मसालोंसे यह सफाई वह तब तक करेगा जब तक कि उसे यह विश्वास हो जाय कि अब यह चित्रोंको चमकाने वाली भींत हो गयी। और दूसरा कारीगर बड़े अच्छे-अच्छे रंग लाकर चित्रकारीमें ही छहों महीना व्यतीत कर डालेगा। जब पर्दा उठाकर उनका मिलान करनेके लिए देखते हैं कि किस कारीगरकी चित्रकारी अच्छी है? पहिले चित्र बनी हुई भींत पर दृष्टि डाली तो वे चित्र न चमकीले थे, न उनमें कांति थी, क्योंकि ऐसी ही रद्दी-सद्दी भींत पर बनाये गये थे। जब दूसरी ओर दृष्टि दी तो वह चमकीली भींत बनी हुई थी, उस पर सामनेके सारे चित्र प्रतिबिम्बित हो गए थे। देखनेमें बड़े सुहावने लगे। तो भींतकी सफाई करने वाले को इनाम मिला। यों ही कोई पुरुष अपने चित्र को उपयोगको स्वच्छ बनाये रहता है, सम्यग्ज्ञानके मननसे जिसका धर्मपालन सही है, एक तो यह पुरुष है और कोई पुरुष अपनेको धर्मात्मा जतानेके लिए कुछ विकल्प बनाए, मैं क्या हूं? इसका भान न हो तो वह आत्मीय आनन्दका लाभ नहीं उठा सकता। यह ही पुरुष जब सम्यक्त्वसहित हो जाता है तो उसके समस्त ज्ञान, चारित्र और तप महामणिकी तरह महिमा योग्य हो जाते हैं। सम्यक्त्वकी अनिवार्यता है। आत्मकल्याणके लिए, इस कारण आचायदेवने ग्रन्थके प्रारम्भमें सम्यक्त्व आराधना करने के लिए अनुरोध किया है।

**मिथ्यात्वातङ्क्षवतो हिताहितप्राप्त्यनाप्तिमुग्धस्य ।
बालस्येव तवेयं सुकुमारैव क्रिया क्रियते ॥१६॥**

मोहातङ्क्षग्रस्तं पुरुषको सुगम चिकित्साका आश्वासन॥ संसारके विषय कषायके संकटों से छुटकारा पाने के लिए आचार्यदेवने सम्यक्त्वकी आराधना बतायी है। सम्यक्त्वकी आराधनामें कोई कष्ट नहीं है। कोई पुरुष इन बातोंको कष्टदायी मानकर भय करे तो उसका भयनिवारण इस छंदमें किया गया है कि मिथ्यात्वरूपी रोगसे पीड़ित और इस ही कारण हित और अहितकी प्राप्ति और परिहारमें बेहोश बालककी तरह अज्ञानी संसारी प्राणियों को हम सुकुमार क्रिया बतावेंगे अर्थात् जैसे बालक रोगी हो जाय तो उसपर कठिन इलाज नहीं किया जाता, सुकुमार इलाज बतावेंगे, भय करनेकी जरूरत नहीं है।

संसाररोग विवरण॥ ऐया! रोग तो इस जीव पर बहुत विकट है अपने आपका आत्मा अपनी सुधमें न रहे और बहिर्मुखी दृष्टि बनाकर अत्यन्त भिन्न असार अहित परद्रव्योंको अपना माना करे, ऐसी जो अन्तरङ्ग कलुषता बस गयी है यह क्या कम विपत्ति है? इस जगत्‌में मोही मोहियों का यह मेला है। इस कारण एक दूसरेके मोहकी करतूतकी प्रशंसा की जा रही है और इसी कारण अपनी गलती विदित नहीं हो पाती है। धन वैभव की वृद्धिमें, यश प्रतिष्ठा के बढ़ावेमें और भी नाना व्यामोहोंमें सभी जीव उलझे हुए हैं। इस कारण दूसरे की वृद्धि, सांसारिक समृद्धि निरखकर लोग प्रशंसा करते हैं और ये मोही उस प्रशंसामें आकर अपने आपको भूल जाते हैं। यह विडम्बना क्या इस जीव पर कम विपदा है?

सुख दुःखमें सुकृत दुष्कृतकी आधीनता॥ भले ही आज मनुष्यजन्म पाया है, सम्पदा विषय साधनका भी आराम बहुत है और दुनियावी विद्या की कला भी कुछ प्राप्त है। इतना सब कुछ साधन मिल जाने पर भी क्या यह ठेका कोई ले सकता है कि अब इस जीवके भविष्यमें कभी भी इससे हल्कापन नहीं आ सकता है? प्रथम तो इस जीवनमें भी विश्वास नहीं है कि जैसे आज है वैसे ही या उससे बढ़कर स्थिति रहेगी और फिर मरणके बाद तो एकदम ही काया बदल जाती है। सुकृत किया हो तो उत्तम गति मिलती है, दुष्कृत किया हो, अन्याय या धन वैभवकी तृष्णामें आकर अपने आपको बरबाद करना, दूसरोंके प्रति अन्यायकी वृत्ति करना आदि कर्तव्योंसे यदि कुछ दुष्कृत बन गया हो तो जगत्‌में जैसे और जन्म दीख रहे हैं; घोड़े, बैल, गधे, शूकर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कीड़े-मकौड़े ये सब इसी के तो प्रमाण हैं कि पाप कर्मका बंध हो तो एकदम ढाँचायों बदल जाता है।

हितार्थ ज्ञानोद्यम॥ हे आत्मन्! अपना हित यदि चाहता है तो इस भ्रमको तू तज दे कि संसारमें इतने लोगोंमें हमें सर्वश्रेष्ठ कहलाना है और इसके लिए हमें अपनी सम्पदाका संचय करना है। इस बुद्धिको तू त्याग दे। इस बुद्धिसे संचय भी नहीं होता है। जिसमें जैसी योग्यता है, जैसे पुण्यका जिसके उदय है उसके अनुसार ये सब समागम, ये सब समृद्धि स्वयं ही निकट होती हैं।

तू अपनी बुद्धिको अपने ठिकाने रख । समस्त जगतके जीवोंके प्रति मैत्री भाव बना । किसी भी जीव को तू अपना विरोधी मत मान, कोई भी जीव तेरा विरोधी नहीं है, प्रत्येक जीव तेरी ही भाँति अपने स्वार्थको लेकर अपने कषायोंकी वेदनाकी शान्तिके लिए अपनी-अपनी चेष्टा किए जा रहे हैं । तेरा कोई विरोध नहीं करता है । जो भी दूसरा पुरुष तेज लक्ष्य लेकर विरोध करता हो तो सच मान, वह तेरा विरोध नहीं करता । तेरा विरोध करनेकी सामर्थ्य किसी अन्य प्राणीमें है ही नहीं । वे सब अपनी-अपनी कषायके अनुसार अपनी वेदनाको मिटानेके लिए अपनी चेष्टाएं किया करते हैं यह है वस्तुस्थिति । तू उन परकी चेष्टावोंको निरखकर अपने मन में द्वेष मत ला, वहां भी ज्ञाता द्रष्टा रह ।

मिथ्यात्वकी वेदना॥यह समस्त जगत मिथ्यात्वरूपी रोगसे पीड़ित है । यहां जो कुछ भी परस्परके व्यवहार हैं, जिन व्यवहारोंमें हम तुष्ट होते हैं, मौज मानते हैं, वे सब मोहकी नींदके स्वप्न हैं, ये सब समागम मायारूप हैं । आज मिले हैं कल न मिलेंगे, नष्ट हो जायेंगे । कभी तो वियोग होगा ही । जिसका भी समागम हुआ है उसका नियमसे वियोग होगा, चाहे वह सचेतन समागम हो अथवा अचेतन समागम हो, वियोगसे होगा । बिछुड़ने पर दुःखी होना ही पड़ेगा । जो बिछुड़ रहा है वह भी दुःखी और जो यहां रह रहा है वह भी दुःखी । बल्कि मरने वाला पुरुष तो मरकर चला गया, उसे यहांकी कल्पनाका कुछ क्लेश नहीं रहा, किन्तु यहां जो बच रहा है वह मरने वालेकी याद कर करके कई वर्षों तक दुःख भोगता रहता है । मरने वाला उतने टोटेमें नहीं रहा, जितना कि जीने वाला रहा ।

मायाव्यवहार॥यहां कोई किसी की प्रशंसा करता हो तो वहां यह यों समझना कि मोहके रोगसे पीड़ित प्रशंसाके लोलुपी दोनों ओरके पुरुष हैं, जो प्रशंसा करते हैं वे भी प्रशंसाके इच्छुक हैं और जिसकी प्रशंसाकी गई है वह यदि सन्तुष्ट होता है, मौज मानता है तो वह भी प्रशंसाका इच्छुक है । अंतरङ्ग में जब प्रशंसाकी कल्पना जग गयी तो यही तो कलुषता है, विपदा है । एक नीतिमें कहा है “उष्ट्रानां विवाहेशु गीतं गायन्ति गर्दभाः । परस्परं प्रशंसन्ति अहोरूपमहो ध्वनिः॥” यह चित्र कविने खींचा है । कहीं हो रहा था ऊँटोंका विवाह तो विवाहमें गीत गाने वाले चाहियें ना, सो गीत गानेके लिए गधे बुलाये गए । वे गधे ऊँटोंकी प्रशंसा करते हैं अहो कितना सुन्दर रूप है । अरे कहीं ऊँटका रूप सुन्दर होता है? उसकी गर्दन टेढ़ी, पीठ टेढ़ी, पैर टेढ़े, सारा अंग टेढ़ा, पर गधे ऊँटोंकी प्रशंसा करते हैं तो ऊँट भी गधोंकी प्रशंसा करते हैं अहो कितनी सुन्दर ध्वनि है? तो जैसे गधोंने ऊँटोंकी प्रशंसा कर दी और ऊँटोंने गधोंकी प्रशंसा कर दी । यों ही यदि एक दूसरेकी प्रशंसामें यह पुरुष मुग्ध हो जाता है, च्युत हो जाता है तो यों ही समझना चाहिए कि परस्परमें सभीका अन्तरङ्गमें कलुषित परिणाम है । कलुषता केवल द्वेषको ही नहीं कहते हैं । उससे भी बढ़कर कलुषता है रागकी ।

रागका संकट॥यह आत्मदेव ज्ञानानन्दका निधान है । स्वयं ही अनन्त आनन्दस्वरूप है ।

ज्ञानस्वभावके कारण तो इसमें इतनी सामर्थ्य है कि समस्त लोक और अलोकको, भूत भविष्यको यह एकदम स्पष्ट जान सकता है। इतना महान् ज्ञानानन्दके निधान इस प्रभुकी जिसने ओट कर दी है, जो उड़कर उपयोग और प्रभुके बीचमें अटककर आगे आया है ऐसे इस रागको अपना कितना बैरी बताया जाय? जिसने कि इस प्रभुका दर्शन ही रोक दिया है। यह रागका संकट हम आपपर कठिन लगा हुआ है। विषयोंमें क्या आनन्द है? जो आनन्द इस शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वके उपयोगमें है वह आनन्द कहीं नहीं है। मनुष्य नवीन-नवीन आनन्द के लिए नवीन-नवीन तैयारी किया करता है। जरा विषयोंके आनन्दकी धुन तज कर आत्मीय आनन्द भी तो तको, कितना अलौकिक आनन्द है, उसकी प्राप्तिके लिए कुछ उद्यम करो।

आत्मकार्य के भावात्मक यत्नमें सिद्धि॥भैया! जो अपना काम है, वह काम किए बिना नहीं होता। हम आत्मीय आनन्दका अनुभव करना चाहें तो अन्तरङ्गमें बड़ा त्याग और बड़ा तपश्चरण करना होगा। हम बाहरी त्याग और तपस्याकी बात नहीं कह रहे हैं। बाह्यमें गृहस्थीकी स्थिति हो अथवा साधुकी स्थिति हो, उसकी बात यहाँ नहीं कही जा रही है, किन्तु ज्ञानरूप है यह आत्मा, जाननेका तो इसे अधिकार है, जानने की स्वाधीनता है तो चलो, अब यह परपदार्थोंका न जानकर जानने वाला तो यह है स्वयं इस जानने वाले को ही जाननेके लिए अपना आग्रह बना लें। इतनी उत्कृष्टता मूलमें उत्पन्न हो तो सब काम बन सकता है। आशय ही हमारा विपरीत है, खाने-पीने मौज उड़ाने के लिए ही अपना जीवन समझें तो फिर हमें सत्यथ न मिलेगा। जैसी दृष्टि हम बनाते हैं वैसा ही हमारा यत्न होता है। इस मनुष्यजीवनका लाभ आत्मचिन्तन, आत्ममनन और आत्मीय आनन्दके अनुभवनके लिए मानें और अपना लक्ष्य विशुद्ध करके फिर उसके लिए प्रयत्नशील रहा करें। जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसी ही हमारी गति होगी।

इन्द्रियविषयोंकी असारता॥यह जीव इस स्वतन्त्र निश्चल विकल्पष अपने प्रभुको न पहिचान कर, चूंकि इसमें किसी न किसी जगह रमनेका स्वभाव पड़ा है, इस कारण यह परपदार्थोंमें रीझनेकी परिणति बनाता है और तब हित क्या है और अहित क्या है इसे भी यथार्थ नहीं समझ सकता है। भला अनुभवसे ही देखो इन्द्रियों द्वारा किसी भी विषयके भोगके पश्चात् भी किसीके कुछ तृप्ति और सन्तोष रह पाता है क्या? कोई सा भी विषय ले लो चाहे रातभर संगीत सुनें, राग रागनियां सुनें, पर उसके बाद थकान, निद्रा, प्रमाद हो जाते हैं, कार्यहानि भी होती है, सब हानियां ही हानियां हैं, पर कल्पनासे उसे मौज मान लेते हैं। ऐसे ही कोई भोजन सरस स्वादिष्ट, गरिष्ठ आसक्तिवश खूब खायें, पर खाने के बाद पड़ा रहना, पेट पर हाथ फेरना, चूरन चटनी की तलाश करना, कितनी देर तक उसका कष्ट भोगना पड़ता है और स्पर्शनइन्द्रियका विषय, कामके विषयका पछतावा तो सबसे अधिक हुआ करता है। जिन इन्द्रियोंके भोगने के पश्चात् भी पछतावा बना रह सकता है, उन असार इन्द्रियविषयोंमें क्या सारकी बात बतायी जाय? वह हितरूप नहीं है, अहित है। लेकिन मोहमें जीव अहितकी ही प्राप्तिका उद्यम बनाये रहता है।

धर्मर्मके परिचय बिना शान्तिका अलाभ॥भैया! हितरूप है सम्यग्ज्ञान और वैराग्य। इनसे जो लोग दूर रहा करते हैं उन लोगोंका स्वहित में मन नहीं लगता। हितकी प्राप्ति और अहितके परिहारका होश भी नहीं रहता। इस मिथ्यात्वके रोगमें ऐसा है यह दुःखी प्राणी, किन्तु आचार्य देव कहते हैं कि हे आत्मन्! तुम्हारा दुःख दूर करने के लिए हम सुकुमार चिकित्सा बतावेंगे, भय मत करो। है भी यह बहुत सुकुमार चिकित्सा। केवल ज्ञान द्वारा ज्ञानमें ज्ञानकी बात घटाना कितनी सुकुमार चिकित्सा है? यही धर्मका मर्म है। जिसके भी हृदयमें स्वच्छता बन चुकी है वह व्यवहार के अनेक धर्मके श्रम करके भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। क्या कारण है कि वर्षों भक्ति करते हुए हो जायें, अनेक झांझ मंजीरे भी फूट जायें, कितने ही बड़े-बड़े विधान उत्सव समारोह भी धर्मके नामपर कर डाले हों, और भी धर्मके नामपर बहुत-बहुत विधियां बनायी हों, लेकिन समय बहुत गुजरनेके बाद भी क्रोधमें कमी नहीं, घमंडमें कमी नहीं, मायाचारमें भी कमी नहीं। लोभका रंग तो कहो पहिलेसे भी अधिक बढ़ा हुआ हो। यह अपने जीवन की निगरानी करने के लिए कहा जा रहा है।

अपनी परख॥देख लीजिए यदि कषायोंमें, विषयोंमें फर्क आया हो तब तो समझो कि हमने पद्धतिसे धर्मपालन किया है। नहीं आता है फर्क तो खोज करना चाहिए कि कौनसी त्रुटि इसमें रह गयी है? जिस एक त्रुटि के बिना सारा यंत्र चला देने पर भी गाढ़ी नहीं चलती है, वह कौनसी त्रुटि है? वह त्रुटि है, मोह नहीं मिटा है। अपने आपको सबसे न्यारा ज्ञानमात्र नहीं जान पाया। यह मूर्त शरीर, ये मूर्त कल्पनाएँ, ये रागादिक विभाव इन्हीं रूप अपने को माना और इस ही मिथ्यात्वकी प्रेरणासे हमने धर्मकी साधना की। धर्मप्रीतिकी प्रेरणासे नहीं की, किन्तु मानपोषणके लिए अपने विकल्प-कल्पनामें जो कुछ भी अपनी ख्यातिके साधनभूत समझा, उसके लिए इसने धर्मसाधन किया है और यही कारण है कि अनेक वर्ष गुजर जाने पर भी कषायोंमें अन्तर नहीं आ पाता है।

स्वाधीन सुगम धर्मपुरुषार्थ॥भैया! धर्मके लिए बाह्यमें श्रम व्यायाम करनेकी जरूरत नहीं है, किन्तु चुपचाप ही गुप्त ही गुप्त भीतरकी ओर प्रवेश करते हुए एक अपने आपमें कोई अपूर्व अंतःपुरुषार्थ करने की जरूरत है। जिस उपयोगमें किसी क्षण किसी परवस्तु विषयक मोह न रहे, अपने आपको स्वतन्त्र अकेला मान सके। मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरी प्रतिष्ठा है, मैं अमुक हूं ये सब कल्पनाएँ इससे निकल जायें जिस किसी भी क्षण, उस ही क्षण इसमें से आनन्द फूट निकलेगा, आनन्दका अनुभव होगा। उस ही आनन्दमें यह सामर्थ्य है कि भव-भवके संचित कर्मोंको नष्ट कर देगा। कर्मोंको नष्ट करनेमें समर्थ शुद्धज्ञानानुभूति है। फिर तप किस लिए किया जाता है? उन दुर्धर तपश्चरणोंका प्रयोजन विषयकषायों को, मलिन संस्कारोंको मिटानेका है।

बाह्य तपका विशिष्ट सहयोग॥कर्मोंका निर्जरण कायक्लेशसे नहीं है, फिर भी कायक्लेशरूप तपश्चरण आवश्यक है। तपश्चरण कर्मशत्रुके विजयके प्रसंगमें ढालका काम करता है, तलवारका

काम नहीं करता है। कर्मोंको नष्ट करनेके लिए वह विषयशत्रुसे बचानेके लिए ढालका काम करता है, तलवारका काम तो यह शुद्ध ज्ञानवृत्ति करती है। कितना सीधा सुगम उपाय है अपने आपको शान्त बनाये रखनेका? इसके लिए तीन शल्यों का त्याग करना सबसे पहिले आवश्यक है। वे शल्य हैं मायाचार, मिथ्यात्व और निदान। यह शास्त्रोक्त बात है, पुरानी है, फिर भी यह रोज-रोज नई ही बात है। जैसे ऋतु पुरानी होती जाती है और नवीन ऋतु अपनी नवीनता ही प्रकट करती रहती है, ऐसे ही ये उपदेश पुराण पुरुषोंके दिए हुए हैं, लेकिन ये सदाको जीवोंके लिए कल्याणभूत हैं।

मायाचारकी अनावश्यकता॥मायाचारमें जिसका हृदय रंगा हुआ है वह धर्मपालनका पात्र नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी गंदगी है मायाचार। इस जगतमें कौनसा राज्य जमाना है, कौनसी विपत्ति मेटना है, किसकी प्राप्तिके लिए मायाचारका परिणाम किया जा रहा है? शुद्ध सरल चित्त रहते कुछ मिलता हो तो मिल जाय, न मिलता हो तो मत मिले। जो दुःख भोगने का साहस नहीं रख सकता उसे आनन्द पानेका अधिकार नहीं है। सांसारिक सुखके बीच रहकर आनन्द नहीं मिलता। आनन्द तो शुद्ध ज्ञानवृत्तिसे मिलता है। किसके लिए मायाचार करनेका परिणाम बनाएँ? यह मायाचार प्रभुका दर्शन नहीं करने देता। वक्रताको दूरकर हार्दिक आशय स्वच्छ बनाना मायानिवारण है।

मिथ्यात्व व निदानसे आत्मविद्यात॥दूसरी शल्य है मिथ्यात्व, मोह। किसी भी परवस्तुमें ऐसी श्रद्धा जम जाना कि यह मैं हूं, यह मेरा है यह कल्पना, यह शल्य इस जीवको बहुत परेशान करती है। इस कल्पना को मिटाना यह दूसरी शल्यका निवारण है। तीसरी शल्य है निदान। निदानमें पंचइन्द्रिय और मनके विषयोंके साधनोंकी इच्छा, आशा, प्रतीक्षा बनाए रहना यह निदान है। क्या होगा कुछ वर्षों बाद, इसका ठिकाना कुछ नहीं है, लेकिन पचासों वर्षोंके और परभवके भी निदान बांधे जा रहे हैं। अरे वर्तमानमें जो आनन्दमय तेरा ज्ञानस्वरूप है उसकी दृष्टि करके वर्तमान का अनुल आनन्द तो लूट ले। भावी चिन्ता, निदान करके क्यों वर्तमान समय भी खराब कर रहा है और अगला समय भी खराब कर रहा है। यह निदान भी शूलकी तरह जीवको पीड़ा दिया करता है। निष्काम आत्मस्वभावको निरख कर निदानशल्य मेटें।

निःशल्य पद्धतिसे सशल्योंकी सुकुमार चिकित्साका संकल्प॥यों तीनों शल्योंसे रहित होकर ज्ञानजागृतिके लिए अपना प्रयत्न रखो तो उसमें अवश्य ही अतुल आनन्द का अनुभव होगा, जिस अनुभवके प्रसादसे ये शरीरके बन्धन, कर्मके बन्धन, जन्ममरणके संकट ये सब टल जायेंगे। आचायदिव इसही आरोग्य अवस्थाको पहुंचानेके लिए सुकुमार क्रिया रूपमें सम्यक्त्वकी आराधनाका उपाय बतायेंगे।

विषयविषयमाशनोत्थितमोहञ्चरजनित तीव्रतृष्णास्य।

निःशक्तिकस्य भवतः प्रायः, पेयाद्युपक्रमः श्रेयान् ॥१७॥

मोहञ्चरपीडित जीवको सुगम चिकित्साका आश्वासन॥हे आत्मन्! अनादिकाल से

विषयविषके अधिक भोजन कर लिया जाने से महान् मोहज्जर तुझे हुआ है और इस मोह ज्वरसे तीव्र तृष्णा पैदा हुई है। तृष्णा पैदा हुई और उस तृष्णा के कारण तू कमजोर हो गया है, पर घबड़ा नहीं, तेरी इस कठिन बीमारीमें पेय जैसा सुकुमार इलाज किया जायगा। आचार्य देव सुकुमारक्रियाके सम्बन्धमें बारबार करुणाबुद्धिसे कहते जा रहे हैं कि तुझे जो कुछ उपाय बताये जावेंगे, वे सब तेरे मन माफिक होंगे, कहीं कष्ट न आयेगा। तू धीरे-धीरे उन्हें हृदयमें रख। तेरी चिकित्सा बहुत सुकुमार होगी, क्योंकि ऐसी कमजोरीमें सुकुमारचिकित्सा ही ठीक बैठती है।

विषयविषभोक्ताकी आसक्ति॥यह विषयरूप भोजन विषम भोजन है, जो सुपच नहीं है। जीवों को ये विषय भोग बड़े सस्ते मालूम पड़ रहे हैं। बल है, साधन है, इन विषयोंका भोगना बहुत सुगम मालूम होता है, लेकिन ये विषय बड़े मंहगे पड़ेंगे। वर्तमानमें भी इनसे महान् क्लेश होगा और परलोकमें भी इनसे महान् क्लेश बनेगा। जैसे किसी पुरुषके विरुद्ध भोजन हो जाय तो उस भोजनसे तृष्णा उत्पन्न होती है और उसमें सामर्थ्य घट जाती है। उस समय किसी पीने योग्य पेयकी दवाका ही इलाज होता है। ऐसे ही तू बड़ा निःशक्त हो गया है, मोहज्जरसे पीड़ित है। तुझे भी बहुत सुकुमार यह उपदेश दिया जायगा। यहां विषयोंको विषकी उपमा दी है, यह तो विषसे भी बुरा है। विष तो एक ही भवमें प्राण हरता है, किन्तु ये विषय न जाने कितने भवोंमें इस जीवको रुलायेंगे। कोई गरिष्ठ भोजन करले और उसे कोई गरिष्ठ ही औषधि दे दी जाय तो यह उसका इलाज उचित नहीं है। ऐसे ही विषयोंकी वासनासे जो वेदना उत्पन्न हुई उसके इलाजमें कोई विषयभोगोंको ही चिकित्सा मानें तो वह उसके विपरीत चिकित्सा है।

रागवेदनाकी चेष्टायें॥भैया! राग कर करके किस जीव की भलाई सम्भव है? पुराण पुरुषोंको देखो जब तक राग रहा तब तक क्लेश ही सहना पड़ा। भरत बाहुबलिका आख्यान सुना ही होगा। जब तक वे राज्यमें रहे, भरत अथवा बाहुबलि, उस राज्य की लिप्साके कारण दोनोंकी कैसी गतियां होती रहीं? लोग सुनकर उसे मूढ़ता भरा काम बताते हैं। भरत का चक्र नगरीमें प्रवेश नहीं कर सका तो उसे यह परख हुई कि कोई राजा अभी वश करनेके लिए रह गया है, उसने देखा कि बाहुबलि रह गया है। चढ़ाई कर दी। बाहुबलि भी अपना अपमान महसूस करने लगे। उन्होंने भी लड़ाई शुरू कर दी। क्या हुआ, यह बहुत बड़ी कथा है, पर रागवश लड़-लड़कर अंतमें हुआ क्या? बाहुबलि विरक्त हो गए, कुछ समय बाद भरत भी विरक्त हो गए। वह नगरी वहीं की वहीं रही, वह पुद्गल समागम वहीं का वहीं रहा औरवे दोनों यहांसे चल दिये। वे महापुरुष थे, निर्वाण पधारे, पर यहांसे तो गये, कितना महाभारत हुआ, जिसमें मरने वालोंमें लाखों का तो शुमार होगा ही। न यहां कौरव रहे न पांडव रहे, वही नगरी वही समागम सब चलता रहा यहींका यहीं। वे यहां से चले गए।

विषयविषरागफल॥रागमें किसने सुख पाया है? कोई राग बनाए तो बनता भी तो नहीं है। घरमें कब तक रहें, कब तक प्रेम बढ़ायें, आखिर वियोग होगा ही, मरना पड़ेगा ही। कोई भी यहां

रहनेका तो नहीं है, फिर किसीका राग निभता भी तो नहीं है। राग बनाया क्यों जाय? जब अंत तक यह राग चल नहीं पाता है तो फिर इस रागका राग क्यों करना? ये विषय-विष विषसे भी भयंकर हैं। वर्षको विषधर कहा जाता है। सर्पका डसा हुआ मनुष्य एक ही भवमें प्राण देकर गया, पर विषयोंका डसा हुआ पुरुष इतने विकट कर्मबन्ध कर लेता है कि इसे अनेक भवोंमें रुलना पड़ता है। इस जीवको पीठ पीछेकी गुप्त आ पड़ी विपदाका ध्यान नहीं है और अपनी समझमें जो सामने समागम है उसकी ओर दृष्टि है, उससे अपनेको महान् मानता है।

बैरी विषयसाधन॥भैया! जिससे अपने बैरका बदला लेना हो, कोई दुश्मनी निकालनी हो तो सबसे बड़ी दुश्मनी निकालने का तरीका यह है कि उसे विषयोंके साधन जुटा दिये जाएँ। कुछ सम्पदा हो, कुछ ठाठ बाट हो, किसीसे कहीं कुछ प्रेम हो जाय इत्यादि किसी प्रकारकी बातें करदें, यह सबसे ऊँचा उपाय है किसी से दुश्मनी निकालनेका। तो आप कहते होंगे कि यही तो हमारे मां बाप आदि किया करते हैं। जिससे दिल राजी हो, विवाह हो जाय, अच्छा विषय साधन जुटाया जाय यही तो किया करते हैं। कहां धर्मविद्या पढ़ानेका भाव रखते हैं? तो क्या वे सब दुश्मनीका ही काम कर रहे हैं? कुछ भी उत्तर दे लो। यदि बहुत विवेक रखकर उत्तर चाहते हो तो निमित्त दृष्टिसे यह कह सकते हो कि हां वे दुश्मनी निकाल रहे हैं। गृहस्थ धर्म है, पर माता-पिता गृहस्थधर्म निभाने जैसा तो शिक्षण नहीं दिलाते, इस ओर दृष्टि ही नहीं है। उनके तो अपना मोह है। मेरा यह कुल टिके, कुल रहे, लोग कह दें कि यह इनका पुत्र है, ये इनके पोते हैं, बस इसीमें ही खुश हो जाते हैं।

मोहीकी निन्दामें प्रशंसाकी मान्यता॥भैया! दुनिया दुनियाकी दृष्टिमें जितनी भी प्रशंसा करती है वह सब इसकी निन्दा है, पर यह मोही जीव निन्दाको सुनकर भी खुश रहना चाहता है। इसे वास्तविक महत्वका परिचय ही नहीं है। किसी सेठका परिचय दिलाना है तो परिचायक पुरुष यह कहता है कि आप इन्हें जानते हो। यह कौन है? इनके चार लड़के हैं, एक लड़का मिनिस्टर है, एक डाक्टर है, एक कन्ट्रैक्टर है, बड़े ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर हैं। इस प्रशंसा का क्या अर्थ हुआ? यह अर्थ हुआ कि ये सेठ जी कोरे बुद्ध हैं। इनके लड़के अच्छे हैं। यदि इनमें कुछ कला होती तो लड़कों का नाम लेकर क्यों इनकी बात कही जाती? इनकी ही बात कहकर क्यों न प्रशंसा की जाती? पर वह इसीको सुनकर खुश होता है। वाह हमारी बड़ी महिमा इसने गाई-ऐसा वह सोचता है और प्रशंसा कर दी जाय कि साहब इनके एक पंचमंजिला मकान है, इनके दरवाजे की सजावट बहुत अच्छी है, नक्काशीसे खुदी हुई पत्थरकी चौखट ऐसी है कि आजकल कोई खोद नहीं सकता। यह परिचय दिया जा रहा है श्रीमान् जी का। अर्थ क्या निकला कि उन अचेतन पत्थरोंमें तो कुछ कला है, पर इन सेठ जी में कोई कला नहीं है। ये तो उस सेठको सीधी-सीधी गालियां सुनाई जा रही हैं। मगर वह सेठ सुनकर खुश होता है।

दुनियावी यशकी स्वीकारता भी वास्तविक अपमान॥ कोई कहे कि यह नेता बड़ा

परोपकारी है, दूसरोंके उपकारके लिए यह अपना तन-मन सब कुछ न्यौछावर कर रहा है। वह सेठ तो जानता है कि इसमें हमारी प्रशंसा हो रही है, पर वहां यह कहा जा रहा है कि यह सेठ इतना भौंदू है कि इसे अपने स्वरूपका कुछ पता नहीं है। बाहर ही बाहर इसकी दृष्टि रहती है और परपदार्थोंमें कर्तृत्वका यह आशय बनाये हुए है, कहा यों जा रहा है, पर वह खुश हो रहा है कि मेरी प्रशंसा की जा रही है। पर्यायबुद्धि ही एक विपदा है। किसी दिन तो यहां का सारा समागम छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यदि आपके जीते जी यह समागम बिखर रहा है तो अब भी बहुत गनीमत है, कुछ तो पल्ले है। मरने पर तो कुछ भी पल्ले नहीं रहता। क्यों नहीं इतना साहस जगता है कि बाहरमें जो कुछ जिसका होता हो, होने दो। मुझे अपने धर्मसे नहीं चिगना है, अपने आचरणमें ही हमें रहना है।

सर्व स्वकार्यमें स्वतन्त्रता॥ भैया! यह आत्मा आजाद है। यह गुलाम होकर गुलाम नहीं बन सकता है, आजादीसे ही गुलाम बनता है, वस्तुमें ऐसा स्वरूप ही नहीं कि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तुके आधीन रहे। प्रत्येक वस्तु अपना सत्त्व रखती है और अपनी परिणमनशीलतासे परिणमती रहती है। पुद्गल में तो ईमानदारी चलती है। जैसा जो निमित्त होगा, जहां जैसा परिणमन चलना है चलता है, पर बेइमानी तो यह जीव ही कर सकता है। कल्पनामें क्यासे क्या ठान लेते हैं, अनहोनी को होनी बनाना चाहते हैं, गप्पोंका कुछ ठिकाना नहीं है। यह जीव अपनी स्वच्छन्दता से ही दूसरेका गुलाम बन जाता है। किसी पुत्रसे, स्त्रीसे, घरसे प्रेम किया और यह अपने आप ही हंसकर अपनी उद्घटतासे गुलाम बन जाता है। कोई कुटुम्ब कोई सम्पदा इसे गुलाम नहीं बनाए हुए है। यह खुद ही आजादीके साथ परका गुलाम बन रहा है।

मोहमें मायाकी मायामय चाह॥ अनन्त सामर्थ्यवान् यह आत्मा है, जिसका ज्ञान विकसित हो तो त्रिलोक त्रिकाल को एक साथ जानें, जिसका आनन्द विकसित हो तो उसमें वेदना की रंच भी तरंग नहीं उठती, पूर्ण निराकुल स्थिति उसके रह सकती है, किन्तु एक अपने आपकी खबर न रखकर, बाह्य पदार्थोंको बड़ा महत्व देकर यह अपनी सुध-बुध सब खो चुका है। यह मायामय, अपवित्र, धिनावने शरीर को निरख-निरखकर अपनी शान बढ़ाना चाहता है। मेरी इन सबमें एक विशेष शान रहे। अरे तेरी शान नहीं रह सकती है। तू यहां शान चाहता है तो यह सोलह आने निश्चित है कि तेरी शान रह नहीं सकती। तू बनायेगा शान तो कपटकी दीवारपर खड़ी हुई यह शानकी छत कितने दिन टिकेगी? प्रकृतिमें अन्याय नहीं है, जहां जैसी जो कुछ विधि बनती है उस विधिके अनुसार वे सब बातें होती हैं। तू अपनी कल्पनावाओंमें भले ही कुछ मानले, पर न्याय तो न्याय ही है।

अपनी सुधका कर्तव्य॥ सुखार्थी पुरुषका कर्तव्य यह है कि परवाह न करे बाह्य वातावरण की। सांसारिक शानके पीछे अपने धर्मके पथको न छोड़े। प्राचीन पुराणोंमें आप सुनते हैं कि अनेक स्त्रियोंने अपने प्राण गवाएं, पर शीलकी रक्षा की। उसे सुनकर आजके लोग कह सकते हैं कि यह

कौनसा विवेक था? अरे प्राण तो रखने थे, जो होता पीछे निपटते। पुराणोंमें सुना होगा कि साधुजन वनमें ध्यान करते हुए बैठे हैं, स्यालनी भख गई, शेरने खा लिया, शत्रुने चमड़ी छीलकर उधेड़ दिया और ये जनाब साहब वहाँ ही ध्यानसे बैठे रहे। आजके कुछ लोग कह सकते हैं वाह यह कौनसी बुद्धिमानी है? अरे जरा सा हुंकार देते तो स्यालनी तो यों ही भाग जाती। बड़े-बड़े सुभट अपना वैभव छोड़कर साधु हुए हैं, उनमें तो इतनी सामर्थ्य थी कि सिंहको ललकार दें तो वह भाग खड़ा हो, लेकिन इन सबका मर्म जानो। धर्मका पालन इस जीवको स्वरक्षित रखेगा और धर्ममें शिथिलता करके धर्मसे बहिर्मुख होकर यदि विकल्पोंमें रुचि की, मोह रागद्वेषकी वृद्धि की तो वह तो भव-भवमें कष्ट देगा। उनका यह पूर्ण निर्णय था और इसी निर्णयके आधार पर उन्होंने अपने प्राण तो गँवा दिये, पर धर्म नहीं खोया।

विषयोन्माद॥ये विषय विष खानेमें, भोगनेमें सुहावने और सस्ते लग रहे हैं, पर इनका फल कटु होगा। ये बड़े मंहगे पड़ेंगे। जिन्हें विषयोन्माद रहता है उन्हें अन्ध बताया गया है। विषयोन्मत्त प्राणीने विषयोंके खातिर राजपाट छोड़ा और जगह-जगह भिखारी बनकर अपनी उदरपूर्ति की। ऐसे भी दृष्टान्त सुननेमें आये हैं। विषयसेवनसे जो एक तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा जगती है उस तृष्णामें यह जीव भुन जाता है। इसे फिर शान्तिसे भेंट नहीं होती है।

तृष्णाकी विडम्बना॥एक पुरुष बाजारमें नारियल खरीदने गया। उसने पूछा कितनेमें दोगे? साढ़े सात आनेमें। चार आनेमें न दोगे? चार आनेका चाहते हो तो नागपुर चले जावो। नागपुर गया। कितनेमें दोगे? चार आनेमें। दो आनेमें न दोगे? दो आनेमें चाहते हो तो बम्बई चले जावो। बम्बई गया। कितनेमें दोगे? दो आनेमें। एक आनेमें न दोगे? अरे एक आनेका लेना हो तो देहातोंमें चले जावो। देहातमें गया। कितनेमें दोगे? एक आनेमें। दो पैसे में न दोगे? अरे दो पैसे भी क्यों खर्च करते हो, ये पासमें ही नारियलके पेड़ खड़े हैं सो तोड़ लावो। पहुंचा वह। चढ़ गया पेड़ पर, एक डाल पकड़ली और पैर छूट गए, अब तो वह लटककर रह गया। इतनेमें निकला एक हाथी वाला। हाथी वाले से कहा कि मुझे उतार दो तो हम तुम्हें ५००/- देंगे। हाथी वाला हाथी पर खड़ा होकर उचककर उसे पकड़ने को हुआ कि हाथी खिसक गया। वह भी उसको पकड़कर लटक गया। निकला एक ऊँट वाला। उससे उन दोनों ने कहा कि हम दोनों पांच-पांच सौ देंगे, उतार लो। ऊँट वाला भी ऊँट पर खड़ा होकर उचक कर उन्हें पकड़ने लगा तो ऊँट खिसक गया, वह भी उनमें लटक गया। अब निकला घोड़े वाला। घोड़ा वालेसे उन तीनों ने कहा कि हमें उतार लो, हम तीनों तुम्हें पांच-पांच सौ देंगे। वह भी घोड़े पर खड़ा होकर उसे पकड़ने को हुआ तो वह घोड़ा भी खिसक गया और वह भी टंग गया। अब सभी अपने से ऊपर वाले से कहते हैं कि भाई छोड़ना नहीं, हम तुम्हें पांच सौ देंगे। अरे यह सब क्या है? ये सब तृष्णाकी पीड़ाएँ हैं।

तृष्णारोगीकी चिकित्साका उपक्रम॥भैया! अपने जीवनमें ही देख लो, तृष्णाकी वजहसे कितनी विपदा विडम्बना बन जाती है, कितने-कितने अपमान भोगने पड़ते हैं, परिवारजनोंके खातिर

कितने-कितने अन्याय करने पड़ते हैं। तो कितने-कितने कष्ट से दुःखी होते रहते हैं और फिर भी उस ही कष्टमें रहते हैं। कोई परिजन इसे बचाने आयेगा क्या? यह विषय विषका भोजन बड़ा कटु फल देने वाला है। ऐसा भोग करके हे आत्मन्! तू बड़ा कमजोर हो गया है। तेरा चित्त नहीं चलता है कि मैं धर्म करूँ, धर्मकी बात सुनूँ, मैं तेरे मनकी ही कहूँगा। तेरा बड़ा कोमल इलाज मैं करूँगा। इस प्रकार आचार्यदेव इन त्रस्त संसारी प्राणियों को सान्त्वना देकर उन्हें धर्ममें लगाने का उपक्रम कर रहे हैं।

सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्म एव तब कार्यः।
सुखितस्य तदभिवृद्धयै दुःखभुजस्तदुपघाताय ॥१८॥

धर्मकार्य ही सर्वदा लाभ करता॥इस संसारमें समस्त प्राणियोंका यह कर्तव्य है, चाहे वे सुखी हों, चाहे दुःखी हों, प्रत्येक परिस्थितिमें धर्म कार्यमें लगें, क्योंकि धर्मकार्य सुखी पुरुषोंके तो सुख बढ़ायेगा और उसका अर्थ लेना है सांसारिक सुखसे सम्पन्न क्योंकि जो वास्तविक आनन्दसे सम्पन्न है उसे धर्म करनेकी क्या जरूरत है? वह तो स्वयं धर्मस्वरूप है। जो धर्मस्वरूप है, जो धर्मस्वरूप अभी नहीं हुआ है, सांसारिक सुखमें अपना परिणमन बनाया है ऐसे पुरुषको बताया है कि वह धर्म करे ताकि जब तक संसारकी परिस्थिति है तब तक उसका यह सुख बढ़ता रहेगा।

सांसारिक सुखकी अनुपादेयता॥यह सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है। स्त्री परिजन पुत्र विषयसाधन ये सब छलसे भरे हुए हैं। यह मौज अपनी विपदाको नहीं देखने देता है और अंधा बनाकर इस जीवको विषयों के साधनमें जुटाये रहता है। जब जीवके हृदयमें खोटी वासना पड़ी हुई है तो उसे कितना भी समझाया जाय, तिस पर भी वह अपनी कुटेव छोड़ नहीं सकता। यह है संसारी प्राणीकी स्थिति। अरे तू सुख चाहता है तो इन सुखोंमें मग्न होने से आगे सुख न मिलेगा। इस सुखमें मग्न होनेसे पाप का बंध होगा, उसके उदयमें दुर्गति सहनी पड़ेगी, तेरा कल्याण न होगा। सांसारिक सुख भी कुछ सीमाओं तक धर्मके अवलम्बनसे प्राप्त होते हैं। ये संसारके सुख भी यदि न्यायपूर्वक सीधेसे विवेक रखते हुए भोगे जाते हैं तो वह धर्मसे गिरा हुआ अभी नहीं है। उसकी दृष्टि है धर्मके लिए। जिसकी दृष्टि धर्मसे रहती ही नहीं है वह सुखमें आसक्त हो जाता है, उसे फिर दुर्गतिका पात्र होना पड़ता है।

सम्यग्ज्ञानमें दुःखकी अदृष्टि॥दुःखी जीवोंको तो धर्म करनेकी चाह ही नहीं है। दुःख नाम है इन्द्रियोंको सुहावना न लगनेका। दुःखसे जो पीड़ित पुरुष हैं उनको भी चाहिए कि इस धर्मका सहारा लें। दुःख केवल एक कल्पना ही है। वस्तुतः दुःख किसी जीवको नहीं है। जो पदार्थ जैसा है, उसका जैसा स्वरूप है तैसा ध्यानमें आ जाय, वहां दुःख ठहर ही नहीं सकता। यह मैं आत्मा देह तकसे भी न्यारा हूँ। किसी क्षण किसी दिन इस देहको त्यागकर भी मैं जाऊँगा। जब यह देह तकसे भी न्यारा है तो अन्य वस्तुओंसे तो न्यारा नियमसे ही है। अन्य सब सम्बन्ध तो कल्पित है। बस अपने अन्दरमें ऐसी श्रद्धा बनावो कि मैं समस्त जगतसे न्यारा हूँ, तो इस श्रद्धामें ही यह कला है कि उसको कष्ट नहीं रहेगा।

मोहकी सैनसे कषायबैरियोंकी प्रबलता॥जगतके मोही प्राणी अपनी सुध खोकर बाह्यकी ओर बेहताशा भागे जा रहे हैं। दमरी-दमरीकी, पैसे पैसे की तृष्णाका रंग बढ़ा हुआ है। जरा-जरा सी बातों पर, अपनी मानहानि की समस्या घर कर लेती है। जरा-जरा सी प्रतिकूल बात होनेपर क्रोध की ज्वाला उगलने लगता है। मायाचार का क्लेश तो इसके हृदयमें निरन्तर बसा रहता है। इस शल्यसे तो यह सुखकी नींद भी नहीं सो पाता है, वहां भी यह डरसा लगा रहता है कि कहीं मेरा मायाचार प्रकट न हो जाय। इस जीवने अपने आप ही अपनी स्वच्छन्दतासे, सुधबुधको भूल दुःख अपने ऊपर ले रखा है।

मोहमें क्लेशकारी श्रद्धा॥मोही मनुष्योंको यह श्रद्धा बनी है मोहमें कि मैं ही एक अकेला घरके इन दो-चार प्राणियोंकी रक्षा करता हूं, इनको पालता हूं, खिलाता हूं, सुख देता हूं। पहिले तो यह सोच लो कि यह मनुष्य रात दिन श्रम करके शारीरिक कष्ट सहकर आकुलता भोगकर घरके दो-चार प्राणियों को खिलाता है तो पुण्य किसका बड़ा है? पुण्य तो उन घरके दो-चार जीवोंका बड़ा है, जिनको यह बड़े आरामसे रखना चाहता है, उनका बड़ा पुण्य है और उनके पुण्यके ही कारणके निमित्तसे इसे रात दिन उनकी सेवा शुश्रुषा करनी पड़ती है। जिनका बड़ा पुण्य है उनके पालनेका यह मनुष्य भ्रम कर रहा है। मैं इन्हें पाल रहा हूं। अरे यह मनुष्य इन जीवों को पाल पोस नहीं रहा है, किन्तु अपने मोह अपनी कल्पनासे जो वेदना उत्पन्न होती है, जो एक कल्पना जगी है, उस पीड़को मिटानेकी चेष्टा कर रहा है। कोई जीव किसी दूसरेको न पाल सकता है, न रक्षा कर सकता है। सभी जीव स्वयं स्वरक्षित हैं, सबका अपना-अपना उदय उनके साथ है। यह जीव व्यर्थ ही कल्पनावश दुःखी हो रहा है।

मोहकी लीला॥देखो भैया! मोहकी लीला, जिसके पास आज जितनी सम्पदा है वह उसी सम्पदाको कम अनुभव कर रहा है। कदाचित् इससे चौथाई ही होती, क्या होती नहीं है लोगोंके पास देखलो। किसी के आपकी सम्पदाका १००वां हिस्सा भी नहीं है। क्या ऐसे ही तुम न हो सकते थे? उनका भी गुजारा होता है, लेकिन मोहका तृष्णाका रंग ऐसा बड़ा हुआ है कि अपनी वर्तमान स्थितिमें संतोष नहीं। तृष्णासे दो नुकसान है। एक तो यह कि वह धर्मकार्य नहीं कर सकता, मन कहांसे लगे? जब एक सम्पदासंचयमें, तृष्णाकी वृद्धिमें चित्त लगा रक्खा है तो धर्मके लिए कहां तो समय है, कहां उत्साह जगेगा, कहां यत्न करेगा? यह मोही पुरुष तो अपने तन, मन, धन, वचन सब कुछ मलिन मोही जीवोंके खुश करने के लिए लगा रहा है। यह अपने हितके लिए क्या कर रहा है? यह मुग्ध तन, मन, धन, वचन, काय व धनका उपयोग मोही जीवों के लिए कर रहा है, खुदके लिए कुछ नहीं कर रहा है।

तन मनका सदुपयोग॥भैया! इस शरीरको काममें लगाइये धर्मके लिए। यात्रा, पूजन, स्वाध्याय, सत्संग, गुरुसेवा, धर्मजनोंका उपकार इन बातोंमें इस तनको लगायें तो यह हुआ तनका सदुपयोग। सब जीवोंका भला विचार करें। सभी जीव सुखी हों, यह है मनका सदुपयोग। भला दूसरे

जीवोंके बुरा विचारने से क्या उनका बुरा हो जायगा? सम्भव नहीं है। इसका जो बुरा विचार है इस ही बुरे विचारका निमित्त पाकर नियमसे इसके पापबंध होता है और उस पापके उदयमें अवश्य ही फल मिलेगा। दूसरेका बुरा विचारने से इस विचारने वाले का ही बुरा हो जाता है। फिर क्यों भ्रम और अज्ञान लादा है, अपने आप ही अपने आप पर क्यों इतना कष्ट लादा है। अपने ही हाथ अपनी हत्या क्यों की जा रही है? सब जीव सुखी हों ऐसी निर्मल भावना बनानेमें तेरा कुछ बिगड़ है क्या? अरे उससे मिलता सब कुछ है स्वरूपदृष्ट रहेगा, धर्मका पथ मिलेगा, वर्तमानमें शान्ति मिलेगी, पुण्य भी बढ़ेगा, लोगोंके प्यारे रहोगे, सबका आकर्षण रहेगा। यदि मन स्वच्छ रक्खा और जीवोंके हितकी कामना रक्खी तो यही है मनका सदुपयोग।

धन व वचनका सदुपयोग॥धनका सदुपयोग यह है कि कोई धर्मका कार्य पड़ा हो, कोई दुःखी दीन संकटमें पड़ा हो, ऐसा ही कोई अवसर हो तो यह जानो कि धन तो भिन्न चीज है, यह मेरे स्वरूपसे चिपकी हुई चीज नहीं है। इसका सदुपयोग करलें, धनका सदुपयोग करनेसे धन कम नहीं होता है, बल्कि पुण्यरस बढ़ता है और फिर इससे भी अधिक कई गुणी लक्ष्मी प्राप्त होती है, लेकिन मोहमें यह जीव घरके उन दो चार जीवोंके लिए ही अपना सब कुछ खर्च करेगा। धर्मकार्योंके लिए इस व्यामोहीका उत्साह नहीं जगता है। धनका सदुपयोग है धर्मकार्यमें व्यय करना। वचनों का सदुपयोग है अपनेको भी विपदा न आये, दूसरोंको भी विपदा न आये इस प्रकारके वचन बोलना। खुद भी पापमें न लगें, दूसरे भी पापमें न लगें, इस प्रकारका निर्दोष शुद्ध वचन बोलना। इसका सदुपयोग करना उचित है। इन मोही मलिन कल्पित इष्टजनोंके लिए धन खर्च कर देना, इसका नाम उदारता नहीं है।

संसारवासी सर्वजीवोंका कर्तव्य॥संसारमें कोई जीव सुखी हो अथवा दुःखी हो सबको यह आवश्यक है कि वे धर्मकार्य करें। यह संसार भावकी दृष्टिसे तो अपना अपना जो रागद्वेष मोहका परिणाम है उसका नाम है। यह जीव संसारमें बस रहा है इसका क्या अर्थ लेना है कि यह जीव अपने आपमें जो रागद्वेष मोहकी तरंगें उठाता है उन तरंगोंमें गड़गप्प है, उन रागादिक भावोंमें बस रहा है, यह है भाव दृष्टिसे संसारमें बसने का अर्थ। बाह्यदृष्टिसे संसारमें बसनेका अर्थ यह है कि यह जीव नाना प्रकारके शरीरोंमें बस रहा है। एकेन्द्रिय, दो-तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पंचइन्द्रियके जो ये शरीर हैं, इन शरीरोंमें बस रहा है, फँस रहा है और उपचार दृष्टिसे संसारमें बसनेका क्या अर्थ लेना कि यह जो लोक है, जिसका आयतन ३४३ घनराजू प्रमाण है, इस क्षेत्रमें यह जीव भ्रमण कर रहा है।

लोकविष्कम्भ॥भैया! लोकका नक्शा देखा होगा पुरुषाकार है। जैसे ७ बालक एक लाइनमें एकके पीछे एक खड़े कर दिये जायें और दोनों पैरोंको वे सब पसार कर खड़े हों, अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हों तो वह लोकका ही एक आकार बन जाता है। उससे यह जान जावो कि यह लोक किस दिशामें कितना लम्बा-चौड़ा है? एक बालककी मोटाई एक राजू की लम्बाई १४ राजूका दृष्टान्त

मान लें। नीचे से ऊपर तक १४ राजू और मोटाईमें ७ राजू और सामने से नीचे ७ राजू, बीचमें एक, टेहुनियों पर ५ और गर्दन पर एक राजू। इतने क्षेत्रका घनफल निकाला जाय तो ३४३ घनराजू प्रमाण बैठता है। एक राजूका बहुत बड़ा प्रमाण है। यह जम्बूद्वीप एक लाख योजन का है। दो हजार कोशका एक योजन होता है, उसको धेर कर लवण समुद्र है, वह एक ओर दो योजनका है, उसको धेरकर एक ओर ४ लाख योजन का द्वीप, फिर आठ लाख योजनका समुद्र है। यों असंख्यात द्वीप और समुद्र चले गए हैं और क्रम-क्रमसे दूने विस्तारका धेरा होता जाता है। इतने द्वीप, व समुद्र जितने विस्तारको धेरें वह एक राजूसे भी कम है। ऐसे ही एक राजू मोटा, एक राजू चौड़ा, एक राजू लम्बा इसको कहते हैं एक घनराजू। ऐसा ३४३ घनराजूप्रमाण लोक हैं। इतनी बड़ी दुनियामें यह जीव सब जगह अनन्त बार जन्म और अनन्त बार मरण कर चुका है। कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहां यह जीव अनन्त बार उत्पन्न न हो चुका हो। ऐसे इस संसारमें यह जीव बस रहा है।

धर्मका अन्तःस्वरूप [संसारमें बसते हुए इस जीवका कर्तव्य यह है कि वह धर्म करे। धर्म नाम किसका है? धर्मको तो सभी कहते हैं, प्रत्येक मानव यह मानता है कि धर्मसे सुख होता है, पर धर्मकी व्याख्या सबकी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार अलग-अलग है। जब सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण पड़ जाता है, उस समय गरीब लोग निकलते हैं मुझी-मुझी अन्न मांगने के लिए और कहते हैं धर्म करो, धर्म करो। उनकी दृष्टिमें वह एक छटांक अन्न मिल जाना ही धर्म है। कोई धर्म साज शृङ्गार में मानते हैं, कोई धर्म ऊपरी सजावटमें मानते हैं, कोई धर्म दूसरे जीवोंकी किसी पीड़ामें मदद करनेमें मानते हैं। धर्मकी व्याख्या सबकी अलग-अलग है और किसी दृष्टिसे किसी परकी सहायता करना आदि व्यवहारधर्मका अंग माना जा सकता है, किन्तु परमार्थसे धर्म क्या है, जिस धर्मके मिलनेसे इस जीवका नियमसे संकट टल जाय। वह धर्म है हम सबको जानते देखते तो रहें, पर किसी भी वस्तुके सम्बन्धमें रागद्वेष का पक्ष उत्पन्न न होने दें। ऐसा अपने को समता की तराजू से तुला हुआ बनाये रहें तो ऐसी स्थितिका नाम धर्म है। इस धर्मके पालने से ही हम आपका उत्थान है।

दुर्लभ मानवजन्मका लाभ [यह मनुष्यभव दुर्लभ बताया गया है, अनेक कुयोनियोंमें भ्रमण कर करके किसी सुयोगसे यह मनुष्यजन्म पाया है। अब अपने आत्माकी कुछ सुध करें, दूसरे जीवोंके आधीन होकर, दूसरोंके प्रेममें बँधकर अपनी बरबादी मत करें। गृहस्थ धर्म पाया है तो बनायें व्यवस्था, पर अन्तरङ्गसे ममता का परिणाम न लावें। अरे पक्षीकी तरह पंख पसारकर किसी दिन उड़ गया, फिर रहा क्या तेरा यहां? किस चीजके लिए इतना श्रम कर रहा है, इतना निदान बना रहा है, इतने मंसूबे बना रहा है? धर्म ही एक प्रधान कर्तव्य है, क्यों शेखचिल्लीपन किया जा रहा कि दुनिया मुझे जान पाये, मान पाये। अरे किन्हीं लोगोंके जान जाने से कहीं मेरा उत्थान न हो जायेगा। ये दुनियाके मायामयी जन अर्थात् इस देहके बन्धनमें बँधे हुए लोग, जन्म मरणके संकट सहने वाले लोग यदि मुझे जान गये कि यह अच्छा है, यह बहुत पढ़ा-लिखा है, सम्पन्न है, कुछ भी कह डालें, तो ये शब्द मेरा कौनसा भला करने वाले हैं? अरे तू तो इस जगत्रमें असहाय है।

तेरा सहाय तेरा ही सदाचार है, तेरा ही सत्य श्रद्धान् है, तेरा ही सम्यग्ज्ञान है, तेरी ही करतूत तेरी सहायता करेगी। दूसरा कोई सहायता करने वाला नहीं है।

धर्मका स्वरूप व धर्मपालनका लाभ॥धर्मका अर्थ है कि तू अपना परिणाम इतना निर्मल बना कि तू जगत्का साक्षी रह सके, ज्ञाता द्रष्टा रह सके, रंच भी राग और ममताकी श्रद्धा न जम सके। गृहस्थ राग करता है पर यह मेरा है, इस प्रकारका ममत्व परिणाम रंच भी नहीं रखता है। यदि श्रद्धामें ममता रंच भी आ जाय, परमाणु मात्र भी यदि अंतःश्रद्धामें राग आ जाय तो उसे अज्ञान बताया है। वह शान्तिके पथ पर अपना कदम नहीं रख सकता। कोई जीव सुखी हो तो भी धर्म करे, दुःखी हो तो भी धर्म करे। धर्म सुखी जीवोंका सुख बढ़ायेगा, धर्म दुःखी जीवोंका दुःख दूर करेगा। जैसे लोकव्यवहारमें धन कमाना अच्छा कहते हैं, धनार्जनसे जिसके ऋण नहीं है उसके धन बढ़ेगा, जिसके ऋण है कर्ज है, वह अपने उस कर्जको चुका देगा, पर कमाना तो सभी अवस्थावोंमें व्यवहारीजन योग्य मानते हैं। कर्जदार हो वह भी कमाये, न कर्जदार हो वह भी कमाये। कमाना धनकी वृद्धिका कारण है। जैसे व्यवहारमें लोग यह मानते हैं, ऐसी ही धर्मकी बात समझिये। कोई जीव सुखी हो, धर्म करे तो उसका सुख बढ़ेगा, कोई जीव दुःखी हो धर्म करे तो उसका दुःख दूर होगा। सभी अवस्थावोंमें धर्मका साधन करना कल्याणकारी है।

धर्मका शब्दार्थ व धर्मोपासनाका अनुरोध॥भैया! एक बार फिरसे दृष्टि इस ओर लायें कि धर्म करना कहते किसे हैं? धर्म शब्दमें ही खुद अर्थ समाया हुआ है। धर्म नाम है पदार्थ: आत्मनि यं स्वभावं धत्ते स धर्मः। पदार्थ अपने आपमें जिस स्वभावको रखता है उस स्वभावका नाम धर्म है। लोग कहते भी हैं जिसका जो स्वभाव है उस स्वभावके अनुसार काम करे। लोग कहा करते हैं कि यह तो अपने धर्मपर डटा है। मेरे आत्माका स्वभाव है ज्ञाताद्रष्टा रहना, जाननहार रहना। जाननका काम किसी भी जीव में एक क्षण भी बंद नहीं होता है। क्रोध करनेका काम बन्द हो जायगा। कहां तक कोई घमण्ड बगरायेगा? मायाचार भी विश्रांत हो जायेगा। लोभ कषाय भी उपशान्त हो जायगा। कोई कषाय स्थिर नहीं रह पाती और कषायें कभी नष्ट भी हो सकेंगी, किन्तु ज्ञान सभी अवस्थावोंमें रहेगा। क्रोध करे, मान करे, मायाचार करे, लोभ करे तब भी ज्ञान साथ है। कषायरहित हो जाय तब भी ज्ञान साथ है। तो यह ज्ञान आत्मस्वभाव है और केवल जाननहार रहना यही धर्मका पालन है, अतः ज्ञानार्जन करके, आत्ममनन करके अपना परिचय पा करके एक ज्ञाताद्रष्टा रहनेरूप धर्मका यत्न करें। अपना दुःख हम आप सबकी अपनी ज्ञान कलासे दूर हो सकेगा, उद्घण्डतासे तो दुःख ही होगा।

धर्मारामतरूपाणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थसौख्यानि।

संरक्ष्यतांस्ततस्तानुच्छवनु यैस्तैरुपायैस्त्वम् ॥११॥

सुख मूलकी रक्षाका आदेश॥संसारके जितने भी सुख हैं वे सुख भी किसी सीमा तक किए गये धर्म वृक्षके फल हैं। ये सुख अभीष्ट हैं तो उनके कारणभूत धर्मवृक्षकी रक्षा कर व विवेकपूर्वक

सुखफल को भोग। ये सुख ६ रूपोंमें विभक्त हैं। कोई सुख स्पर्शन इन्द्रियजन्य है, कोई रसनाइन्द्रियजन्य, कोई ग्राणइन्द्रियजन्य, कोई चक्षुइन्द्रियजन्य और कोई कर्णइन्द्रियजन्य सुख होते हैं। कुछ सुख मनके विषयके होते हैं। इन ६ प्रकारके सुखोंमें किसी भी सुखमें कोई आसक्त हो जाय तो वह पापी है, दुरात्मा है, धर्मकी जड़को खोदकर फेंक रहा है।

स्पर्शनविषयसुखासक्तिका परिणाम॥स्पर्शनइन्द्रियके सुखमें ठण्ड, गरमी, कोमल आदिक स्पर्श भी सम्मिलित हैं और सबसे निकृष्ट स्त्री कामविषयक वासनाके सुख भी निहित हैं। जो पुरुष स्पर्शनइन्द्रियके विषयसुखमें आसक्त रहते हैं वे अपने ब्रह्मस्वरूपका घात करते हैं, प्रभुसे विद्रोह करते हैं। वह प्रभु न वर्तमानमें सुखसे चैनसे रह सकता है, न परलोकमें चैन से रह सकेगा! समस्त इन्द्रियविषयोंमें सबसे कठिन विषय काम वेदना को बताया। इस कामविषयमें बुद्धि नष्ट हो जाती है। कामी पुरुषको कितना ही समझाया जाय, पर कामवेदनाकी एक ऐसी व्यथा है कि वह पतित विचारोंको छोड़ नहीं सकता है। यद्यपि यह सुख भी पूर्वकृत कुछ धर्मपालनसे बंधे पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त होता है, लेकिन वर्तमानमें सुखका मूल कारण जो धर्म है, उस धर्मका ही कोई घात करता हो तो उसका अर्थ यह है कि भविष्य कालमें वह इस सुखसे वंचित रहेगा।

सुखार्थीका विवेक॥जैसे कोई विवेकी बागबान है, वह पेड़ोंकी बड़ी रक्षा करता है, उन पेड़ोंको अनेक उपायोंसे हरा-भरा रखता है और उनमें जो फल प्रकट होते हैं उन फलों को भी एकदम तोड़कर नहीं खाता है। एक एक करके उन फलोंको तोड़कर खाया करता है, जिससे ये वृक्ष खूब फल देते रहें और उन फलोंका आनन्द भी बहुत काल तक मिलता रहे। कोई पुरुष फलोंके लोभमें आकर पेड़ोंको जड़से ही उखाड़ दे तो भले ही वर्तमान समयमें वह कुछ फल खा ले, पर आगामी कालमें वह फलोंसे वंचित रहेगा। यों ही ये संसारके सुख धर्मरूपी बागवृक्षके फल हैं। कोई पुरुष इस सुखमें आसक्त होकर धर्मकी जड़ ही काट दे, धर्मवृक्षको उखाड़कर फेंक दे तो भले ही कुबुद्धिवश वर्तमानमें कुछ सुखका भोग करले, किन्तु भविष्यमें उन सुखोंके भोगके योग्य भी वह न रहेगा। मरकर एकेन्द्रिय हो गए, पेड़ बन गए, दोइन्द्रिय आदि कीड़े-मकौड़े हो गए, अब उनका जीवन कौनसा विकासमय जीवन है? भैया! यह मानवजीवन विकास प्राप्तिके लिए मिला है, इसे पाकर अपने विकासका अवसर नहीं खो देना है। यह मन हस्तीकी तरह उद्धण्ड है। जब तक किसी देव शास्त्र गुरुकी आनमें नहीं चलते हैं जब तक इसकी उद्धण्डता नहीं समाप्त कर सकते हैं, तब तक ये जीव अपना उत्थान नहीं कर सकते हैं।

रसनाविषयसुखासक्तिका परिणाम॥रसनाइन्द्रियसे प्रकट होने वाले सुख, रसों और उनके मिलापसे उत्पन्न विविधरसके स्वादके सुख हैं। खट्टा, मीठा, कडुवा, चरपरा, कषायला इत्यादि रसोंमें जो आसक्त होकर गिरता है वह धर्मवृक्षको जड़से उखाड़ता है। कोई मनुष्य खट्टे का लोभी है, उसे खटाई का रस ही अधिक पसंद होता है। चाहे उस रसके सेवनसे अनेक बीमारियां हो जायें और अनेक उपद्रव खड़े हों, फिर भी जो जिस रसका लोभी है वह उसकी बान नहीं छोड़ता है। कोई

मीठेका लोलुपी हैं, मीठा विशेष खानेसे दांतके मसूड़े भी कमजोर हो जायें, दांतोंमें कीड़े भी पड़ जायें, पेटमें भी कीड़े पड़ जायें, लेकिन उस मिष्टके लोभमें आकर यह रसका लोभी होता है। करेले कडुवे हुआ करते हैं, मेथी कडुवी होती है, कई चीजें बड़ी कडुवी होती हैं, पर उनको खानेकी भी बहुतसे लोगोंको रुचि जगती है। कोई चरपरी, कषायले आदि पदार्थोंके खानेका लोभी है। इन रसोंके सेवनसे कुछ सुख तो होता है और ऐसा सुखसाधन मिलना आपके वर्तमान कल्पनाके वशकी बात नहीं है। पुण्यके उदयमें मिलता है और विशिष्ट पुण्यका सम्बन्ध उस जीवके होता है धर्मकी दृष्टि रहती है। तो ये सुख भी धर्मके ही फल हैं, किन्तु जो इन सुखोंमें गड़गप्प होकर गिरते हैं, वे धर्मकी जड़ काटते हैं।

घ्राणविषयकी सुखासक्तिका परिणाम॥घ्राणइन्द्रियका विषय ले लो, इसमें भी कितनी मूढ़ता भरी हुई है। इत्र फुलेल फुवा, सुगंधित कार्ड इन सबका उपयोग करना, इनसे इस जीवका लाभ क्या है? अरे सहज जो वातावरणमें सौरभ है वह मिल रहा है, ठीक है पर बनावटी और जानबूझकर इत्र फुलेलोंके लिए श्रम करना अथवा उपयोग लगाना ऐसा तो कोई यहां बड़े पुरुष भी नहीं करते हैं। छोटी प्रकृति वाले लोग इन गन्धोंके शौकमें समय गुजारते हैं। इन्हीं समस्त सुखोंमें आसक्त होकर वर्तमान सुख भी नहीं पाते हैं और भावीकालमें भी सुखसे वंचित रहनेका यत्न करते हैं।

नयनविषयसुखासक्तिका परिणाम॥चक्षुइन्द्रियजन्य सुख कुछ सुहावने रूप इसे सुहा गये, सो उन रूपोंके देखनेमें अपनी आंखोंको कष्टमें डालते हैं। पलकोंको तेज उठाकर बाहरमें देखते रहनेका यत्न करते हैं। सुहावना है क्या जगत्‌में रूप? यह शरीर अशुचि धातुवोंसे भरा हुआ है। जिस शरीरसे लोग प्रीति करते हैं, जिस शरीरके रूपको लोग टकटकी लगाकर देखते हैं और अनेक प्रयत्न करके जिस इन्द्रियजन्य सुखसे अपना मन भरते हैं, वह रूप है क्या? इस शरीरमें चाहे कोई कितना ही निरोग हो, परन्तु ढाई, तीन, चार सेर मल हर समय पेटमें पड़ा रहता है। यदि न पड़ा रहे, कम हो जाय तो उसकी मौत हो जायगी। यह मुख जो सारे शरीरमें विशेष कामी जनोंको प्रिय रहता है, जितना मल इस मुखमें भरा है, उतना मल तो हाथ पैरोंमें भी नहीं है। नाक, थूक, कफ, लार, खकार, कीचड़ कनेऊ आदि कितने ही मल इस मुखमें पड़े हुए हैं। जो मलसे भरा हुआ शरीर है उसमें मोहीजन, कामीजन आसक्त होते हैं। उनकी इस आसक्तिका यह फल होगा कि अब तो वह अपने धर्मकी जड़ काट रहे हैं, सो भावी कालमें उनको आंखें तक भी न मिलेंगी। जैसे कोई कीड़े होते हैं, जिनके आंखें भी नहीं हैं। उसका एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तीनइन्द्रिय जीवोंमें जन्म होगा जो इन आंखोंका दुरुपयोग करेगा।

कर्णविषयसुखासक्तिका परिणाम॥कर्णेन्द्रियका सुख॥थोड़े राग भरे वचन सुन लिये, गीत संगीत सुहावनी चटक मटककी बातें सुन लीं, इनमें ही लोग मस्त रहते हैं। कहीं गप्पें छिड़ जायें तो उन गप्पोंमें उनका समय बहुत मौजसे कटता है। उस गप्पसभा को छोड़कर जानेको जी

नहीं चाहता है। यह सब कर्णन्दियका दुरुपयोग है। जो आसक्त होकर कर्णन्दिय के विषयोंमें लगेगा वह धर्म बागके वृक्षको ही काट रहा है। फिर इस सुख फलको वह पायेगा कहां से?

मनकी उद्घटतायें॥मनका विषय तो बड़ा ही चंचल है। कितने ठौर हैं इस मनके ठहरने के? उन ठौरोंमें यश प्रतिष्ठा नामकी चाह यह सब से विकट ठौर है। छोटा बच्चा भी गोदमें चढ़ा हो और उसे गोदसे हटाकर नीचे रख दें तो वह रोने लगता है। वह भी यह महसूस करता है कि अभी मैं ऊँचे चढ़ा था, अब नीचे गिरा दिया गया हूँ सो अपमान महसूस करता है, और की तो कहानी क्या है? वृद्ध अवस्थामें भी लोग बड़ी चिड़चिड़ाहट उत्पन्न कर लेते हैं। वे भी पद-पद पर अपना अपमान महसूस करते हैं। लड़के बड़े हो गये, उनका सब कार्य भी ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी जरा-जरासी बातोंमें अपना अपमान महसूस करते हैं। कहां तो अब उनके धर्म करनेके दिन हैं और कहां व्यर्थका रोष करके अपना जीवन गंवाये जा रहे हैं। वे वृद्ध पुरुष अपना अपमान महसूस करते हैं और दुःखी होते हैं। जवानोंको तो जगह-जगह जरा-जरासी बातोंमें अपमान महसूस होने का ठिकाना मिल जाता है। किसी ने बात न मानी, और तो जाने दो कोई पहिले राम-राम ही न कर पाये, लो यह भी अपमान महसूस करनेका कारण हो जाता है। इसने मुझसे नमस्ते नहीं किया, ये देहाती लोग हमसे जुहार भी नहीं करते, जरा-जरासी बातोंमें अपना अपमान महसूस करते हैं। अरे तुम ही पहिले नमस्ते कर लो। घरमें स्त्री पुत्रोंने कहना नहीं माना, लो इससे अपना अपमान मान लिया। अरे इतना भी सब नहीं है कि ये बिचारे मुझे नाथ समझकर आश्रित रहते हैं, आज्ञा मानते हैं, इन पर कृपा रखें। परन्तु कल्पना बनाकर अपमान महसूस करते हैं। यह मनका विषय बहुत ही अड़विल्ला विषय है। जो इन विषयोंमें आसक्त हो जाते हैं वे अपने मनको काबूमें नहीं रख पाते हैं। वे धर्मवृक्षकी जड़को काट रहे हैं। उनको यह मन भी न मिलेगा मरनेके बाद यह भी स्थिति हो सकती है। मनरहित असंज्ञी जीव भी तो संसारमें बहुतसे हैं, इन ही योनियोंमें जन्म हो लेगा।

धर्मवृक्षरक्षण व सुखफलविधान॥ये समस्त इन्द्रियके सुख धर्मरूपी उपवनके वृक्षके फल हैं। हे सुखार्थी आत्मन्! तू उन वृक्षों की रक्षा कर, जिन वृक्षोंसे फल मिल रहे हैं, उन वृक्षोंका पोषण चतुर नर किया ही करते हैं। जिस धर्मवृक्षके ये सांसारिक सुख हैं तू उन वृक्षोंकी रक्षा कर। और फिर इन सांसारिक सुखरूपी फलों को धीरे-धीरे, उतावली न करके लौकिक सुखों को अनासक्ति पूर्वक भोग। जैसे वृक्षके फलोंको एक-एक करके धीरे-धीरे वृक्षरक्षक खाते हैं, लाठी मारकर उन फलोंको गिरा नहीं देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, समय पर उन फलोंको भोगते हैं और वृक्षको खूब सुरक्षित रखते हैं, इसी प्रकार इन विषयसुखरूपी फलको तू न्यायपूर्वक बड़े विवेकसहित भोग। इनके भोगनेमें उतावली मत कर, अपनी बुद्धि ठिकाने रख, इस धर्मवृक्षकी रक्षा कर। जिन उपायोंसे इस धर्मवृक्षकी रक्षा बन सके, उन बातों को कर।

धर्मका अभ्युदय॥भैया! धर्म तो आत्माका स्वरूप है। आत्माके स्वरूपकी दृष्टिमें, आलम्बनमें धर्मका पालन होता है। धर्मपालनका फल मोक्ष है, इन्द्रियसुख नहीं है। इन्द्रिय सुख तो भुसकी तरह

है और मोक्षसुख अन्न उत्पादनकी तरह है। जैसे किसान लोग खेती करते हैं, वे यह नहीं सोचते कि मैं भुस पैदा करनेके लिए गेहूं बोता हूं। गेहूं तो बोते हैं अन्न उत्पन्न होने के लिए। भुस तो अनायास ही मिल जाता है। उस अन्न उत्पादनके प्रयत्नमें भुसका मिल जाना प्राकृतिक बात है, सहज है। ऐसे ही विवेकी पुरुष धर्म करता है तो मोक्षकी प्राप्तिके लिए शुद्ध ब्रह्मस्वरूपमें लीन होने के प्रयोजनसे, पर इस उल्कृष्ट धर्मको करते हुए इस धर्मार्जनके प्रसंगमें ये सांसारिक सुख मिल जाते हैं, यह तो सहज ही प्राकृतिक बात है। जो जीव वास्तविक पद्धतिसे धर्म करता हो उसे जब तक संसारमें रहना शेष है क्या अनेक कुयोनियोंमें जन्म ले लेकर वह क्षण बितायेगा? वह तो बड़े महान् सुख में अपना समय गुजारेगा और दृष्टि रखेगा इस शुद्ध धर्म की। जो मोक्षके आनन्दका कारण है।

आत्महितका स्मरण॥हम आप सब आत्मा हैं। आत्माके नाते से आत्माके हितकी बात कर लें। शुद्धज्ञान, शुद्ध श्रद्धान् और जैसे आत्माका कल्याण हो तैसा अपना आचरण बना लें। यह आपकी निजकी खुदकी बात कही जा रही है। इसका सम्बन्ध समूहसे नहीं है, जनता से नहीं है, धर्म मजहबोंसे नहीं है, जातियोंसे नहीं है, यह तो तेरे आत्माकी बात है और इस आत्माके कल्याणसे ही सम्बन्ध रखनेकी बात है। यह बड़ा दुर्लभ नर-जन्म पाया है, इसे पाकर कोई अपूर्व काम कर लेना चाहिए। मैं आत्मा धर्मस्वरूप हूं। जिसका जो स्वभाव है वह उसका धर्म होता है। मेरा धर्म ज्ञाताद्रष्टा रहना है, ज्ञानका प्रकाश होना, ज्ञानका विकास होना यही तेरा धर्म है। रागद्वेष, पक्ष आदि अवगुण तेरे स्वरूपमें नहीं हैं। तू इन अवगुणों को करता है तो अधर्म करता है। इन अवगुणोंसे हटकर एक शुद्ध ज्ञानरूप परिणमनेका गुण बने, यही धर्मका पालन है।

धर्मके दृढ़ आश्रयका संकल्प॥मैया! कैसा भी संकट आये, कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति आये, चाहे प्राण जायें, किन्तु एक वास्तविक धर्म की दृष्टिको मत छोड़ो। अपने आपमें अनादि अनन्त बसे हुए धर्ममय इस चैतन्यस्वभावका आलम्बन ही करो। इस प्रभुताके आलम्बनसे क्लेश होता ही नहीं है। कदाचित् पूर्वकृत कर्मके उदयमें कोई क्लेशका भी प्रसंग आए तो उस प्रसंगमें तू धर्मको और अधिक दृढ़ता से ग्रहण कर। यही तो परीक्षाका एक अवसर है। उसही समय यदि अनुत्तीर्ण हो गए तो बस दिशा बदल गयी, नीचे गिरते जाने की दिशामें चले गए। इस धर्मको किसी भी परिस्थितिमें मत छोड़ो और जिस-जिस बातसे धर्म करते बने, करो।

धर्मोपाय॥धर्मके उपायमें प्रथम उपाय तो है वस्तुके स्वरूपका अध्ययन करना। पदार्थका क्या स्वरूप है? उसमें सहज शक्ति कैसी है? इसका अध्ययन करो, और अध्ययनसे जो कुछ जाना है उसकी श्रद्धा करो और उसमें ही अपना उपयोग लगाते रहो। यही है विश्वास, ज्ञान और आचरण। इस समीचीन विश्वास ज्ञान आचरणसे अपने आत्माकी पुष्टि करें। संसारके क्लेशोंको दूर कर लें, यह तेरे ही आधीन बात है। तेरा काम कोई दूसरा करने न आयेगा। और अपने इस सही कामको त्यागकर अनावश्यक भ्रमपूर्ण काल्पनिक परद्रव्यविषयक कल्पनाएं कीं, रागद्वेष बढ़ाया, अपना सर्वस्व

मलिन मोही जीवोंको ही सौंपा तो उससे कुछ तेरा भला नहीं होनेका है। तू अपना सर्वस्व देव, शास्त्र, गुरुमें समर्पण करे तो यह तेरे कल्याणका साधक है और रागी द्वेषी मोही मलिन जीवोंको तू अपना सर्व बल दे रहा है, वह क्या साधक है?

कर्तव्यका स्मरण॥हे आत्मन्! तू यदि अनुपम विशिष्ट सुख चाहता है तो इन इन्द्रियजन्य सुखोंमें आसक्त मत हो, धर्मकी जड़को हरा भरा बनाये रह, इससे ही तुझे समृद्धि प्राप्त होगी। धर्मसे विमुख होकर तू कभी शान्ति न पा सकेगा। अतः रागद्वेष मोह पक्ष और इस विरोध बुद्धिको दूर करके एक शुद्ध निज ब्रह्मस्वरूपके परिचयमें लग और इस आत्मत्वके नाते से तू गुप्त ही गुप्त अपने आपमें अपना कल्याण करले। प्रभुस्वरूप तो आदर्श है उसका चिन्तन करके करना पड़ेगा तुझे ही सब कुछ। जैसे सूर्य तो मार्ग दिखा देता है पर चलना पड़ता है खुदको ही, तब इष्ट स्थानमें पहुंचते हैं। यों ही गुरुजन प्रभुका उपदेश एक मार्ग दिखा देता है, उस मार्ग पर चलना तो तुझको ही पड़ेगा। सत्य श्रद्धान् ज्ञान आचरण द्वारा धर्मकी रक्षा कर और अपने जीवनको सफल कर।

धर्मः सुखस्य हेतुर्हेतुर्न विराधकः स्वकार्यस्य।

तस्मात् सुखभद्रभिया मा भूर्धर्मस्य विमुखस्त्वम् ॥२०॥

सुखकी हेतुता व अविराधकता॥धर्म सुखका ही कारण होता है, वह कभी भी अपने कार्यका विरोधी नहीं होता है। इस कारण हे सुखार्थी पुरुषों! सुखके भंग होने के भयसे धर्मसे विमुख मत होओ। लोगोंको दिखने में भी सहसा ऐसा लगता है कि धर्ममें तो कष्ट करना पड़ता है। व्यवहार धर्ममें पूजन, जाप, चाहे कठिन ठण्ड भी हो नहाना, उपवास करना, एकाशन करना, पानी पीनेका मर्यादा रखना आदिक ये तो बहुत कठिन काम हैं। इनसे तो उस ही समय सुखमें फर्क आ जाता है, फिर तो धर्मसे हम आगेके समयके लिए क्या आशा करें? इस प्रकार आशंका करते हुए जो लोग धर्म से दूर रहते हैं उनको समझानेके लिए आचार्यदेव यहां कह रहे हैं कि तुम डरो मत। धर्मसे विमुख मत होओ। धर्म नियमसे सुखका कारण होता है, धर्म स्वभावसे ही आनन्द उत्पन्न करता है। यह अपने कार्यका कभी विरोधी नहीं हो सकता है।

कार्यकारणमें विरोधकताका अभाव॥भैया! जिस कार्यका जो कारण है वह उस कार्यका विरोधी नहीं होता है, पहिली बात तो यह है। दूसरी बात यह जानो कि धर्मका तो आनन्द उत्पन्न करनेका स्वभाव ही है। कोई भी स्वभाव धर्मस्वभावका नाश नहीं करता है। इससे समझो कि धर्म नियमसे आनन्द ही उत्पन्न करेगा। जो लोग धर्मका नाम लगाते हैं कि इससे कष्ट है अथवा जहां धर्म ज्यादा होता है वहां दुःख ही है और धर्म के नाम पर किन्हीं-किन्हीं माने गए क्षेत्रोंपर बड़ा अन्याय भी होता है। इस कारण धर्म तो क्लेशका ही कारण है और यह पापरूप है। लेकिन यह समझना चाहिए कि धर्मकी ओट लेकर जो पाप किए जाते हैं, वे पाप पापरूप होनेसे क्लेशरूप हैं। धर्म स्वयं पापरूप नहीं हैं। पापवृत्ति ऐसी कलुषित और चालाक वृत्ति है कि यह अपने अवगुण नहीं प्रकट कराने देती है और धर्मका बाना रखकर यह पाप इस लोकमें नृत्य करता है, लेकिन जिस-जिस

समय आपको क्लेश हुआ हो, समझना चाहिए कि कोई पापकी बात आयी है, पापकी बात आये बिना क्लेश नहीं हो सकता है।

क्लेशका कारण पापभाव॥जैसे कोई पुरुष इष्टवियोगमें दुःखी है, पुत्र गुजर गया अथवा इष्ट मित्र, स्त्री आदिक गुजर गये तो उसका बड़ा खेद करता है। खेद पाप किए बिना नहीं होता। आप अपने निर्णयमें यह रख लो कि मनुष्य जो परके प्रति मोह भाव कर रहे हैं वह पाप है और पापपरिणाममें दुःखी होना प्राकृतिक बात है। कोईसी भी दुःखकी घटना हो, समझना चाहिए कि हम कोई पाप कर रहे हैं। पापकर्मकी बात नहीं कह रहे हैं, जो अष्टकर्ममें पापप्रकृतियां आयी हैं वे तो निमित्तरूप बन्धन हैं, किन्तु कुछ खोटा परिणाम किया, कुछ मोह रूप, कषायरूप विषय-वाज्ञारूप अशुभ भाव होते हैं उनकी बात कही जा रही है। जितने भी क्लेश होते हैं वे पापभाव से होते हैं। यह एक निर्णीत तत्त्व है।

बहिर्मुखतामें क्लेशहेतुता॥कभी ऐसी भी परिस्थिति आए कि आप बड़े सदाचारसे रह रहे हैं, किसीको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी कोई दुश्मन बनकर व्यर्थ ही सताए तो उस समय आप यह पूछ सकते हैं कि हम तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। अरे पाप नहीं कर रहे हो तो दुःखी क्यों होते हों? दुःख तो पापपरिणामसे ही होता है। अपने आत्मस्वभाव की दृष्टि छोड़कर किसी भी अन्य कुत्त्वमें लगें तो वे सब पापभाव हैं। पाप आए बिना क्लेश नहीं होता है और प्रकटरूपसे तो रोज-रोज अनुभव कर सकते हैं। किसीके प्रति द्वेष जगे तो क्लेश होगा। किसीका अनिष्ट चिन्तन करें तो क्लेश होगा। किसी भी प्रकारके पापकी बातका विचार करें तो अपने आपमें क्लेश बहुत होगा। पापभावका स्वभाव ही है क्लेश देते रहना और धर्मभावका स्वभाव है आनन्द देते रहना। धर्मनाम है राग द्वेष मोह विषय कषायके परिणाम न करना, केवल जानन देखनहार रहना।

बाह्य धर्मवृत्तियोंके बाबजूद भी अन्तःअधर्म होने पर अशान्ति॥कोई लोग ऐसा सोचने लगें कि भाई दसलाक्षणीके दिनोंमें और विशेषकर अनन्तचतुर्दशीके दिन लोग पूजा करते हों, किसीको अच्छा स्थान नहीं मिला अथवा हिसाब-किताब पेश करते समय बड़े झगड़े मच जाते हैं। पूजामें भी पहिले यह पूजा न करो, अब यह पूजा करो इस प्रकारकी कलह लोग करने लगते हैं, बहुत बड़े विवाद की चीज लोग बना लेते हैं। तो पद-पद पर धर्मकार्यमें भी बड़े-बड़े कलह और क्लेश होते हैं। तो धर्म तो सुखका कारण नहीं हुआ। अरे वहां वह धर्म नहीं कर रहा है। जो भी कलह हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं वे सब पाप भावोंसे हो रहे हैं, धर्मसे नहीं हो रहे हैं। धर्म नाम आत्मस्वभावका है। रागद्वेष न करके शुद्ध जानन देखनहार रहना इसका नाम धर्म है। कोई यह धर्म करके तो देख ले, क्लेश धर्मसे नहीं होता है, क्लेश पापपरिणामसे होता है।

धर्मकी ओटमें पापका नग्न नृत्य॥एक किसान था। उसके थे तीन बैल। दो बैल तो खेतपर ले जाय और एक बैलको आंगनमें बांध जाय। उस ही आंगनमें बंधे बैल के पास एक अलमारी थी। किसान अलमारीमें दाल रोटी चावल रखकर खेतोंमें काम करने चला जाता था। वहां कोई बंदर

आकर अलमारी खोलकर रोज-रोज सारी दाल रोटी चावल खा जाय और जो कुछ बचे उसे बैलके मुखमें पोत जाय। किसान आये और मुखमें लगा हुआ देखे तो उसे खूब पीटे। १०-१२ दिन बाद एक पड़ोसी ने समझाया कि इस बैलको न मारो, यह दाल रोटी नहीं खा जाता है, कोई और कुछ बात है। एक दिन छिपकर देखो, कौन खा जाता है? उसने छिपकर देखा तो बंदरको सारी क्रियाएं करते हुए पाया। आया, अलमारी खोली, दाल रोटी चावल सब कुछ खाया और जो कुछ बच गया उसे बैलके मुखमें पोतने लगा। उसी समय उस किसानने आकर बंदर को पीटा था। कुछ भी हुआ हो, पर जैसे वह बंदर इतना चालाक था कि उपद्रव तो करे खुद और बैलके मुखमें दाल चावल पोतकर नाम लगावे बैलका। ऐसे ही जानो कि ये पाप अपमान, बदनामी, अप्रभावना आदि सभी पापके काम करके धर्मके मुँहपर अपजस लपेट कर उद्घण्डता करते हैं। नाम बदनाम होता है धर्मका, पर धर्म कभी बुरा नहीं होता है। बुरा तो यह पाप ही है।

ज्ञातृत्वधर्ममें क्लेशका अभाव॥पापसे क्लेश होता है, धर्मसे सुख होता है इसमें रंच भी संदेह नहीं है। कोई इष्ट वियोग हो जाय, चित्तसे वह उतरे ही नहीं, बड़ी वेदना है, अचानक मर गया, उसकी ओर बड़ा आकर्षण था, निरन्तर शोकमग्न हो रहे हैं, उस दुःखको कौन मिटा सकता है? क्या किसीमें यह सामर्थ्य है कि जिसका वियोग हुआ है उसको सामने लाकर धर दे? किसीमें सामर्थ्य नहीं है। कौन मिटायेगा उसका शोक? ज्ञान मिटायेगा। जब चित्तमें यह बात सामने आ जाय कि मैं आत्मा अमूर्त ज्ञानानन्दमात्र देह तकसे भी न्यारा केवल अपने स्वरूपरूप हूँ, और जिसका वियोग हुआ है वह अत्यन्त जुदा जीव था। अपने कर्मानुसार शरीरमें आया था और अपने कर्मानुसार देह छोड़कर चला गया। उससे मेरा रंच भी सम्बन्ध नहीं है, यह ज्ञानकिरण आये तो क्लेश मिटे। इस ही ज्ञानका नाम तो धर्म है। धर्म आये तो दुःख मिटे। मोह करना पाप है और निर्मोह होना धर्म है। क्लेश मोहसे है, निर्मोह भावसे नहीं है। रागद्वेष पक्ष करना अधर्म है। हम दुःखी होते जायें अधर्मके ही कारण और उस दुःखको मिटाने का उपाय अधर्म करना ही समझें तो कैसे उद्धार हो सकता है?

संसारियोंके सुखके प्रयत्नकी विफलता॥संसारके प्रत्येक जीव सुख चाहते हैं और दुःखसे डरते हैं और वे जितने भी प्रयत्न करते हैं, दुःखके दूर करनेका और सुखके अनुभवका प्रयत्न करते हैं, किन्तु प्रयत्न सारे निष्फल चले जा रहे हैं। बहुत प्रयत्न किया, पर दुःख दूर नहीं हुआ ऐसा सभी अनुभव कर रहे हैं। बतलावो सुखप्राप्तिके भावसे ही गृहस्थी बसाते हैं, घरके परिवारके लोगोंको जुड़ाते हैं, धन संचित करते हैं और अन्तमें होता क्या है? धन भी विघटता है, परिजन भी विघटते हैं। किया था सुखकी आशासे सब कुछ, किन्तु सुख मिल न सका। संसारमें ऐसे ही गहन नाच हो रहे हैं। यहां सुखकी आशा करना बिल्कुल भ्रमभरा प्रयत्न है। तो जितने भी क्लेश होते हैं वे पापसे होते हैं और जब-जब भी आनन्द मिलता है तब धर्मसे। राग भाव करते हुए, धनसम्पन्न होते हुए कोई लाभ हो रहा हो, प्रतिष्ठा हो रही हो, इन सबको सुनते हुए इस जीवको

भीतरसे चैन नहीं मिलती। अनुभव करके देख लो। जब आर्थिक स्थिति कम होती है उस समय कितना समय मिलता है धर्मकार्यके लिए और कितना उपयोग लगता है और जब आर्थिक स्थिति बढ़ने लगती है तो उस धनको भी तो सम्भालने में श्रम होता है, उपयोग देना पड़ता है और फिर तृष्णा बढ़ती जाय तो उसके स्वप्न भी आते रहते हैं, फिर धर्मकी ओर बुद्धि नहीं जगती है। किस चीजमें सुख माना जाय? संसारके समागमोंमें सुख नहीं है, सुख तो धर्ममें है।

धर्मपालनमें प्रारम्भिक पुरुषार्थ [धर्मके पालनेके लिए पहिले यहां से शुरुवात करें, वस्तुका स्वरूप समझें, यथार्थतत्त्वका ज्ञान करें। मैं वास्तवमें क्या हूं और ये जगत्के जो कुछ भी समागम मिले हैं इन समागमों में यह क्या है यह बात समझे बिना धर्मका प्रारम्भ भी नहीं हो सकता। हम जहां हैं, जहां फंसे हैं, जिस बन्धनमें हैं उसकी समस्या तो समझ न पाये, उसका तो यथार्थ परिचय न पा सकें और बाबा वाक्यकी बात रटते रहें तो शान्ति तो नहीं मिल सकती। हम जहां हैं, जो हमारे सामने है, जो मैं खुद हूं, इसका निपटारा भी न हो तो शान्ति कैसे पावोगे? एक बार इन्स्पेक्टर ने स्कूलको खबर भेजी कि हम अमुक दिन अमुक समय पर बच्चोंकी भूगोल विषयकी परीक्षा लेने आयेंगे। मास्टर जीने बच्चोंको खूब समझाया और भी विशेष करके बताया। देखो यहां अमेरिका है, यहां रूस है, यहां अमुक नदी है, खूब समझा दिया, खूब रटा दिया, समझा दिया। इन्स्पेक्टर आया तो लड़कोंसे पूछा बोलो बच्चों, तुम्हारे गांवके पाससे जो नाला निकला है ना, वह कहांसे निकला है? अब बच्चोंने तो अमेरिकाकी, रूसकी और सब जगहों की पहाड़ नदियां पढ़ी थीं, पर गांव का नाला तो बच्चोंने न पढ़ा था। सब चुप रह गए। अरे भैया! बड़े-बड़े देशान्तरोंके नदी नालोंका पता किया जा रहा है, पर अपने गांवके नालेका पता नहीं है। ऐसे ही हम जिन शरीरमें बंधे हैं, जिस समागममें रह रहे हैं, उसे न जानें और बड़े पुराने ऐतिहासक बातों को, देवी, देवता आदिक अनेक पौराणिक बातोंको खूब बखानते रहें, समझाते रहें और उनके ही आधार पर हम धर्म करते रहें, ऐसे तो अपना पार न पड़ेगा।

स्वपर प्रतिबोध [धर्मप्रसंगमें इतना श्रम करने पर भी लोग सुखी नजर नहीं आते, इसका कारण यह है कि सुखका जो यथार्थ उपाय है वह तो न किया। सुखका उपाय इस तरहसे चलेगा। पहिले अपनेको और पर को यथार्थरूपसे समझलो कि मैं क्या हूं और ये सब समागम क्या हैं? जिसे लोग मनुष्य कहते हैं, जो यह दो पैरवाला कुछ व्यवहारमें आ रहा है, जिससे मोह बसाया है यह सब एक वस्तु नहीं हैं, यह तीनका पिण्ड है, वे तीन हैं कौन? एक तो यह आत्मा ही स्वयं है, दूसरी चीज अनन्त कर्म परमाणुवोंका पिण्डरूप कार्माण शरीर है जिन्हें कोई प्रकृति कहते हैं, कोई कर्म कहते हैं, कोई विधि (भाग्य) कहते हैं। तीसरी चीज ये शरीरकी वर्गणाएं, शरीरके स्कंध, इन तीनका यह पिण्ड है। जो हम आपको नजर आते हैं ये सभी जीव स्थावर हों, तिर्यच हों, मनुष्य हों, पशु-पक्षी हों अथवा नारकी हों, इन तीनके पिण्ड हैं। इसीलिए ये वास्तविक पदार्थ नहीं हैं। इनका विघटना हुआ कि माया विघट गयी। इस पिण्डमें जो आत्मतत्त्व है वह मैं हूं और वह मैं एक ज्ञान दर्शन

आनन्दमय हूं और ये सर्व कर्म सब अचेतन हैं। इन सबसे न्यारा यह मैं ज्ञानानन्द स्वरूप हूं। इस मेरेका किसी भी अन्य जीवसे रंच सम्बन्ध नहीं है।

विवेक प्रकाश॥संसारके ये सभी जीव अपने-अपने कर्मोदयके अनुसार किसी कुटियामें इकड़े होते हैं, सुख-दुःख पाते हैं, जन्म-मरण करते हैं। यहां कोई किसी दूसरेका सुख-दुःख जीवन-मरण नहीं करता है ‘ऐसा ही अत्यन्त न्यारा मैं हूं’ ऐसा बोध हो तो धर्मका पालन होगा, यदि ऐसा भेदविज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है तो धर्मके नाम पर कितने ही उत्सव समारोह विधान कुछ भी कर लेने पर भेदविज्ञान न होने से धर्म नहीं होता। वहां एक प्रकारसे शुभ कर्मका लक्ष्य करके अपना दिल-बहलावा किया है। धर्म नियमसे शान्ति और आनन्दको उत्पन्न करता हुआ ही प्रकट होता है इसलिए यह भय मत करो कि सुख बिगड़ जायगा धर्म करने से। धर्मसे सुख बढ़ता है, विघटता नहीं है। सुख तो धर्मका फल है। यह धर्म अपने फलमें कष्ट न देगा।

मोह राग द्वेषकी अधर्मस्तपता॥ये जीव मोहमें तो मस्त हो रहे हैं, रागद्वेष मोहकी घटनावोंके लिए तो हम तन, मन, धन, वचन सब कुछ लगा रहे हैं और एक सही मायनेमें आत्महितके भावसे धर्मकी ओर नहीं लगते हैं। धर्मका उद्यम करो, मोहसे कुछ पूरा न पड़ेगा, सब बिछुड़ेगा, अन्तमें दुःखी होना पड़ेगा। जो पुरुष संयोगके समयमें हर्ष मानते हैं उनको वियोग के समयमें माथा धुनना पड़ेगा, बड़ा दुःखी होना पड़ेगा, इससे अभीसे ही चेत जावो। जिन चीजोंका संयोग हुआ है उन चीजों को विनश्वर मानो। यह संयोग किसी दिन अवश्य मिटेगा। ऐसा अपना निर्णय बनाये रहो तो वियोगके समयमें फिर क्लेश न होगा। इस कथनमें सार बात इतनी है कि मोह रागद्वेष करना तो अधर्म है और इन भावों पर विजय प्राप्त करके केवल ज्ञाता द्रष्टा रहना, जान लेना, बस इतनी ही मात्र अपनी वृत्ति रखना, यह है धर्म।

धर्मपालनसे अमूल्य अवसरका लाभ उठानेका सन्देश॥धर्मसे नियमसे सुख होता है और अधर्मके कारण नियमसे दुःख होता है ऐसा निश्चय करके धर्मका आदर करना चाहिए। धर्मके लिए उत्साह बनावो, समय निकालो। तत्त्वज्ञानकी बात सीखनेको अपना भाव बनावो। प्रमादमें समय गुजर जायेगा तो पछतायेगा। यह बड़ा मूल्यवान् नरभव है, यों ही खो देनेसे फिर इस जीवको दुःखी होना पड़ेगा। इस उल्कष्ट अवसरका लाभ निष्पक्षता, उदारता, सरल रहना, नम्र रहना, तृष्णाका न होना, ‘मैं अकिञ्चन हूं, मेरा जगत्‌में कहीं कुछ नहीं है’ ऐसा समझकर बाह्यवस्तुवोंसे विरक्त होना और अपने स्वरूपकी ओर झुकना यही धर्म है। जो धर्म करेगा वह नियम से सुखी होगा।

धर्माद्वाप्तविभवः धर्म प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु ।

बीजाद्वाप्तधान्यः कृषीवलस्तस्य बीजमिव ॥२१॥

धर्मप्रतिपालनसहित ही भोग भोगनेका सन्देश॥हे पुण्यवान् पुरुष! धर्मसे यह समस्त वैभव प्राप्त किया है, अब इस वैभवके भोगका अनुभव तो कर, किन्तु धर्मका प्रतिपालन करते हुए

भोगोंको भोग । देख किसान भी जिस बीजसे धान्य प्राप्त करता है उस धान्यका भोग भोगता तो हैं, किन्तु बीजको पहिलेसे सुरक्षित रख लेता है, समस्त धान्योंको नहीं भोगता । वह बीजकी रक्षा करता है जिससे कि आगे भी धान्य पैदा किया जा सके । आत्महितार्थीको चाहिये कि वह धर्मकी रक्षा करके ही भोगना पड़े तो सुख भोगे । जैसे बीजकी रक्षा करके किसान धान्यका भोग करता है ।

आनन्दका साधन॥जीवको जो कुछ भी आनन्द है वह ज्ञान और वैराग्यका आनन्द है । किसी परवस्तुसे तो आनन्द आता ही नहीं हैं, किन्तु परवस्तुवोंके प्रेमसे भी आनन्द नहीं मिलता । जितना चित्तमें वैराग्य दृढ़ बने, जितना परवस्तुवोंसे उपेक्षा बनती जाय, उतना ही यह जीव आनन्दका पात्र होता है । कोई भी पुरुष किसी भी परिस्थितिमें हो उस ही परिस्थितिमें वह विवेक बनाये रहे कि मुझे जितना स्वास्थ्य साधनाके लिए आवश्यक है और आत्मकल्याणके लिए आवश्यक है उतना तो मन, वचन, कायकी चेष्टाएं करें, व्यर्थ अपने मनका पसारा न बनाएं । इन वचन व्यवहारोंको भी अटपट जहां चाहे न बोला करें, किन्तु जिसमें कोई आजीविका का काम विदित हो अथवा आत्मकल्याणका काम विदित हो वहां ही अपना वार्तालाप करें और शरीरसे भी चेष्टा अपने किसी शुभ प्रयोजनके लिए ही करें । वंदन, पूजन, सत्संग, गुरु सेवा आदिक शुभ कामोंमें कायचेष्टा करें, शरीर का श्रम किन्हीं अशुभ बातोंके लिए न करें, यह सब जीवोंका कर्तव्य है । चाहे कोई गृहस्थ परिस्थितिमें हो अथवा साधुपरिस्थितिमें हो; दृष्टि, लक्ष्य, झुकाव में सब समस्त ज्ञानीजनोंके एकरूप होते हैं । परिस्थितिवश कुछ विभिन्न भी प्रयत्न कर सकते हैं, यह है उनकी जुदी-जुदी बात ।

वैराग्यरूप धर्मसाधनसे हितलाभ॥भैया! जितना वैराग्यका चित्त में ध्यान होगा अर्थात् परवस्तुवोंकी आधीनता जितनी कम होगी उतना ही इस मनुष्यका हित है । वैराग्यसे प्रयोजन सीधा इतना ही है कि सब कुछ छोड़कर निर्गन्ध दिगम्बर बनें, यह तो उत्कृष्ट बात है, पर सबके लिए यह बात कहीं नहीं जा रही है, किन्तु अपनी-अपनी परिस्थितिमें सबको यह निर्णय रखना चाहिए कि आजीविका और आत्मोद्धार इन दोनोंसे जहां सम्बन्ध हो वहां ही मन, वचन, कायका व्यापार हो, यह उन्नतिका मार्ग है । यों तो सभी संसारी जीव अपनी-अपनी कषायवासनाके अनुसार नाना प्रयत्नोंमें जुटे रहा करते हैं, परन्तु लाभ क्या मिला इन जीवोंको? सो मिला ही नहीं कुछ । इसका प्रमाण यह है कि अब भी तो संसारमें रुलते फिरते धरे हुए हैं । यह पुण्य सामग्री, श्रावककुल, धर्मका समागम और-और भी यथावसर सत्संगका मिलना ये सभी बातें उत्कृष्ट प्राप्त हुई हैं, इन्हें पाकर व्यर्थ नहीं गंवाना है । गृहस्थ हैं तो यह काम करें कि वैभव आदिका भोग भोगकर धर्मकी भी दृष्टि बनाये रहें । जिस धर्मके प्रसादसे यह पुण्य वैभव मिला है उस धर्मको न काट दें, उसकी रक्षा बनाये रहें ।

अधूवमें अनास्था॥वज्रदन्त चक्रवर्तीके वैराग्यभावनामें सर्वप्रथम ही आप लोग बोलते हैं बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जग माहिं । त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म बिसारें नाहिं ॥ ये चक्रवर्ती

भी चक्रवर्तित्वका बड़ा सुख भोगते हैं। बत्तीस मुकुटबद्ध राजा जिनकी सेवामें रहते हैं ऐसे सबसे उत्कृष्ट राजा चक्रवर्ती भी भोगों को इस प्रकार भोगते हैं कि धर्मको बिसारते नहीं हैं। जैसे किसान अन्नका भोग करता है, पर बीजको पहिले रख लेता है। भोगप्रसंगोंमें मस्त मत होओ यह उपदेशका सारांश है। इस जगत्‌में कुछ भी चीज अपना सर्वस्व समर्पण करने योग्य नहीं है। समस्त समागम ऐसे अध्युव हैं जैसे चलते हुए मुसाफिरको रास्तेमें जो पेड़ मिलते हैं उन पेड़ोंका कितने क्षण संयोग है? छोड़े जा रहे हैं, जिन भी पेड़ोंका मिलाप होता है उनको छोड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इस ही प्रकार हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अपनी यात्रा बनाए चले जा रहे हैं। इस संसारकी मुसाफिरीमें ये मकान वैभव परिजन लोग उन पेड़ोंकी भाँति क्षणिक समयके लिए मिले हैं। इनमें मत्त और मग्न होना विवेक नहीं है।

दृष्टान्तपूर्वक सुखबीजरक्षणका समर्थन॥ चतुर किसान तो विचार करता है कि जो अन्न खेतसे उत्पन्न होता है यह बीजसे उत्पन्न होता है। कुछ भी इस उत्पन्न अनाजमें से बीज रख लेंगे तो आगे भी अन्न की प्राप्ति होगी। यों विचार कर वह चतुर किसान बीजको रखकर अन्नको भोगता है। थोड़ा कभी कम खाकर भी गुजारा करना पड़े तो भी उसे इष्ट है मगर बीज रखना कभी नहीं भूलता। ऐसे ही ये जितने भी सुख हैं ये सुख सब धर्मके प्रसादसे मिले हैं। धर्म न होता तो इन्द्रियविषयोंका अच्छा साधन न मिलता, सुखकी प्राप्ति न होती। हे कल्याणार्थी भव्य पुरुष! तू सयाना बन, ये समागम तो विनश्वर हैं, तू इनमें प्रीति मोह करके मूढ़ मत बन। जो कुछ भी मिला है वैभव तुझे, धर्मके प्रसादसे पुण्यके अनुकूल मिला है। उस वैभवको नहीं निहारना है। सुखमूल धर्मकी रक्षा कर वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल और उदयवश जो कुछ भोगना है सो भोग लो, किन्तु धर्मको न बिसारो। अब भी धर्म रखेंगे, साधेंगे तो आगामी कालमें भी सुखकी प्राप्ति होगी। इस कारण धर्मकी रक्षा करते हुए सुख भोगना चाहिए।

आनन्द, सुख व दुःखके मूल त्रिक॥ जैसे आनन्दके सम्बन्धमें तीन बातें होती हैं आनन्द, सुख और दुःख। इन तीनोंमें फर्क है। आनन्द नाम तो शुद्ध आत्मीय आनन्दका है और सुख नाम है सांसारिक सुखका, इन्द्रियजन्य सुखका। ख मायने इन्द्रिय, सु मायने सुहावना लगे और दुःख मायने पीड़ा वेदना, जहां इन्द्रियको सब कुछ असुहावना लगे। ये तीन भाव हैं आनन्द सुख और दुःख। ऐसे ही इस प्रसंगमें तीन भाव समझना धर्म, पुण्य और पाप। धर्म नाम तो है रागद्वेष न करके मात्र जाननहार रहना। इस धर्म से आनन्दकी प्राप्ति होती है। धर्म किसी जातिका, किसी कुलका बन्धन रूप नहीं है। जो भी भव्य, जो भी पुरुष सविवेक रागद्वेषको तजेगा, जगजालका ज्ञाता द्रष्टा रहेगा, इसमें न झुकेगा, इसकी आशा न करेगा, अपने आपके स्वभावके उन्मुख ही रहेगा, वह धर्म पाल रहा है। वह इस धर्मके फल में आनन्द प्राप्त करेगा।

धर्मके सद्भावमें अविशिष्ट अनुरागका फलवैभव॥ इस धर्मके करने की दृष्टि और यत्न रखते हुए भी जो कुछ राग शेष रहा है, शुभ राग बना है उस रागके फलमें उत्कृष्ट पुण्यबंध होता

है, क्योंकि धर्मकी दृष्टि साथ है। अब धर्मकी दृष्टि और धर्मका आश्रय जितना साथ है और जितना राग है उसके अनुसार पुण्यबंध होता है। उस पुण्यके उदयमें इष्ट चीजकी प्राप्ति होती है, उस समय यह जीव उन इष्ट पदार्थोंका भोग अन्यायपूर्वक, आसक्तिपूर्वक अपने आपकी सुध-बुध खोकर भोगता है तो उसकी दुर्गति अवश्यम्भावी है। धर्मको न बिसारकर मेरा कर्तव्य तो शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा रहनेका है ऐसा ध्यान रखते हुए उदयाधीन जो कुछ सुखका भोगना बनता है वह दुर्गति का कारण नहीं होता। क्योंकि इसमें दृष्टि धर्मकी रक्षाकी भी साथमें पड़ी हुई है।

मोही जगत् पापफलसे भीत और पापका अनुरागी॥पाप भाव है विषयकषायोंमें निर्गत लग जाना। कोई अर्गला न रखकर, कोई आन विनय दृष्टि भावना न रखकर जो विषयकषायोंमें मनचाही प्रवृत्तिकी जाती है वह सब पाप भाव है। पापके उदयमें क्लेशके साधन निकट होते हैं और उसमें यह जीव परेशान हो जाता है। लोग पापका फल तो नहीं चाहते हैं, किन्तु पाप करते रहते हैं। पापका फल है दरिद्रता, दुःख होना, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग ये सब पापके फल हैं, इन्हें तो नहीं चाहता यह जीव, किन्तु पापको छोड़नेकी हिम्मत भी नहीं करता। पुण्यके फलको तो चाहता है यह जीव। पुण्यका फल है इष्टसंयोग, अनिष्टवियोग, विषयोंके अनेकानेक साधन मिलना, इन सबको तो चाहता है यह, किन्तु पुण्यको नहीं करना चाहता।

पापफलकी व्याख्या॥इस प्रसंगमें बड़े कामकी एक बात सुनिये। पापका उदय इसे नहीं कहते हैं कि स्त्रीका वियोग हो जाय, पुत्रका वियोग हो जाय, धन कम हो जाय, दरिद्रता आ जाय किन्तु पापकी भावना चित्तमें आए तो इसे पाप समझिये और साथ ही यह भी जानो कि यद्यपि यह उपचारसे पापका फल है, लेकिन पापका फल तब कहलायेगा जबकि उस चीजकी इच्छा बनी हो और फिर भी वह चीज न मिले। धन कम हो गया यह कोई पाप नहीं है, किन्तु धनकी चाह तो विकट बनी है और फिर कम हो गया तो पापका उदय समझिये। उनके कम होनेको यदि पाप माना जाय, पापका उदय समझा जाय तो जिन्होंने धनको बिल्कुल त्याग दिया है फिर उन्हें कितना पापी कहोगे? पैसा ही नहीं है पास। धनकी कमी होनेका नाम पाप नहीं है, किन्तु धनकी तो चाह है और मिल नहीं रहा है, उसे पाप कहते हैं। परिजनोंका परिवारका वियोग हो जाना पाप नहीं है। यह तो संसारकी रीति है। जन्मते हैं, मरते हैं, आते हैं, जाते हैं यह पाप कुछ नहीं है, किन्तु किसी परिजनसे प्रीति है, उसे चाहते हैं, उसका मरण इष्ट नहीं है और हो जाय मरण तो यह पापका उदय है।

पापफलके शीघ्र विनाशका सुगम उपाय॥देखो भैया! पापके फल में लोग हैरान हो गए हैं, उसके फलको आप क्षणमात्रमें दूर कर सकते हैं और पापफलको दूर करनेकी बड़ी सुगम पद्धति है। पापका उदय इस ही को तो कहते हैं ना, कि आप चाह रहे हैं धन और धन हो रहा है कम। इस पापके फलको मिटाना है ना। तो पापफलको मिटानेकी सुगम औषधि है धनको चाहना नहीं। ज्ञान बढ़ालो, पापका फल मिट जायगा। न चाहें किसी चीजको और वह चीज हो जाय कम, उसे

पापका उदय नहीं कहते हैं। किसी चीजकी इच्छा रहे और चीज न मिले इसे कहते हैं पापका फल। पापका फल मिटानेकी हम सबके अन्दर कला है, पर उस कलाका उपयोग नहीं करना चाहते।

निज निधिके दर्शनके आनन्दका एक दृष्टान्त [जैसे किसी गरीबके घरमें लाखोंकी सम्पदा गड़ी है, पर उसे पता नहीं है तो उसे रोज भूखे रहना पड़ता है और बड़े श्रमसे अपना पेट पालता है। उसे मालूम ही नहीं है कि यहां निधि गड़ी है। जब कभी उसे यह साबित हो जाय कि मेरे मकानमें निधि गड़ी है तो इस परिचयसे ही वह सुखी हो जायगा। अभी मिली कुछ नहीं, वह गड़ी ही है, प्रवृत्तिमें गरीबी है, एक बार ही भोजन बनता है, मुश्किलसे खाना मिल पाता है, इतने पर भी चूंकि उसे यह खबर हुई है इसलिए यह विश्वास जम गया है कि इस पृथ्वीके नीचे बहुत निधि गड़ी है और जब उसको कुदालियोंसे खोदकर देखता है और निधिकी निशानी दिखने लगती है तब उसे आनन्द आता है, और जब खोदकर निकाल ही लिया, घरकी आत्मारीमें कहीं रख भी दिया तो वह आनन्दका मनमाना प्रयोग करता है।]

निज निधिदर्शनके आनन्दका उपयोग [यों ही इस जीवके इस स्वक्षेत्र महलमें कर्मरूपी पृथ्वीके भीतर यह अनन्त आनन्दकी निधि दबी हुई है, इस जीवको पता नहीं है। इस कारण यह संसारी जीव परकी आशा रख कर जानकारी बनाकर क्लेश ही भोग रहा है। जब उसे किसी उपायसे अपनी अनन्त निधिका पता पड़ जायगा, परिचय हो जायगा कि यहां मेरे में सर्वाधिक समृद्धि बसी हुई है, मुझमें है तभी तो प्रकट होगी और जो है ही नहीं, वह कहांसे प्रकट होगी? यों अन्तस्तत्त्वका परिचय हो जाय तो चाहे अभी उसका उपयोग अनुभव नहीं कर पाया, लेकिन इतना परिचय हो जाने मात्रसे उसे एक शान्ति प्राप्त हुई कि मैं गरीब नहीं हूं। मकान नहीं है न सही, मेरा यहां कुछ है ही नहीं। मेरा मकान मेरा स्वरूप है। परिजन वैभव मेरे कुछ नहीं हैं, न सही। मेरा तो मात्र मैं ही अकेला हूं। मुझे किसका शरण है? मेरा तो मैं ही सर्वस्व हूं। इस आत्मनिधिका जब परिचय हो जाता है तब इसे आनन्द जगने लगता है। जब कुटुम्ब, परिजन, वैभव इनकी ओर दृष्टि जाती है, तब महती विपदा है और विडम्बना है। इसमें जीवका रंच भी हित नहीं है। परिचय हो जाय आत्मचारित्र पाला जाय, भक्ति, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, आलोचना आदिक ये समस्त इस आनन्दके निरखने के साधन हैं। इन कुदालियोंसे इस कर्मरूपी पृथ्वीको खोद डालें और अपने आनन्दके पानेका यत्न करें तब उसका आभार नजर आने लगता है और अद्भुत आनन्द प्राप्त होता है। जब उसका साक्षात् अनुभव हो जाय तो उस अनुभव के कालमें विशुद्ध आनन्दका उपभोग होने लगता है।]

ज्ञान और वैराग्यकी सुवासनाकी समृद्धि [देखो, समस्त आनन्द सर्वसमृद्धियां एक आत्मानुभवके धर्मके प्रसादसे मिली हुई हैं। इस धर्मको किसी भी स्थितिमें भूलें नहीं, धर्मका प्रतिपालन करते हुए भोगोंका अनुभव करें। यही विवेकपूर्वक भोग कहलाता है। इसमें ज्ञान और वैराग्य दोनों अन्तर्निहित है। इस वैराग्य मां का बहुत बड़ा प्रसाद है। यही हितकारिणी मां है, यही

वैराग्य मां इस सुपूतको नियमसे हित और आनन्द प्रदान करती है। अनुभव करके देखलो जितना-जितना राग हटाकर वैराग्यभावसे सुवासित होते जावोगे उतनी ही विशुद्ध अन्तःप्रसन्नता और उथान इस जीवका होता चला जायगा। ज्ञान और वैराग्यका आदर करो और धर्मका प्रतिपालन करते हुए, अपने ज्ञान और वैराग्यकी संभाल रखते हुए जो वर्तमानमें सुखभोग भोगना भी पड़ रहा है उसे भोगो।

**संकल्प्यं कल्पवृक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणेरपि ।
असंकल्प्यमसंचिन्त्यं फलं धर्माद्वाप्यते ॥२२॥**

बिन जांचे बिन चिन्तये धर्म सकल सुखदैन॥ कल्पवृक्षका तो फल संकल्प्य होता है अर्थात् कल्पवृक्षसे मांगने पर फल मिलता है और चिन्तामणि का फल चिन्तन करनेसे मिलता है, किन्तु धर्मसे तो बिना मांगे और बिना सोचे ही फल मिलता है। लोक कल्पवृक्षको उत्तमफल देने वाला बताते हैं। सो जब संकल्प करो, याचना करो तब फल मिलता है और चिन्तामणि रत्नसे चिन्तन करो, मनमें सोचो कि अमुक वस्तु मिले तो मिलती है, किन्तु धर्म तो वचनके भी गोचर नहीं है और मनके भी गोचर नहीं है, यह तो बिना ही विचारे, बिना मांगे हुए अचिन्त्यफलको प्रदान करता है। धर्मसे समस्त अर्थोंकी सिद्धि होती है कोई पुरुष इसही ध्येयसे कि सब कुछ मिल जाता है धर्म करनेसे तो चलो अपन धर्म करें, तो उसने न धर्म समझा है और न वह धर्म कर सकता है। अज्ञान दशा ही उसके सिर पर मंडरा रही है। धर्म नाम है समस्त पदार्थोंसे भिन्न ज्ञानानन्द स्वरूप मात्र अपने आप को जानकर इसही के दर्शनमें तृप्त रहना, इसका नाम है धर्मका करना। अब सोचो जो मनुष्य ऐसे धर्मको करते हों उन्हें कैसे दुःख होगा? उसको किसी भी पदार्थकी वाज्छा ही न होगी, फिर दुःख कैसे हो?

धर्मसे सर्वार्थसिद्धि॥ सिद्धि नाम वाज्छा न रहनेका है। जिस किसी भी प्रकार इच्छा न रहे उसीका नाम सिद्धि है। मोहीजन इस सिद्धिके उपायमें भोगोंका संचय करते हैं, भोगोंको भोगते हैं। भोगोंको भोगनेमें तद्रिविषयक वाज्छा कुछ समयके लिए दूर हो जाती है। यह जीव उस समय के आये हुए आनन्दको यों समझता है कि मुझे भोगोंसे आनन्द मिला है, किन्तु बात वहां यह है कि भोगविषयक वाज्छा नहीं रहती है, वाज्छा न रहनेका नाम ही सिद्धि है। जिस जीवको अपने यथार्थस्वरूपका भान होता है उसके तरंग ही नहीं उठती है किसी पदार्थकी ओर झुकनेकी, फिर उसे क्लेश कहांसे होगा? इसी कारण स्पष्ट यह बताया गया है कि धर्मसे समस्त वाज्छाओंकी पूर्ति होती है। वाज्छा न रहे इसका ही नाम पूर्ति है।

परमार्थ चिन्तामणि॥ कुछ लुब्ध पुरुष भोग साधनोंके संचयके लिए और भी यत्न किया करते हैं, कोई सिद्धि, मंत्र जपना, किसी देवी-देवताको सिद्ध करना अनेक प्रकारके ऐसे उपाय भी यह जीव किया करता है और सुन रखता है कि कल्पवृक्षसे जो चाहे चीज मिल जाती है सो कल्पवृक्षकी तलाशमें रहते हैं। चिन्तामणिकी वे खोज करते हैं कि चिन्तामणि रत्न होनेपर जो विचारों उसकी

सिद्धि हो जाती है। सो यह चिन्तामणिके स्वप्न देखता है। लेकिन यह विदित नहीं है कि यह चैतन्यस्वभावका दर्शन ही चिन्तामणि है, जिसके चिन्तनमें सर्वसंकट दूर हो ही जाते हैं। धर्मसे बिना मांगे, बिना चिन्ते सुख प्राप्त होता है। इस कारण एक इस आत्मधर्मको, ज्ञाता द्रष्टा रहने रूप उपायको बनाएं। अन्य-अन्य कुछ भी काम करने पर जीवको सुखसाता न मिल सकेगी।

आत्मनिरीक्षण॥वर्तमान अपनी ही बात तक लो, कितना ही कुछ कर डालो, दूसरोंके लिए या अपनी कल्पनाके अनुसार अपने लिए, घर भी बना लिया और दुकान ठीक सही लाइन पर कर दिया, और प्रजाजनों में भी, पड़ोसियोंमें भी बड़ा आदर होने लगा। कल्पनानुसार ऐसा हो जाने पर भी चैन तो इसे है नहीं। कोई इच्छा खत्म हो तो अन्य कोई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, इसको शान्ति नहीं मिलती है। कितने ही पुत्र हो जायें, कितने ही विवाह हो जायें, कितने ही लोगोंका जमाव बन जाय, गोष्ठी आदि सब कुछ बनालें, लेकिन शान्ति इस जीवको नहीं हो पाती है। आज देशमें भी जो बड़े नेता और बड़े अधिकारी माने जाते हैं वे भी आज बहुत विद्वल हैं। जब आजकी दुनिया इतना संकटग्रस्त है, जिन्हें हम बड़ा कहते हैं ऐसे देशके भी लोग आज बड़े संकटमें हैं और यह भी पता नहीं है कि आजका दिन भी भली प्रकारसे बीत सकेगा या नहीं, तब तुम कहां आशा लगाये हो, क्या मायाजालोंसे अपने आपके आनन्दकी आशा करते हो?

अनात्मतत्त्वकी उपेक्षापूर्वक धर्ममें आस्थासे लाभ॥भैया! मान लो दुनियाके १०, २०, ५० लोगों ने कह डाला कि आप बड़े धनिक हैं, उदार हैं, बड़े परोपकारी हैं, बड़े सरल हैं तो आखिर उसने अपनी कषायके अनुसार अपनी वचनचेष्टा ही तो की। परमें, बाहरमें किसी भी पदार्थके संग समागम में सुखकी आशा मत करो। यदि भ्रम बना है, सुखके लिए परकी आशा लगाये हैं तो यह बहुत बड़ी विपदा है, विडम्बना है, इसमें तो उत्तरोत्तर भविष्य बिगड़ता ही जायगा। सर्वसंकल्प विकल्पोंको त्यागकर निज स्वरूपमें विश्रामसहित रह जाओ तो सन्मार्गका विशद परिचय होगा। धर्म नाम है उस परिणामका जो मोह रागद्वेषसे न्यारा है ऐसे उस धर्मपरिणाम को चाहे समता कहलो वही धर्म है, चाहे ज्ञाता द्रष्टा रहना कहलो वही धर्म है। चाहे निर्विकल्प निज ज्ञायकस्वरूपका आश्रय करना कह लो वही धर्म है। चाहे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र कह लो वही धर्म है। इस निर्मल धर्म परिणाम को जो पुरुष धारण करता है वह नियमसे अविचल सुखको प्राप्त होता है। धर्मसे ही अलौकिक फल प्राप्त होता है ऐसा जानकर इस धर्ममें आस्था बनावो और मोह रागद्वेषके साधन परिजन मित्रादिक जनोंमें और इसही वैभवमें आस्थाको त्याग दो। ये हितके कारण नहीं हो सकते हैं। यह धर्म किस उपायसे उत्पन्न होता है, उस उपायके सम्बन्धमें आचायदेव कहते हैं

परिणाममेव कारणमाहुः खलुः पुण्यपापयोः प्राज्ञाः।

तस्मात्पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः ॥२३॥

जीवपरिणाममें पुण्यपापकी कारणता॥जो प्रज्ञजन हैं, वस्तुस्वरूप का अध्ययन करके जिनका निर्मल निर्णय हुआ है ऐसे पुरुष पुण्य और पाप का कारण परिणामों को ही कहा करते

हैं। इस कारण हे मुमुक्षु भव्यजनों! पापका तो विनाश करो और पुण्यका संचय करो। पापविनाश व पुण्यसंचय होगा निर्मल परिणाम रखने से। हिंसासे दूर रहना; किसी से झूठ न बोलना, चुगली न करना, किसी का धन न हरना, किसी बहू-बेटी पर कुदृष्टि न डालना और तृष्णाका त्याग रखना, अन्तरमें यह स्पष्ट श्रद्धा बनी रहना कि मेरा लोकमें कहीं कुछ नहीं है। मेरा तो मात्र यह चैतन्य स्वरूप ही है। जो पुरुष इस आत्मस्वरूप तक पहुंच जाते हैं उनके परिणामोंमें पापकी बात प्रकट नहीं हो पाती है। परिणामको पुण्य पापका कारण जानकर हे भव्य जीवों! परिणामोंको निर्मल रखनेका यत्न करो।

दृष्टान्तपूर्वक दुष्परिणाममें पापबन्धकताका समर्थन॥कोई पुरुष किसी दूसरेकी बरबादीका कोई कारण जुटा रहा है और उसका वही कारण बड़े लाभ को करने वाला हो जाय तो इसने तो पापका ही बंध किया। चाहे इसकी चेष्टासे उसे लाभ हो गया हो, पर परिणामों में जब मलिनता आयी तो पापका बंध हो गया। श्रीपालका कथानक तो सुना ही होगा। उसे ध्वल सेठने समुद्रमें चलते हुए जहाजसे ढकेल दिया। वह जहाजसे नीचे गिर गया। यह ध्वल सेठ बड़ा खुश होता है कि मैंने तो उसे मार दिया है अब। अब तो सब कुछ धन वैभव जो इसने संचित किया है वह हमको ही मिल जायगा, किन्तु वहां होता क्या है कि वह श्रीपाल किसी न किसी प्रकार तैरकर किनारे लग जाता है और जिस किनारे लगा उस देशके राजाका यह विचार था कि जो समुद्रको भुजावोंसे पार कर किनारे लगेगा उससे अपनी लड़की की शादी कर देंगे और आधा राज्य दे देंगे। खबर मिली तो श्रीपालको बड़े आदरसे राजा लिवा लाया। उसको अपनी लड़की विवाह दी और आधा राज्य उसे दे दिया। इस प्रसंगमें वह ध्वल सेठ भी वहां पहुंचा और देखा ओह जिसे मैंने मारनेका उद्यम किया था वह तो यहां राजा बन गया है। उसे कुछ और उपाय न सूझा तो अपने साथियोंको भी समझा दिया कि हम व तुम सब यों-यों कहना। भांडका रूप बनाया और राजाके सामने श्रीपालसे कोई कहें अरे चाचा तुम बहुत दिनोंमें मिले, अरे बेटा, अरे भाई, ऐसा कहनेका प्रयोजन यह था कि राजा यह जान जाय कि यह भांडका लड़का है। कुछ वहां विद्रोह किया, लेकिन सब विद्रोह मिट गया और श्रीपालका कुछ न बिगड़ा। ध्वल सेठ मरकर नरक गया। जो जैसा परिणाम बनाता है उस परिणामके अनुसार वह पुण्य और पापका बंध कर लेता है।

जीवकी शक्यता॥भैया! अपने पास और है ही क्या चीज? केवल परिणाम है। केवल परिणामके सिवाय और क्या करोगे? देह तक भी जब मेरा नहीं है तो अन्य वस्तु मेरी क्या होगी और अन्य बातोंमें हम क्या करतूत कर सकेंगे? हम केवल परिणामोंके धनी हैं, अपना परिणाम निर्मल बनायें, देव, शास्त्र, गुरुकी भक्तिमें लगायें तो वहां पापोंका तो विनाश होगा और पुण्यका समागम मिलेगा।

पर्यायव्यामोहमें धर्मफलदर्शन॥कोई जब आंखों में देख लेते हैं या दो चार उदाहरण कभी मिल जाते हैं कि देखो अमुकने खूब धर्मसाधना की और फिर भी यह निर्धन रहा है अथवा निःसंतान

रहा है या अन्य प्रकारसे कुछ हीन दशामें आया है। इस धर्मसे कुछ लाभ नहीं है। धर्मकी वासनामें, उसकी फिकरमें समय गंवा दिया जाता है, इस धर्मसे क्या लाभ है ऐसी आशंका होती है अज्ञानीजनोंको। कोई शरीरमें सामर्थ्य न हुई या अपना काम चलाने लायक कोई सामग्री न हुई तो उसे भ्रम हो जाता है, इसने बहुत तो धर्मसाधना करी किन्तु यह स्थिति आज आ गई है। धर्म बेकार चीज है। धर्मसे तो कुछ लाभ नहीं होता, ऐसा भ्रम करते हैं और धर्मका कहीं कोई उपदेश कर रहा हो तो उसे भी दोष लगाकर उपदेशों को निरर्थक करने का यत्न करते हैं, सब ढोंग धतूरा बताते हैं। यह सब पर्यायव्यापोहका फल है।

भूलपर भूल॥होते भी हैं कोई मनुष्य ऐसे कि बहुत अधिक धर्म किया, जिसे कल्पनामें व्यवहार धर्म माना है और कोई घटना विरुद्ध घटी तो धर्मसे श्रद्धा भी हटा लेते हैं। जैसे आजकल चांदनपुरके महावीर जी प्रायः लोगोंके उपयोगमें इस तरहसे बसे हैं कि इनसे जो मांगो सो मिल जायगा, पुत्र मिल जायगा। अरे ये पुत्र तो लोगोंके होते ही रहते हैं। जो कभी उनसे पुत्र नहीं मांगते हैं क्या उनके पुत्र नहीं होते हैं? होते हैं। इसकी इच्छा थी, जल्दी पुत्र देखना चाहता था। महावीरजी का जाप जपा, समय आया, हो गया तो कुछ खुशी मानता है कि महावीर स्वामीने दिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह एकदम बीमार होने लगा, सूखाका रोग होने लगा, अब यह महावीरका जाप जपता है, महावीर तुम ही बचा लोगे। और कदाचित् मर जाय तो महावीर जी को जो कुछ कहना चाहे कह डालता है और धर्म से विमुख हो जाता है।

सर्वोत्कृष्ट वैभव परिणामोंकी संभाल॥अरे भाई सांसारिक ठाठ, सांसारिक विडम्बनाएं ये सब पुण्य पापके आधीन हैं। पुण्य और पापका कारण परिणाम है। अपने ही परिणामों से पुण्य होता है, अपने ही परिणामों से पाप होता है, परके द्वारा किए जाने से न पुण्य होता है और न पाप होता है। इस कारण अशुभपरिणामोंको छोड़ो और शुभपरिणामोंको करो, ऐसा करनेसे ही तुम्हारे पापोंका क्षय होगा और पुण्यका संचय होगा। भैया! सबसे बड़ा धन है अपने परिणाम संभाले रहना। परिणामोंकी संभालपर इस जीवनका भी सुख अपेक्षित है, निर्भर है और परलोकका भी सुख इस पर निर्भर है। कुछ भी स्थितियां आयें, अपने परिणामोंको न डिगाएं तो अवश्य ही उत्तम सिद्धि होगी।

संकटमें कर्तव्य पर एक दृष्टान्त॥जैसे कोई राजा अपनी सेनापर करोड़ों रुपयोंका खर्च कर रहा है इस आशासे कि मेरे राज्य पर दूसरा कोई शत्रु आक्रमण न करदे और कदाचित् दूसरे शत्रुने राज्य पर आक्रमण कर दिया तो क्या इस राजाको यह सोचना चाहिए कि मैंने सेना पर इतना खर्च किया था, इसलिए कि कोई शत्रु न सता सके, लेकिन शत्रुने हमला बोल ही दिया, तो अब इस समस्त सेनाको हठावो, इससे अब क्या प्रयोजन है? ऐसा कोई राजा सोचता है क्या? नहीं। बल्कि उस समय सैनिकों को, सेनापतिको और उत्साह दिलाता है, खूब खर्च भी करता है, उदारवृत्तिसे सबका मनोबल बढ़ाने व्यय करता है। इन उपायोंसे वे सैनिक उत्साहित होकर शत्रुका मुकाबला करते हैं और शत्रुपर विजय प्राप्त कर लेते हैं।

संकटमें कर्तव्य॥ऐसे ही हम आप लोग धर्म करते हैं। जिस भी प्रवृत्तिमें धर्म माना है। धर्म करते हुए उदयाधीन कुछ घटनाएं भी घट जाएं, दरिद्रता आ जाय, अपना ठौर भी मिट जाय, अन्य भी अनेक बाधाएं आ जाएं ऐसी स्थितिमें क्या हम लोगोंको यह सोचना चाहिए कि हे धर्म हमने तुम्हारा तो इसलिए पालन किया था कि मुझपर कोई संकट न आए। अब तो यह बड़ा संकट आ गया है, इससे अब तेरी छुट्टी कर रहा हूं। ऐ धर्म! तुम जावो जहां जाते हो, अब मैं तेरा मुख भी न देखूंगा। इस तरह कोई धर्मसे उपेक्षा करदे तो क्या वह विवेकी कहला सकता है, क्या वह अपना कार्य सफल कर सकता है? नहीं। उसका तो उस समय यह कर्तव्य है कि समस्त शक्ति लगाकर इस धर्मका ही पालन करे, यह धर्म यह सम्यग्ज्ञान अस्त्रके द्वारा उन रागादिक शत्रुओंको जीत लेगा। अपने परिणामोंकी निर्मलता बनावो, इसमें ही हम आपका कल्याण है, इससे समस्त अकल्याण दूर होंगे और हम अपना जन्म सफल कर लेंगे।

**कृत्वा धर्मविद्यातं विषयसुखान्युभवन्ति ये मोहात्।
आच्छद्य तस्मूलात् फलानि गृहणन्ति ते पापाः ॥२४॥**

मूढ़ताकी चेष्टा॥जो पुरुष मोहके आधीन होकर, धर्मका घात करके विषयसुखों को भोगते हैं वे पुरुष जड़से वृक्षोंको छेद करके फलोंको ग्रहण करनेकी तरह मूढ़ताका काम करते हैं। जैसे किसी पुरुषको फलोंकी तृष्णा हुई कि इन समस्त फलोंको एक साथ तोड़ लूं, सो इस तृष्णासे उसने पेड़ को जड़से काटकर गिरा दिया। अरे वृक्षको जड़से काट कर उन फलोंको भोगने को इससे भले ही वर्तमानमें कुछ फल मिल जाये, किन्तु भावी कालमें उन फलोंके मिलनेका अवसर तो नहीं रहा। यों ही पूर्वकृत पुण्यके उदयसे कुछ मिले हैं विषय साधन पुण्य सामग्री तो इस वैभवको पाकर, जो धर्मका घात करके, धर्मको मूलसे काट करके विषयसुखोंका अनुभवन करता है वह पुरुष फिर भावी कालमें किस दुर्गतिमें जायगा, वह बहुत कठिन बात होगी।

मोहमें शान्तिका लोप॥कोई क्रूर आशय वाला अथवा किसी भी आशयसे वृक्षके सारे फलोंको एक साथ ले जाना चाहता है तो फलको चाह रहा है यह बात तो ठीक है, पर रौद्रभाव है, इस कारण वृक्षको जड़से काटकर फलोंको बटोरना चाहता है। ऐसे ही यह व्यामोही पुरुष सुखको तो चाहता है यह बात तो भली है, दुःखको कोई नहीं चाहता, पर पापबुद्धि होने से धर्मका घात करके सुखको भोगता है कोई तो उसे भावी कालमें फिर सुखका अवसर तो नहीं मिला। जरा कुछ अपने आपकी ओर मुड़कर कुछ खुदसे वार्तालाप तो करो क्या करना चाहते हो इस जीवनसे जीकर? मान लो कोई मकान, दुकान बना डाले, खेतीका बड़ा सुन्दर सिस्टम बना लिया अथवा अन्य प्रकारसे कुछ अपने यश नेतागिरी का काम कर लिया, कुछ भी किया तो यह बतावो कि जब ये नाना बड़गम किये जा रहे हैं तब भी शान्ति रही क्या? भैया! न तब शान्ति रही और न बड़गमोंको करनेके बाद भी शान्तिका अवसर है।

विषयसमागमका फल विपदा ही है॥ मान लिया, बाल बच्चे हो गए तो या तो बालक कुपूत निकलेगा या सुपूत निकलेगा। यदि कुपूत निकल आया तो इसे रोना ही पड़ेगा। यह कमाई हुई सम्पदा कहां फेंकी जाय? हाय यह दूसरोंको देना ही पड़ेगा अथवा यह कुपूत बरबाद ही कर देगा और पुत्र सपूत हो जाय तो उसे कुपूतसे भी अधिक दुःख मिलेगा। कुपूत होने पर तो उससे रागद्वेष मोह नहीं रहता, उसके लिए भारी श्रम करने मरनेकी जरूरत नहीं पड़ती, पर कोई सपूत है, आज्ञाकारी है, बड़ा विनयशील है तो उसे निरखकर इस पिताके चित्तमें ऐसा आता है कि मैं चाहे कैसा ही कष्ट सहूं, मरूं, कुछ करूं, पर बच्चेको कभी किसी प्रकारकी असुविधा न हो। हमारी संतान खूब अच्छी तरहसे रहे, खायें पियें मौज करें, ऐसा सोच कर रात दिवस बड़ी बेचैनी करके इसे श्रम करना पड़ता है और फिर एक ही जगह रहते-रहते अनेक बार ऐसी बात उपस्थित होती है कि दूसरोंकी ओरसे प्रतिकूल पड़ ही जाती है तब इसे खेद होता है। मेरा सर्वस्व तो इन बच्चोंके लिए ही है ऐसा सोच-सोचकर रात-दिन दुःखी होते हैं।

दुःखमें बेहोश न होनेका विवेक॥ ऐसा संसारमें रहकर कहां सुखकी आशा करते हो? जो दुःख आ रहे हैं उन दुःखोंसे भी क्या घबड़ाते हो? यह तो कुछ भी दुःख नहीं हैं। तुम यहां रहोगे, बसोगे तो इससे भी अनन्त गुणे दुःख और भी मिलते हैं, मिले थे व मिलेंगे। इतने दुःखसे न घबड़ावो। जैसे बड़ी हानिकी सम्भावना होनेपर छोटी धन हानि हो जाय तो उसमें खेद नहीं माना जाता। कोई हजार रुपयेका नुकसान होना था, मगर १० रुपये का ही नुकसान हुआ तो इसमें कोई खेद नहीं मानता है। यों ही जानो कि पशु-पक्षी पर्यायके, नरकगतिके दीन दरिद्र भिखारी कुमानवोंके दुःख के सामने आपका यह दुःख कौनसा बड़ा है? उसमें क्या घबड़ाना? घबड़ावो दुष्ट परिणामोंसे। मेरेमें धर्मके विरुद्ध आत्मघातक परिणाम क्यों होता है, यह तो जन्मजन्मान्तरमें क्लेशका कारण है। दुष्टपरिणामसे घबड़ावो, दुःख से मत घबड़ावो।

दुःखकी अपेक्षा सुखकी भयावहता॥ ऐसा दुःख तो तुम्हारी एक सम्पदा है। जहां दुःख नहीं होता वहां से मोक्ष नहीं होता, पवित्रता नहीं प्रकट होती है। देवगतिमें दुःख नहीं है आर्थिक, शारीरिक, क्षुधा, तृष्णा आदि का। देवगतिसे किसीका निर्वाण हुआ हो, ऐसा भी न सुना होगा। भोग-भूमियाके मनुष्योंमें दुःख नहीं है। पतिपत्नी होते हैं, एक साथ मरते हैं। जिन्दगीभर खेलते-कूदते हैं, मिलकर रहते हैं, खाने कमाने का भी काम नहीं होता है। स्वयं ही ऐसे कल्पवृक्ष बने हुए रहते हैं, जो चाहे मांगो, तोड़ो, खावो। उनके अपने जीवनमें संतान भी नहीं होती है। संतानका होना भी एक बड़ा कष्ट है। संतान हुई तो कोई तो मरेगा ही पहिले। संतान पहिले मरे तो क्लेश, खुद मरे तो क्लेश। भोगभूमियामें सुख खूब सांसारिक है और इसी कारण वहां जीतेजी संतान नहीं रहती। जिस दिन मरनेको होता है उसही दिन संतान होती है। न संतान ने मां पिताको देखा और न मां पिता ने अपनी संतान को देखा तो फिर काहेका कष्ट? कष्ट तो दिल मिलेका है, कष्ट तो राग

और स्नेहका है। देवगतिमें भी कष्ट नहीं है। देवी देवताओं के भी बच्चे होते न सुना होगा। उनका वैक्रियिक शरीर होता है तो जहां विशेष दुःख नहीं, वहां मोक्ष भी नहीं।

दूरदर्शिता॥यह समागम क्लेशके लिए ही होता है। इससे अन्य कोई दूसरी बात है ही नहीं। भले ही चंद दिन जब तक बल है तब तक भले ही कुछ मौज मानलें, आखिर वह दशा सबकी होगी। ज्ञान न जगा तो रोना पड़ेगा। यह सबकी दशा आयेगी। इससे छूटेगा कोई नहीं। जिस जिसका भी संयोग हुआ है उस उसका वियोग नियमसे होगा। जब वियोग होगा तो यह जुदा रोवेगा, दूसरा जुदा रोवेगा, सबको पीड़ा होगी। इस कारण जब तक जीवन है, बुद्धि है, सामर्थ्य है तब तक ऐसा शुद्धपरिणाम बनावें कि मिली हुई चीजमें हर्षभाव ही न हो। ऐसा परिणाम न बनावो कि जो मुझे मिला है, सब कुछ मेरा सर्वस्व है, इसी से ही जीवन है। दूरदर्शी बनो, अन्तरङ्गमें इतना मोहित मत होओ कि अपना विवेक भी खो दो। बहुत कालकी बात सोचो। एक थोड़े से जीवनके लिए तो आप आगेकी बात सोचते हैं, हमारे इतना धन बन जाय कि ब्याजसे ही गुजारा चले, मूलधन जरा भी न खर्च हो। बहुत आगेकी बात सोचते हैं और इस जीवनके आगे भी मेरा क्या होगा? इस ओर कुछ नहीं सोचते हैं। इसे दूरदर्शिता न कहेंगे, इसे आसक्ति कहेंगे।

धर्मघातसे होने वाले अनर्थकी चेतावनी॥धर्मका घात करके जो विषयसुखोंको भोगता है वह भावीकालमें कहांसे सुख पायेगा? न जाने कैसी दुर्गति होगी? न जाने कहां पड़े होंगे? आज मनुष्य हैं, श्रावक कुलमें जन्मे हैं, सधर्मीजनोंमें बैठकर चर्चा भी करते हैं, धर्मपालन भी करते हैं, बड़ी सजग स्थिति है। बहुत दुर्लभतासे ऐसा अवसर पाया है। ज्ञान और वैराग्य से वासित ऋषिजनों की वाणी मिलना यह कितनी दुर्लभ बात है? यह भी हम आप सबको प्राप्त है। बहुत उत्कृष्ट अवसर है यह। यदि इस अवसरको अपनी सुध-बुध भूलकर, विषयसुखोंमें रमकर यों ही खो दिया तो कुछ अनुमान तो करो कि फिर होगा क्या अपना?

आसक्तिसे भावी संकट॥जिस वृक्षमें फल लगे हैं, उसे काटकर गिराकर फलोंको लिया तो उतने ही फल मिलेंगे, बल्कि गिराकर लेनेमें कम फल मिलेंगे और वृक्षको खड़ा रहने दो, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़े दिनके बाद में मिलेंगे तो भी उतने ही मिलेंगे, बल्कि सब मिलेंगे, पर वृक्षको काट डालने से आगामी कालमें फल मिलेंगे ही नहीं, सुनिर्णीत बात है। ऐसे ही पूर्व काल में जो हमने आपने धर्म किया है उस धर्मके फलमें ये समस्त सुख साधन मिले हैं। हम धर्मको भूलकर भोगोंको न भोगें। आत्माकी सुध रखते हुए भोग तो भोग लें, पर इतनी बात है कि धर्मका घात करके सुख भोगेंगे तो भावीकालमें ऐसी दुर्दशा होगी कि हम सुख भोगनेके काबिल न रहेंगे। प्रथम तो सुखासक्त पुरुष इस भवमें सुख भोगनेके अयोग्य हो जाता और फिर इस भवके बाद अगले भवमें तो वह इन्द्रिय आदिक साधनोंसे भी रहित हो जायेगा। एकेन्द्रिय, द्विइन्द्रिय जैसे निकृष्ट भवमें उत्पन्न हो जायेंगे तो सुखसाधनोंके योग्य ही नहीं रहेंगे। यहां यह बताया जा रहा है कि धर्मकी रक्षा करते

हुए सुख भोगेंगे तो भावी कालमें हमें उन्नतिका भी अवसर रहेगा और धर्मका घात करके सुख भोगेंगे तो भावी कालमें सुख भोगनेका भी कोई अवसर न मिलेगा।

धर्मविद्यात् व धर्मरक्षण करते हुए सुख भोगनेका अर्थ॥यहां यह प्रश्न कर सकते हैं कि धर्मघात करके सुख भोगनेका क्या अर्थ है और धर्मरक्षण करके सुख भोगनेका क्या अर्थ है? इनमें अन्तर है। अन्तर यह है कि वर्तमानमें अवसर धर्म पालनेका पाया है हम सबने। इस अवसरमें पापरूप रहें, अन्यायरूप बरतें, विषयोंकी तृष्णा करें, कषायके परिणाम तीव्र रखें और ऐसी प्रवृत्ति रखकर जीवन बनाकर मौज मानें तो इसे कहते हैं कि धर्मका घात करके सुख भोगा। कोई पुरुष धर्मके अवसरमें न अन्याय करें, न विषयोंमें आसक्त हों, पाये हुए सुगम विषयोंमें रहकर निर्दोष वर्तना हो, कषाय भी मन्द हों ऐसी चर्याके साथ जो किञ्चिन्मात्र विषयोंको भोगता है और जब-तब अपने आपके इस सत्यस्वरूपकी भी सुध लेते रहता है यह है धर्मकी रक्षा करते हुए सुख भोगनेका मतलब। भैया! इस जीवका सहायी मात्र धर्म है। धर्मके प्रति प्रकृत्या अब भी हम आप सबका भाव है। जैसे घर सभी बनाते हैं, पर अपना-अपना ही बनाते हैं। यदि मन्दिर, विद्यालय या अन्य धार्मिक कार्य सामने आ जाएं तो वहां सब लोग मिलकर उसकी व्यवस्था बनाते हैं। तो उसका अर्थ यही हुआ ना कि घरके कामसे भी बहुत विशेष धर्मका कार्य आप लोगोंने समझा।

धर्मके लिए सर्वस्वसमर्पण करनेका एक पौराणिक दृष्टान्त॥पूर्व पुराण पुरुषोंके भी ऐसे कथानक आते हैं कि धर्मपालनके हेतु अपने प्राण भी दे दिए, पर धर्मप्रभावना और धर्मपालनमें उन्होंने अपना संकल्प न छोड़ा। अकलंक और निकलंक का कथानक सुना होगा। इन दोनों बालक महापुरुषोंने एक हितकारी धर्मकी प्रभावनाके ध्येयसे घरको छोड़कर जगह-जगह कष्ट सहकर विद्यार्जन किया। दोनों ही कुशल बुद्धिके थे। एक बारके देखनेमें अकलंकको और दो बारके देखने से निकलंकको विद्या याद हो जाती थी। बानक जैसा बनना होता है वैसा ही योग जुड़ जाता है। स्याद्वादका पाठ गुरुजी बौद्धशालामें पढ़ा रहे थे। एक जगह अटक गए, कोई एक शब्दकी गलती थी। पुस्तक बन्द कर दी। गुरुजीने कहा कल पढ़ावेंगे। अकलंक निकलंक देवने अवसर पाकर उस शास्त्रकी गलती सुधार दी। वे तो विद्यार्थी ही थे। दूसरे दिन गुरुजीने जब सुधरा हुआ देखा तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। मालूम होता है कि इन विद्यार्थियोंमें कोई जैन भी है। अब उनका कैसे पता लगायें? कई उपाय किए। रात्रिमें अचानक ३ बजे बड़े जोरकी आवाजमें बर्तनोंको पटका, उसका शोर हुआ, घबड़ाकर सब लोग अपने-अपने इष्ट मन्त्रको जपने लगे। ऐसी अचानक स्थिति में कोई बनावट की बात नहीं कर सकता है। अकलंक निकलंक देव अपना परमेष्ठी मन्त्र जपने लगे। बस, गुरुने उन दोनोंको पकड़ लिया, और उन्हें जेलमें बन्द कर दिया।

अपूर्व धर्मप्रभावना प्रेम॥दोनों बालक महापुरुषोंकी विशुद्ध धारणा थी, देवताओंने सहायता की, पहरेदार सो गए, कपाट खुल गए। वे दोनों निकल गए, पर दिनमें ७-८ बजे बहुत बड़ी चर्चा

फैल गई। राजा ने नंगी तलवार लिए हुए चारों ओर सैनिक भेजे और कह दिया कि जहां भी वे दोनों बालक मिलें, उनका सिर काटकर ही लाना। अकलंक निकलंक चले जा रहे थे। पीछे अन्दाज कर लिया कि सैनिक नंगी तलवार लिए चले आ रहे हैं, मामला तो सब समझ ही रहे थे। वहां अकलंक निकलंकमें परस्पर इस बात पर विवाद हो गया कि हम ही मरेंगे, तुम जिन्दा रहो नहीं नहीं, तुम बुद्धिमान् हो, पहिले हमें ही मरने दो, तुम जिन्दा रहो और धर्मकी सेवा करो। निकलंक बोला कि भाई तुम जिन्दा रहो, तुम बुद्धिमान् हो, पहिले मुझे मर लेने दो। अपनी मृत्युके लिए उनमें विवाद हो गया। निकलंक अकलंकके पैर पकड़कर भिक्षा मांगता है, मेरे भाई मुझे मर जाने दो, मुझे भीख दो, तुम इस तालाबमें घुस जाओ। भला बताओ कि निकलंकका कितना बड़ा बलिदान था, जिस धर्मके हेतु महापुरुषोंने अपने प्राण दान भी किए, उस धर्मकी कितनी विशेष प्रीति होती है, इससे अन्दाज कर लो।

धर्म रुचि व अधर्मव्यामोहका फल॥भैया! जितना धर्मका पालन होगा, धर्ममें दृष्टि होगी, उतना तो आपका जीवन सफल है और जितना आपके लोभका पोषण होगा, मोहमें लगाव चलेगा, उतना ही आप अपना विधात समझिए। सुख भोगने पड़ रहे हैं, उदय है, सो भोगते हैं, पर उस भोगमें रति न लगाना। सुखका भोगना भी और दुःखका भोगना भी कर्मके उदयकी प्रेरणा है, अपने स्वभावको, अपने धर्मको तो स्वयं की रक्षा की दृष्टिसे ही लीजिए। पहिला प्रहार तो संसारी जीव पर मोहका है। गिने चुने परिजनों में अपना सर्वस्व समर्पण करनेकी भावना जगाना यही तो मोह है। उनके मुकाबले अन्य जीवोंके लिए अपने तन, मन, धन, वचनको लगाना अच्छा कर्तव्य है ऐसी दृष्टि भी नहीं जगती। इसे तो फिर विचित्र व्यामोह ही समझना चाहिए। ऐसे व्यामोहपूर्वक जो अपनी परिणति है, यह मोह बैरी का बहुत विकट आक्रमण है। जब तक भीतरसे मोह न हटेगा, तब तक शान्तिकी पात्रता भी न हो सकेगी। यह बात सबके लिए एक सुनिर्णीत है, गृहस्थ हो, चाहे साधु हो। गृहस्थ भी मोह रहते हुए सुखी नहीं रह सकता और साधु भी मोह रहते हुए सुखी नहीं रह सकता।

धर्मविधात न करने का अनुरोध॥भैया! यह आशंका न करो कि गृहस्थीमें रहते हैं तो मोह करना ही पड़ता हैं, मोह किए बिना तो गृहस्थी रह नहीं सकती ऐसी बात नहीं हैं। मोह कहते हैं अज्ञानको। यह दुःख भी एक प्रकारके अज्ञानसे प्रकट हुआ है। एक ऐसा ज्ञान बनाएं कि ये परिजन, ये वैभव सम्पदा, ये जड़ पदार्थ सब भिन्न अस्तित्व रखते हैं, मेरा भिन्न अस्तित्व है, मेरा स्वरूप मुझमें है। ऐसा जब अपना ज्ञान करना चाहें तो क्या कर नहीं सकते हैं? मोह नष्ट होने पर भी परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि घरमें रहना होता है, राग भी करना पड़ता है, तो राग किए बिना गृहस्थका चारा नहीं चलता, यह बात तो मानी जा सकती है, पर मोह किए बिना गुजारा नहीं चल सकता है, यह बात नहीं मानी जा सकती। ठीक मान लो तो आपको ज्ञान जग जाय,

न बचें परिजन, समागम तो भी क्लेश नहीं होगा । कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि घर छोड़कर त्यागी बनकर किसी परिस्थितिमें नहीं निभ सकता तो किन्हीं दृष्टियोंसे कुछ धर्मपालनका ठिकाना यहीं रहकर करना ठीक है ऐसी भी स्थितियां हुआ करती हैं । मोहको दूर करें, धर्मका घात करके सुख न भोगे । बस इसीसे ऐसा अवसर मिलेगा कि जिसमें हमारी धर्मसाधना चलती रहे ।

कर्तृत्वहेतुकर्तृत्वानुमतैः स्मरणचरणवचनेषु ।

यः सर्वथाभिगम्यः स कथं धर्मो न संग्राह्यः ॥२५॥

धर्मकी संग्राह्यता॥धर्मका जो परमार्थ स्वरूप है, वह यद्यपि अपने आपमें गूढ़वृत्तिसे अपने आपसे ही प्रकट होता है, फिर भी उस धर्मकी व्यक्ति योग्य श्रद्धान व आचरण करना, उसका कारण होना, उसका अनुमोदन करना इन सबसे परिज्ञान होता है । धर्म तो यदि एक रूप में बोला जाय तो समस्त विषय संकल्प विकल्पका जहां त्याग है और केवल शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा रहनेकी वृत्ति है उसे धर्म कहते हैं । विधिरूपसे तो अपने स्वरूपका स्वभाव परिणमन धर्म है और निषेधरूपसे इस परिणमनमें किसी भी परतत्त्वका सद्भाव नहीं है । ऐसा यह परभावोंसे विविक्त केवल अपने स्वभावरूप विकासका नाम धर्म है । यह धर्म जिससे बने उसका वह उत्कृष्ट पुरुषार्थ रूप है, फिर भी इसका लक्ष्य लेकर जिससे जितना आचरण बने, जिससे जितना मनन बने वह उतना करे, वह भी धर्म है ।

धर्मसंग्रहके लिये अनेक उपायोंका आश्रय॥जैसे धन कमानेके उपाय अनेक प्रकारके व्यापार हैं तो अनेक प्रकारसे लोग धनको संचित करते हैं । और न हों किसीके पास अनेक प्रकारके वे साधन तो जिससे जितना जो कुछ बनता है वह उतने साधनोंसे ही अपनी आजीविका करता है । यों ही जो बड़े बलिष्ठ आत्मज्ञानके धनी पुरुषार्थी पुरुष हैं, वे सर्वविषयों का परित्याग करके एक इस विशुद्ध धर्मको धारण करते हैं । न हों किसीमें इतने साधन योग्यता शक्ति संहनन तो वे भी अपनी शक्ति माफिक विषयोंका परित्याग करके धर्म करते हैं । विषय और कषायोंकी प्रवृत्तिको ही अधर्म कहते हैं । उनमें मूल अधर्मराज है मोह-मिथ्यात्व, जिसके मोह है उसके तो पाप ही पाप है, जिनके मोह नहीं रहा ऐसा गृहस्थ जितना विषयकषायोंका परित्याग करता है उतना वे धर्म पथमें चल रहे हैं और साधु सकल विषय कषायोंके परित्यागसे धर्मपथमें चल रहे हैं ।

धर्मसाधनाके उद्यम॥आत्माको शान्ति धर्मसे ही प्राप्त हो सकती है । विषयकषायोंमें शान्ति नहीं है । भले ही कुछ राग उठा, उस राग वेदनामें इसने रागको ही इलाज समझा और उस इलाजमें पहले हुए विशेष रागका दुःख कम हुआ तो मान लेते हैं कि मुझे शान्ति है । शान्ति तो विषयकषायोंके परित्यागमें ही है । विषयकषायोंका परित्याग तब तक यह जीव करनेमें समर्थ नहीं है जब तक शुद्ध ज्ञानस्वरूपका श्रद्धान न हो जाय । जब तक विशुद्ध धर्ममय स्वरूप प्रकट नहीं होता है । तब तक धर्म करनेके साधन जितने भी सम्भव हैं उन सब साधनोंसे धर्मवृत्ति करना चाहिए ।

मनसे धर्म करना, कराना, अनुमोदना करना, वचनसे धर्म करना, कराना, अनुमोदना करना और कायसे धर्म करना, कराना और अनुमोदना करना, याने व्यवहार साधन भी जितना बन सके, उसको भी परमार्थ धर्मकी रुचिपूर्वक करना चाहिए।

धर्मोत्साहका कर्तव्य हे आत्मन्। धर्म करनेमें तू कठिनाईका अनुभव न कर। धर्म जिस प्रकार भी बने, जिस साधनसे बने, जिस परिस्थितिसे बने उसही साधन परिस्थितिसे धर्म करना प्रारम्भ करो। जैसे कोई मनुष्य चाहे कि मैं इतना धनिक हो जाऊँ तो मैं आरामसे फिर धर्म कर सकूँगा, धर्म करनेमें धनिक होनेकी अटक नहीं पड़ी है। जो मनुष्य जिस परिस्थितिमें हों उस परिस्थितिमें ही अपनी उदारता रखकर, अपनी सुविधा रखकर धर्म कर सकते हैं। धर्म धन खर्चके अनुपात पर नहीं है। ऐसे ही व्यवहार धर्म भी भावोंके अनुसार अपनी शक्ति माफिक तन, मन, धन, वचनका सदुपयोग करने से होता है धर्ममें कठिनता बताकर निरुद्यमी होना ठीक नहीं है। जैसे निरुद्यमी पुरुष दरिद्री होकर दुःख ही पायगा, ऐसे ही धर्मको कठिन जानकर उसकी चर्चा से भी अलग रहकर उसकी मन, वचन, कायसे किसी भी प्रकार आस्था न रखकर दूर रहे तो वह पुण्यहीन होकर नरकादिक गतियोंमें ही दुःख भोगेगा। इस कारण हम सबको धर्मका संग्रह करना ही योग्य है।

धर्मवासना अनेक कथाएं ऐसी सुनी होंगी। कोई पुरुष कहीं जा रहा है, थोड़ासा ही भोजन साथमें है, पर कोई भूखा, कष्टमें पड़ा हुआ मनुष्य या कोई ऐसा ही दयनीय अन्य जीव मिले तो उसमें से अपने भोजन को चाहे कम करलें, पर दूसरोंको दें तो दया भाव होनेके कारण वह भी इतना बंध कर सकता है जितना कि कोई हजारों रुपया भी व्यय करके चाहे न कर सके। यह सब परिणामोंके आधीन बात है। धर्मका सम्बन्ध भावोंसे है। हां, भावोंके होने पर बाह्यमें उसकी योग्यताके अनुसार धन खर्च हो ही जाता है, वह उसका अनुमापक है। न हो खर्च तो धर्मभावका अनुमान नहीं हो सकता है।

धर्मपालनमें सामर्थ्यको न छिपाएं जैसे लोग यों कह देते हैं कि आहार दानका करने वाला भी जितना पुण्य लेता है उतना ही पुण्य आहार दानकी अनुमोदना करने वाला भी लेता है। बात यद्यपि ठीक है, लेकिन आहार दान देनेके जो योग्य नहीं है वह आहारदानकी अनुमोदना करके उतना पुण्य लेता है। कोई समर्थ होकर, मनुष्य होकर और यह श्रद्धा बनाए कि देना और अनुमोदना दोनोंका बराबर ही पुण्य है सो हम तो अनुमोदना के पुण्यका बंध करेंगे, देने का कष्ट क्यों किया जाय? लेकिन जो पशु-पक्षी आहारदान देनेके योग्य ही नहीं हैं, उनके अनुमोदनामें विशेष पुण्य बंध होता है। जो समर्थ है और वह न कर सके तो उसका यह फलित अर्थ बनता है कि वह भाव नहीं है। ऐसे ही अपनी शक्ति और वर्तमान परिस्थितिमें धर्मको न करें और कोई बहाना ऐसा रखें कि जब हमारी स्थिति ठीक होगी, तो हम धर्म करेंगे, तो ऐसा पुरुष धर्म नहीं कर सकता है। धर्म

करनेके लिए विवेक चाहिए और आस्था चाहिए। धर्मका आश्रय लिए बिना यह मनुष्य जगह-जगह कष्ट ही भोगता है। जिस पुरुषमें धर्मकी आस्था है उस पुरुषका ऐसा व्यवहार होता है जो स्वयंको भी और दूसरोंको भी सुखी कर सकता है। जिनमें धर्मबुद्धि नहीं है उनके ऐसा व्यवहार बनता है कि स्वयं भी दुःखी हो जायेंगे और दूसरोंके भी दुःखी होनेमें कारण बनेंगे। इसी बातको अब इस छंदमें बता रहे हैं।

धर्मो वसेन्मनसि यावदलं स तावात्, हन्तर न हन्तुरपि पश्य गतेऽथ तस्मिन्।

दृष्टा परस्परदृतिर्जनकात्मजानां रक्षा ततोऽस्य जगतः खलु धर्म एव ॥२६॥

धर्ममें उदारता॥जब तक मनमें धर्म बसता है तब तक इतनी शुद्ध वृत्ति रहती है कि यह जीव अपना घात करने वालोंका भी घात नहीं करता है और जब धर्म चित्त से चला जाता है तो पिता व पुत्र में भी परस्पर एक-दूसरे की घात किया देखी जाती है। अतः प्रगट ही जगत की रक्षा धर्म ही है।

बड़े-बड़े सुभट जब समय पाकर विरक्त हुए, निर्गन्थ स्थितिमें शेरोंने, स्यालिनियोंने, शत्रुवोंने उन्हें सताया, उनका प्राणघात किया। उनमें इतनी सामर्थ्य थी कि मारने को आये हुए जीवकी पूरी तरहसे खबर ले सकते थे, किन्तु उन्होंने विकल्प करना इतना अधर्म समझा कि वे विकल्प भी करने के प्रमादी रहे और निर्विकल्प इस ज्ञानप्रकाशकी साधनामें ही रुचिवान् हुए। अरे विकल्प करके एक भवका जीवन बचाया तो उससे क्या पूरा पड़ेगा? आखिर जन्म मरणकी परम्परा तो न मिटेगी। ऐसा ध्यान उन साधुवोंके रहा और मारने वालोंको भी वे क्षमा करते रहे। यही तो है साधुवृत्ति किन्तु गृहस्थामें भी जितने तक आजीविका व न्याययुक्त विचार और धर्म साधनामें बाधा नहीं आती है तहां तक अपराध करने वाले दूसरे मनुष्योंको यह ज्ञानी गृहस्थ भी क्षमा कर जाता है। हां, जब अपने आपके जीवन पर कोई बाधा आती है उस स्थितिमें अपने आपको रक्षित करनेके लिए प्रत्याक्रमण भी कर लेता है। फिर भी ज्ञानी गृहस्थके चित्तमें दूसरे जीवोंके प्रतिअंतरङ्गसे द्वेष भाव नहीं होता है।

धर्मसे स्व व पर दोनों की रक्षा॥जिसके चित्तमें धर्म बस रहा है जब तक, तब तक अपने मारने वालोंका भी यह मारने वाला नहीं होता है और जब धर्म नहीं रहा चित्तमें तो पिता पुत्रका, पुत्र पिताका परस्पर घात करते हुए देखे और सुने जाते हैं। इस जगतकी रक्षा धर्मसे ही होती है। कानूनों से प्रजामें सुख साम्राज्य फैलाना कठिन बात है और धर्मबुद्धि होने पर व्यवस्था योग्य बन जाना यह बड़ी सुगम बात है। बहुत समय पहिले जैसे कि सुना जाता है और वृद्ध पुरुषोंने देखा है धर्मकी बड़ी आस्था लोगोंमें थी। किसी मनुष्य को कोई मार डाले या घायल करदे तो बड़ी सनसनी फैल जाती थी। ऐसा कैसे हो गया? लोग साहस नहीं करते थे कि हम किसी मनुष्यका घात करें। वह सब व्यवस्था धर्मके कारण थी। अन्याय न होता था, किसी पर कोई झूठा अपराध

न लगाता था, झूठी गवाही कोई न देता था, कोई किसीका माल न हड़पता था, शील धारण करना ये सब बातें धर्मबुद्धिसे अपने आप चलती थीं।

व्यवस्थामें धर्मभावका सहयोग॥कानून सुव्यवस्था व शान्ति नहीं बना सकता है, कानून जीवोंकी रक्षा नहीं कर सकता है। यद्यपि बनते हैं कानून सब, पर वे धर्मका संकेत करने वाले नहीं हैं। धर्मबुद्धि व्यापक हो जाय प्रजामें तो यह सब व्यवस्था बनती है। जैसे आज लोग चिल्ला रहे हैं, कि भ्रष्टाचार बंद हो, ब्लैक व्यवहार बंद हो, बहुत-बहुत प्रकारकी शक्तियां और कानून भी बनते हैं किन्तु सफलता यों नहीं मिलती कि धार्मिक स्तर जब गिर गया है, धार्मिकता लोगोंमें नहीं रही है, ऐसी स्थितिमें सभी यह चाहते हैं कि जिस प्रकार भी हो सके धन जोड़े। लेकिन परिणाम उसका कटु निकलता है, परिणाम भी खोटा दिखता जाता है और फिर भी अन्याय-वृत्तिसे चित्त निवृत्त नहीं हो पाता है। यह सब अधर्मका एक नग्न-नृत्य है।

धार्मिक वातावरणमें पवित्रता और रक्षा॥इस जगत्की रक्षा धर्मके प्रसाद बिना नहीं हो सकती है। धर्मबुद्धि हो तो कोई किसीको कैसे मारे? पहिले समयमें शिकार और हिंसाका कसाईखानों का कुछ प्रचार न था। कदाचित् कोई किसी पशुको मारे तो सभी लोग उसे एक निंद्य दृष्टिसे देखते थे। इसका तुच्छ विचार है, इसका तुच्छ काम है। लोग मांसका नाम भी न लेते थे। किसीके बारेमें बताना हो तो यों कहते थे कि अरे उसे क्या बताएं वह तो मिट्टी खाता है। इतना धार्मिकताका प्रसार था। उस समयके सुखको निरखिये और आज जब कि मनुष्य दूसरे मनुष्योंके प्राणोंका भी मूल्य नहीं रखते हैं, थोड़े से पैसोंपर भी लोग हत्या करते पाये जाते हैं, ऐसी स्थितिमें सुखसाम्राज्यकी क्या आशा करें? सुखसाम्राज्य तो सब धर्मका प्रसाद है। धर्मका आदर रहेगा तो सुख शान्ति रहेगी।

धर्मकी अनास्थामें सुख शान्तिका अभाव॥यदि धर्मकी आस्था उठ जायेगी तो सुख शान्ति रह नहीं सकती। धर्म न होगा तो जो बलवान् होगा वह निर्बलको मारकर खायेगा और उससे अधिक बलवान् होगा तो वह उसे मारकर खा जायगा। आजकल कोई समाचार ऐसे भी मिलते हैं कि कोई ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो कोई बालकों को लेकर भगा ले जाते और उन्हें मारते हैं, उसका मांस खाते हैं। इनका नाम पड़ा है लकड़भग्गा। इतनी बात अभी तक न होती थी, किन्तु अब किन्हीं किन्हीं शहरोंमें इतना तक भी होने लगा है। धर्मकी बातको क्या कहा जाय? ऐसी स्थितिमें सुख की आशा कैसे की जा सकती है?

धर्म और अधर्मका संविदित फल॥धर्म ही इस जगत्की रक्षा कर सकता है, और धर्ममें तो ऐसा स्वभाव ही पड़ा है कि इस जगत्को शान्ति दे, संतोषमें रखे। कुछ करके ही देखलो। अनुभव करलो खुद ही समझलो कि धर्म हमारी कितनी रक्षा करता है, परिवारजनोंमें जो मोह लगाये हुए हैं वह अधर्म है। उस मोहका फल भी आप अनुभवसे विचार लो कि मोह करते हुएमें हमें

कितना मानसिक श्रम करना पड़ता है, कितनी दीनताका भाव आ जाता है, दूसरोंसे कितनी दयनीयता भरे वचन बोलने पड़ते हैं। दूसरे मुझ पर प्रसन्न रहें इस आशामें कितना अपना प्राणघात करना पड़ता हैं, ज्ञानघात करना पड़ता है, उसे भी समझलो।

धार्मिक आशयमें ही आत्महितका विकास॥भैया! जब ऐसा उत्साह जगे ज्ञान बलसे या प्रभुकी शुद्ध शान्तमयी मूर्ति निरखकर या किसी साधु सत्संगमें किसी भी समय जब यह उत्साह जगता है कि संसारमें कहीं भी सुख नहीं है, केवल एक अपने आत्माको अकेले अपने स्वरूपमें देखा जाय तो शान्ति तो यहां ही भरी है। किसका कौन है, मेरा तो मात्र मैं ही हूँ ऐसा जब धर्मस्वरूप निजआत्मतत्त्वका आदर कर लिया जाता है उस समयकी शान्तिका भी आप अनुभव कर सकते होंगे कि कैसी अद्भुत शान्ति है? शान्ति धर्म बिना प्राप्त नहीं हो सकती, इस कारण एक ही अपना निर्णय बनावो, जितना भी अपना झुकाव हो सके वह धर्मकी ओर ही करना है। धर्म करनेका अपने जीवनका लक्ष्य रखें, परिजन और धनसंचय का लक्ष्य न बनाएं। ये करने पड़ते हैं, पर भीतरमें तो यह निर्णय न रखें कि ‘मेरा जीवन तो मेरे कुटुम्बियोंके लिए ही है, ये कुटुम्बी ही मेरे सर्वस्व हैं, मेरा सारा तन, मन, धन, वचन सब कुछ इनके ही लिए है, और जीवोंमें आत्मीयता का भाव ही न आए’ ऐसा अपने जीवनका आशय नहीं बनाना है। यह राग क्लेश करने वाला है।

रागके मन्दानुभवका एक मनोनुकूल उपाय॥परिजनोंमें जो राग बन रहा है उस रागको मिटाना है तो इस रागको सब जीवोंमें फैला दो। यह राग जब दो एक प्राणियोंमें ही रहता है जिन्हें अपना पुत्र स्त्री आदि जो भी माना है तो यह राग वेदना मचाता है। इस रागको जरा सब मानवों में फैला दो, सबके प्रति थोड़ी आत्मीयताकी दृष्टि लावो। सब व्यवहारदृष्टि से कहा जा रहा है तो आप देखिये कि वह राग फैलकर उतना बाधक न बनेगा जितना दो एक प्राणियोंमें राग करनेसे होता है। जीवोंके शुद्ध चैतन्यस्वरूप पर भी दृष्टिपात करें। सब जीव एक समान हैं, कुछ अन्तर है क्या? घरमें बसे हुए जीव अथवा पड़ौसमें रहने वाले जीव या जो अपने ग्राम नगरके नहीं हैं, बाहरके आये हुए जीव या जो भी समझमें आ रहे हैं उन सब जीवोंका एक ही तो स्वरूप है और मुझसे वे सभी भिन्न हैं और मेरे ही समान सबका स्वरूप है। जब ऐसी बात है तब इन जीवोंमें से केवल दो एक पुरुषोंका ही छांट लेना और उनमें ही अपना सर्वस्व सौंपना यह तो एक अज्ञानका अंधकार है, उन्नतिका मार्ग नहीं है। उन्नति तो जितना अपने आपके कैवल्यकी ओर आएं, उतनी ही उन्नति है।

धर्मसाधन के कर्तव्यका स्मरण॥भैया! जब तक चित्तमें धर्म बसता है तब तक तो सुख शान्ति है, धर्म अपने आपसे हटा तो क्लेश ही क्लेश हैं। लड़ाई, विवाद, ईर्ष्या, घृणा, दूसरोंसे बदला लेनेका भाव, दूसरोंको बुरा करनेका विचार ये सारी गंदगियाँ जिस हृदयमें होती हैं वह मनुष्य क्या सुख शान्तिसे रह पाता है? उसे चैन नहीं है, तभी वह कुकर्मकी ओर चलता है, उन सब

दुष्परिणामोंका परित्याग करके एक धर्मका आश्रय करें तो जीवन बहुत सुख शान्तिमें व्यतीत होता है। हम अपनी पायी शक्तिके माफिक धर्मकार्यमें लगें और जो ६ कर्तव्य रोजके बताये हैं, भगवान्‌का भजन, गुरुवाँकी सेवा, स्वाध्याय करना, अपने संयमसे रहना, अपनी इच्छावाँका दमन करना और दान करना। ये ६ कर्तव्य जो बताये गए हैं उनको शक्तिमाफिक करनेमें लगे रहें, प्रमाद न करें और धर्मका उत्तम विकास पाने का भी अवसर पायें।

**न सुखानुभवात्पापं पापं तद्वेतुधातकारम्भात् ।
नाजीर्ण मिष्टान्नान्नु तन्मात्राद्यतिक्रमणात् ॥२७॥**

धर्मविधात न करके सुखानुभवका उपदेश॥पूर्व प्रसंगमें यह बताया गया था कि जो प्राणी मोहसे धर्मका विधात करके विषय सुखोंको अनुभवते हैं, वे पापिष्ठ होते हुए मानों वृक्षको जड़से उखाड़कर फलोंको ग्रहण करने की तरह व्यामोह करते हैं। इसमें यह प्रकाश डाला गया था कि विषयसुख भोगने पड़ते हैं किसी भी स्थितिमें, फिर भी धर्मका विधात करके न भोगना चाहिए। धर्म है आत्माके शुद्ध ज्ञान स्वभावसे विपरीत वृत्ति न होना। ऐसा भी कोई बल होता है कि सुखके भोगनेके कालमें भी सुखमें दृष्टि नहीं, सुखका आलम्बन नहीं और दृष्टि एवं आलम्बन निज ज्ञायकस्वरूपका हो। यह ज्ञान और वैराग्यके विशेष बलकी बात है। कोई स्वच्छन्द पुरुष आध्यात्मिक ऐसी मार्मिक चर्चा सुनकर अपने आपमें भी सहसा यह प्रमाद बना ले कि शास्त्रोंमें तो लिखा है कि सुखका अनुभव करते हुए भी यदि धर्मका घात नहीं होता है तो उससे पापका बंध नहीं है, किन्तु वह बल, वह ज्ञान, वह प्रकाश कैसा अद्भुत होता है कि जो सुख भोगनेके कालमें भी वर्तमान सुखसे भी निवृत्त रहता है, इस ओर भी तो ध्यान दीजिये।

ज्ञानीके अन्तरमें भोगका अभाव॥भोग होते हैं तीन प्रकारके अतीत, अनागत और वर्तमान। जो पूर्वकालमें भोग भोगे जा चुके हैं उनका स्मरण करके उनसे लगाव रखना यह है अतीत भोगोंका भोगना और आगामी कालमें अमुक-अमुक भोगोंकी प्राप्ति होना, इस प्रकारकी वाञ्छा बनाना, यह है अनागत भोगोंका भोगना और वर्तमान कालमें जो भोग भोगे जा रहे हैं, अपनी सुध-बुध भूल करके, उन भोगोंमें रमना यही है वर्तमान भोगोंका भोगना। उस ज्ञानी की कितनी पवित्र परिणति है? जिसे न अतीत भोगोंका भोगना बन रहा है, न अनागत भोगोंका भोगना बन रहा है और जो वर्तमान भोगोंको भी वियोगबुद्धिसे भोग रहा हो ऐसे ज्ञानीकी यह चर्चा है कि सुखके अनुभवसे पाप नहीं होता है।

धर्मकी सुखहेतुताका अभाव॥सुखका कारणभूत जो धर्म है, उस धर्मके घात करने वाले जो कार्य हैं उनके आरम्भसे पाप होता है। यह प्रकरण एक सर्वसाधारण रीतिसे प्रतिपादनका है। यहां सुखका कारण धर्मको बताया जा रहा है। उसका अर्थ यह लेना कि धर्मका साक्षात् फल तो आनन्द है और धर्मभावमें रहते हुए जो बना रहता है शुभअनुराग, उससे विशिष्ट पुण्यका बंध होता है,

उसके फल में इन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। वह सुख भी धर्मके सद्भावमें रहने वाले रागके फल में हुए पुण्य बंध से प्राप्त हुआ है। अतएव उपचारसे इन वैषयिक सुखोंको भी धर्मका फल कहा है। साधक की दृष्टि धर्मकी ओर रहती है, फिर होता क्या है, अंतरङ्गमें? जैसी वृत्ति हो उसके अनुसार फल मिलता है। तत्त्वज्ञानी पुरुषके प्राक् पदवीमें और भी बातें होती हैं, पर दृष्टि साधककी एक धर्मकी ही और होती है। जैसी दृष्टि होती है उसके ही अनुसार अनुभव चलता है।

फलानुभवकी दृष्टयनुसारिता॥कोई गृहस्थ घरमें रहकर भी विरक्त चित्त है, वस्तुस्वरूपके ज्ञानका उपयोग भी चल रहा है, मोह भाव नहीं हैं, यथार्थ निर्णय है, वह घरमें रहता हुआ भी संवर निर्जरा कर रहा है। कोई पुरुष बाह्यमें सर्व त्याग करके भी यदि उसकी दृष्टि पर्यायमें अटकी है, कल्पना रागद्वेषमें अटकी है और की तो बात क्या, मैं त्यागी हूं, साधु हूं इस प्रकार साधुत्व पर्यायमें भी जिसकी दृष्टि अटकी है वह पर्यायोंका पोषण कर रहा है, उसे संवर और निर्जरा का अवसर नहीं हो रहा है। जैसी दृष्टि होती है उसके अनुसार अनुभव जगता है। अभी आप कमरेसे उठकर किसी बहुत आवश्यकीय विशिष्ट कार्यके प्रयोजनसे बाहर जायें और दरवाजा छोटा होने के कारण आपके सिरमें कोई दीवार या काठ थोड़ा लग जाय, खून भी आ जाय तो चूंकि आपकी दृष्टि किसी कल्पित महत्वपूर्ण कार्यपर है, अतएव उस समय आप सिरमें लगी हुई बातको भी अनुभव नहीं लेते हैं। जब किसी ऐसे इष्टका वियोग हो जाता है जो कल्पनामें परम अभीष्ट हो उसपर दृष्टि होने पर यद्यपि खाना भी पड़ता है। रिश्तेदार लोग जबरदस्ती हाथ पकड़कर साथ खानेको बैठाल लेते हैं, खाना भी है, भूख लगी है, खाना भी पड़ता है, पर उसका अनुभव उस इष्टके विषयमें है, वहां ही उपयोग लगा हुआ है, दृष्टिके अनुसार अपने आपमें अनुभवन चलता है।

दृष्टिकी उत्कृष्टताका कर्तव्य॥हम आप सब किसी भी पदवीमें हों, दृष्टि हमेशा होनी चाहिए उत्कृष्ट। वस्तुस्वरूपका यथार्थ निर्णय होना चाहिए चाहे श्रावक अवस्थामें हों और चाहे साधु अवस्थामें हों। ज्ञानका काम जानन है, वह जानन सबके जाननरूपसे ही होगा। सम्यग्ज्ञानमें मोक्षमार्ग के प्रयोजनभूत तत्त्वोंमें सम्यग्ज्ञानकी पद्धतिसे साधु और श्रावकमें भेद नहीं होता है। हम पूर्ण निर्णय यह रखें कि मैं आत्मा जगत्‌के समस्त अन्य पदार्थोंसे और अपने आपपर उपाधिवश आयी हुई दशावोंसे, रागद्वेष कल्पनाजालोंसे सबसे विविक्त केवल ज्ञायकस्वरूप मात्र हूं, ऐसी भावना बारबार बने तो कभी विकल्पोंको तोड़कर, स्वविश्राममें आकर अपना अनुभव भी पा सकते हैं। हम आप किसी भी कार्यमें वासना और भावना के सिवाय और क्या किया करते हैं धर्मकार्यके लिए भी हम आप भावना बनाएं, यहां तक ही हम आपका कार्य है किसी परवस्तुमें मैं कुछ कर दूं किसी पर वस्तुको भोग लूं ऐसा इस आत्माका कर्तव्य नहीं बनता।

आत्माके परमार्थतः परके भोक्तृत्वका अभाव॥यह जीव जब किसी रसका भी स्वाद रहा है तो परमार्थतः वह पौद्गतिक रसको स्वाद नहीं सकता, किन्तु रसना इन्द्रियके निमित्तसे जाननेकी

एक विधि है कि अब अमुक रसका परिज्ञान हुआ, अब अमुक रसका परिज्ञान हुआ। सो यहां तो रसज्ञान किया और जीवमें बसी हुई है रागवासना, सो राग वासनासे इसने उसे सुहावना अनुभवा और उसमें रमण करने लगा। ऐसी स्थितिमें भी इस जीवने रसविषयक ज्ञानमें ही अपनी वृत्ति की है, उसमें ही रमण किया हैं, उसे ही जाना है। उसका विषयभूत है रस। रसकी ओर है इस मोहीकी दृष्टि, सो ज्ञानको तो छोड़ देता है अपने उपयोगके ग्रहणमें, ज्ञानके विषयभूत रसको पकड़ लेता है। उपयोगमें भी ऐसा अनुभव कर लेता है कि मैं अमुक पदार्थका स्वाद लेता हूँ।

आत्मस्वातन्त्र्यका भान॥यह जीव केवल एक अपने आपका ही परिणमन करता है। किसी परजीवका, किसी परपदार्थका परिणमन करना वस्तुस्वरूपके कारण अशक्य है। जब तक अपने सहजस्वरूपका भान न करेंगे तब तक हम शान्तिके मार्गमें आगे न बढ़ेंगे। हमारे जितने भी देवपूजा स्वाध्याय गुरुसेवा आदिक साधन हैं वे सब साधन इसकी शिक्षाके लिए हैं, इसे अपना स्मरण कराने के लिए हैं। हे आत्मन्! तू अपने सत्त्व से परिपूर्ण है। प्रत्येक पदार्थ स्वयं सत् है, उसमें उनके द्रव्यत्वगुणके कारण निरन्तर परिणमन चलता रहता है। भले ही पदार्थका विभाव परिणमन पर पदार्थोंका निमित्त पाकर हुआ, स्वरसतः नहीं हुआ। इतने पर भी पदार्थ जो विभावरूप परिणमा है, वह अपनी ही पर्याययोग्यतासे अपनेमें परिणमा है, किसी दूसरे पदार्थको ग्रहण करके नहीं परिणमा है। अपनी स्वतन्त्रता का भान करें, इस स्वतन्त्रताकी आस्था करके जिसने अपने आपका परिचय किया, अनुभव किया वे पुराणपुरुष इस संसारके संकटोंसे मुक्त होकर परम निराकुल दशामें विराज रहे हैं।

वैष्णविका सुखरुचिका अकर्तव्य॥इस छंदमें यह बता रहे हैं एक साधारण उपदेश से कि सुखके अनुभवसे पाप नहीं होता। पाप होता है सुख के कारणभूत धर्मके घातक कार्य करनेसे। इसमें यह दृष्टान्त दिया है कि मिष्ट अन्न खानेसे अजीर्ण नहीं होता है, किन्तु उसकी मात्राका उल्लंघन करने से अर्थात् आसक्त होकर मिष्टान्नको बहुत खा जानेसे अजीर्ण होता है। इस कथनमें इस ओर रुचि नहीं रखना है कि विषयसुखका अनुभव करें, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ऐसी रुचि रखने वालोंके तो यह बात स्पष्ट ही है कि उसे धर्मकी रुचि नहीं है, विभावोंकी रुचि है। विभावोंके रुचिया को धर्मात्मा नहीं कहते हैं।

प्रवृत्तिसे विरक्ति॥मैया! कैसी स्थितियां होती हैं कि जिनमें प्रवृत्ति करनी पड़ती है, फिर भी ज्ञानी के प्रवृत्तिसे लगाव नहीं बन रहा है। इस बातको समझनेके लिए उस कैदी की स्थिति पर दृष्टि डालें, जो कैदी सिपाहियोंके द्वारा ताङ्गित होकर चक्की भी पीस रहा हो, अन्य काम भी कर रहा हो पर उस कैदीका कामके करनेमें रंच भी लगाव नहीं है। कितना परेशान होकर उसे कार्य करना पड़ता है और घरकी महिलाएं रुचिपूर्वक उन सब कामोंको करती हैं, पर उस कैदीकी स्थिति अन्तरङ्गकी देखो। दृष्टान्तसे इतना ही भाव लेना है कि भवितव्यतासे, कर्मोदयकी प्रेरणा से समझिये,

अर्थात् किसी परिस्थितिवश इस ज्ञानी जीवको जैसे कभी दुःख भोगना पड़ता है, कभी सुख भी भोगना पड़ता है। वह न तो दुःखमें अधीर होता है और न सुखमें हर्ष मानता है।

ज्ञानीके दुःख भोगमें भी अधीरताका अभाव॥ज्ञानी दुःख भोगनेके समयमें भी अधीर नहीं होता है। ऐसा समझता है कि यह दुःख है, मेरा स्वरूप नहीं है, दुःख आये हैं मिटेंगे, इनमें क्या अधीर होना और दुःख भी क्या है जब किन्हीं बाह्यपदार्थोंमें दृष्टि देते हैं, कल्पना जगती है तो वह दुःखरूप मालूम होता है। दुःख क्या है? आत्मा आत्मामें परिणमता है, बाह्य पदार्थ बाह्यमें परिणमते हैं, पर जब यह आत्मा बाह्य पदार्थोंके सम्बन्ध में कुछ अपनी दृष्टि देता है, अपना गुन्तारा लगाता है तो अपनी ही कल्पनाएं करके अपने आपमें दुःखी होता रहता है। ज्ञानी पुरुष दुःखमें घबड़ता नहीं है। उसे तो ये जन्म-मरण, ये बाह्यदृष्टि ये ही उसे संकट जंच रहे हैं और इन संकटोंसे मुक्त होने के प्रोग्राममें लग रहा है धनकी कमी हो, परिजनका वियोग हो इस तुच्छ घटनाकी ओर कौन दृष्टि दे? यह क्या दुःख है? ज्ञानीपुरुष दुःखोंमें घबड़ता नहीं है।

ज्ञानीके सुखमें आसक्तिका अभाव॥ज्ञानी पुरुषके स्वभाव से ही सुखमें आसक्ति नहीं होती है। सुखके विषयमें भी यही समझते हैं कि यह भी एक नाटक है, उदयका भोग है, परिणम है, निकलेगा, इस प्रकारकी अद्भुत शक्ति ज्ञानीके होती है। सुखकी रुचि होना अच्छी बात नहीं है। सुखके रूपमें मुग्ध न होइये। सुखसे हटकर आनन्दको देखियेगा। सुख कहते हैं जो इन्द्रिय को सुहावना लगे और आनन्द कहते हैं उसे जहां आत्मामें सर्व ओरसे समृद्धि उत्पन्न हो। आनन्दमें निराकुलता है, सुखमें आकुलता है। कोई-सा भी सुख निरखिये, कोई भी सुख आप आकुलताके बिना भोग नहीं सकते हैं। धनसे भी लोग सुख मानते हैं, पर धनके प्रसंगमें भी आकुलतापूर्वक ही उसका सुख भोगा जाता है। जहां तृष्णा लगी है वहां तो यह जीव वर्तमान भोगों को भी आरामसे नहीं भोग पाता। विह्वलतासे ही धनका सुख भोगा जाता है। सुख तो कल्पनाका है।

मन, काम और जीभके विषयसुखमें आकुलतायें॥यश प्रतिष्ठा आदिक मनका भी सुख आकुलतासे भोगा जाता है। बात बातमें जहां थोड़ी भी यशमें कमी हुई वहां खेद होता है, और यशकी इच्छा होती है। उसमें भी बड़ी विह्वलता होती है। पञ्चेन्द्रियके भी सुख देख लीजिए। स्पर्शन इन्द्रियका सुख, कामविषयक सुख शान्तमुद्रासे कौन भोगता है? विह्वल होकर गुप्त होकर, कितनी ही तरहकी अपनी कल्पनाएं बनाकर कामविषयको भोगता है यह जीव। भोजनका सुख भी देख लीजिए कितनी आकुलतावोंसे प्राप्त होता है, कितना कष्टसाध्य है यह? भोजनका साधन जुटाना या जोड़ना चीजें इकट्ठी करना, भोजन खाते समयका भी दृश्य देख लीजिए। क्या कोई शान्तिपूर्वक भोजन करता है या भीतरमें कुछ आकुलता होती है? उसकी प्रेरणासे भोजन करता है। किसी ग्रासको चबा रहे हैं, किसीको हाथमें लिए हैं और तीसरे ग्रासकी कल्पना उठ रही है।

घाण, चक्षु व कर्ण इन्द्रियके विषयसुखमें आकुलतायें॥ऐसे ही ग्राणेन्द्रियका विषय ले

लीजिए, इसमें भी कितना अन्तःखेद उत्पन्न होता है। जब विषयोंमें प्रवृत्ति बनती है तो कितना खेद होता है? चक्षुरिन्द्रियके विषयका बड़ा ही बेहूदा भोग है। पदार्थ दूर है और यह विषयानुरागी दूर हैं, कल्पनामें सुहावनारूप लग गया, रूप क्या है वहां? कोई उठाकर रखने की चीज है क्या? रूप कुछ अलग वस्तु है क्या? पदार्थमें एक शक्ल है, पर यहां न कोई उस रूपका ग्रहण कर सकता है, न उसका यह अधिकारी बन पाता है। दूरसे ही बैठा-बैठा एक कल्पनावोंका जाल बिछाया करता है। कर्णेन्द्रिय का विषय देखलो। बाह्यकी ओर दृष्टि ले जाते हैं, अपनी सुध भूल जाते हैं और कितनी ही आकुलताएं मचानी पड़ती हैं।

मायारूपसे निवृत्ति व परमतत्त्वमें वृत्ति॥यह दृश्यमान् समस्त जगत्, जगजाल मायारूप है। मायारूपको मायारूप दिख रहे हैं और ये आकुलित बने हुए हैं, और जो ये दृश्यमान् पदार्थ हैं ये सब विघटने वाले हैं। किनकी आशा करना? किसी भी प्रकारकी अटपट कल्पनाएं उठाना ये सब व्यापोह हैं, इनमें ही उलझा हुआ यह जीव आत्मीय विशुद्ध आनन्दका अनुभव नहीं कर सकता। जब तक हम आपकी यह दृष्टि न बने कि मैं देहसे न्यारा, रागादिकसे भी न्यारा, किसी भी इन्द्रियका जो विषय नहीं है ऐसा अमूर्त ज्ञानमात्र मैं आत्मा हूं। इसे कोई दूसरे व्यवहारीजन जानते नहीं हैं, जिस मुझको कोई दूसरा जानता नहीं है उस पर कोई भी अपना कुछ असर नहीं डाल सकता। इसने निन्दा कर दी, इसने गालियां दे दीं, ऐसा विकल्प यह कितना अपने आप पर बोझ लादा जा रहा है, जो जानता नहीं है वह मुझे कहेगा क्या? जो मुझे जानता है वह खुद ही अपने आपमें मग्न अथवा बुझ गया सा और अपनेमें जग गया सा, इस प्रकारकी स्थितिको लिए हुए हैं, वे मेरी निन्दा क्या करेंगे?

आत्माका जगमगस्वरूप॥मुझ आत्माका स्वरूप जगमग है, जग मायने ज्ञान, मग मायने आनन्द। जिस किसी भी पदार्थमें जो परिणमन होता है वह जगमग पद्धतिको लेकर होता है। जगमें उठता है और मगमें मग्न होता है। यह आत्मा ज्ञान द्वारा तो इतना उठ जाता है कि यह लोकालोकमें व्यापक हो जाता है, ऐसी विष्णुत्व प्रकृति है और आनन्दमें ऐसा मग्न हो जाता है कि सर्व ओरसे हटकर केवल स्वक्षेत्रमें ही मग्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ज्ञानकी पद्धति प्रसाररूपमें होती है। यद्यपि ज्ञानका परिणमन ज्ञानके आधारमें ही है, फिर भी अनुभवसे विचारो, ज्ञानकी पद्धति प्रसाररूपमें होती है और आनन्दकी पद्धति एक मग्नरूपमें होती है।

आत्मावलम्बनका यत्न॥यह मैं जगमगस्वरूप समस्त परवस्तुओंसे, परभावोंसे न्यारा केवल ज्ञानानन्दमात्र हूं। इस मेरेका देह भी नहीं, कुटुम्ब भी नहीं, वैभव भी नहीं, सम्पदा भी नहीं, यह तो केवल अपनी वृत्तियोंसे परिणमता हुआ स्वरूपमात्र है। इस प्रकारका अपने आपके सम्बन्धमें जब तक निर्णय और भावना न जगे तब तक हमें शान्तिका मार्ग न मिल सकेगा। बाह्यदृष्टि करके भिखारीपन ही भोगना पड़ेगा। एक आत्मस्वातंत्र्यकी दृष्टिसे ही वास्तविक आनन्द मिल सकता है।

इस जीवका कोई दूसरा न शरण है, न उद्धारक बन सकता है। हम प्रत्येक परिस्थितिमें दृष्टि सदैव धर्मकी ओर बनाएं। मैं ज्ञानस्वरूपमात्र हूं और एक शुद्ध जानन मेरा कार्य है, इस बातको कभी न भूलें तो इस परम आराधनाके प्रसादके कारण हमारा कल्याण निश्चित है।

**अप्येतन्मृगयादिकं यदि तत्र प्रत्यक्षदुःखास्पदम् ।
पापैराचरितं पुरातिभयदं सौख्याय संकल्पतः ॥
संकल्पं तमनुज्ञितेन्द्रियसुखैरासेविते धीधनैः ॥
धर्म्यं कर्मणि किं करोति न भवान् लोकद्वयक्षेयसि ॥२८॥**

पापकार्योंसे सुखकी आशाका खण्डन॥इस प्रकरणमें यह बताया जा रहा था कि धर्मसे सुख होता है और पापसे दुःख होता है। धर्मसे पाए हुए सुखको भोगना पड़ रहा है। सो भोगका भोग, धर्मका धात करके मत करो। ऐसा सुनकर इस प्रकरणमें एक जिज्ञासु यह प्रश्न करता है कि लोगों के तो यह बुद्धि लगी है कि धर्मसे ही क्या सुख होता है? सुख तो विषयों के सेवनसे, भोग भोगनेसे और अनेक कामोंसे सुख होता है। धर्मसे ही सुख होता है, यह क्यों कह रहे हैं? उस ही के समाधानमें यह श्लोक है तथा आगे भी कुछ छंद आयेंगे।

मोहमें हिंसानन्दादि रौद्रध्यान॥जगत्के मोही जीव चूंकि अनादि कालसे अपने शुद्ध आनन्दमय ज्ञानमात्र स्वरूपको नहीं जान पाये हैं और जो इस जीवमें गुण हैं श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र वे तो निरन्तर कुछ न कुछ काम करेंगे ही। सो जब नहीं जान पाया है निजका मर्म तो यह श्रद्धा ही करेगा किसी बाह्य पदार्थोंमें। और उन बाह्यपदार्थोंमें ही अपना ज्ञान बनायेगा और रमण भी वहीं करेगा। विवश है यह मोही जीव। जैसे ज्ञानी पुरुष ज्ञानके कार्य करनेमें विवश है। कहां से करे, भ्रम रहा ही नहीं। इस ही प्रकार अज्ञानी जीव अज्ञानमय कार्य करनेके लिए विवश है, कहां से करे, उसने ज्ञानप्रकाश पाया ही नहीं। तो इस प्रकार यह जीव अनादिसे अपने स्वरूपसे अपरिचित हैं, अतएव इसके नाना विकल्पजाल मच रहे हैं। यह जीव हिंसामें सुख मानता है, झूठमें आनन्द मानता है। चोरी करनेमें, कुशील सेवनमें और परिग्रहोंके जोड़नेमें आनन्द मानता है। यह आनन्द इसका रौद्रध्यान है। शिकार करना, दूसरे जीवोंको खाना, मारना यह यद्यपि प्रत्यक्ष दुःखका ठिकाना है। शिकारी लोग शिकारकी घटनावोंमें ही मर जाते हैं। कितना उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। पर दिलका बहलाव है उनका संकल्प ऐसा ही है और वे शिकारमें आनन्द मानते हैं।

परप्राणघातका अविवेक॥भला अपने शरीरमें एक कांटा भी चुभ जाय तो कितना क्लेश होता है, फिर उन पशु-पक्षियोंपर क्रूरतावश छुरी चला देना, गोली मार देना यह कितना अज्ञानता का काम है। इस जीवके कितना अज्ञानका अंधकार छाया है कि इसे दूसरे जीवोंकी करुणाका विचार नहीं रहता है और कैसा यह कलिकालका विधान सामने आया है कि पशु-पक्षियोंकी बात तो दूर जाने दो, जरासे मनमुटावमें कुछ थोड़े से पैसोंके सिलसिलेमें भी यह मनुष्य दूसरे मनुष्यका

घात कर डालता है ऐसी यह कलिकाल की एक जवानी है, जहां यह सब घोर पातक छाया हुआ है, और कष्टकी बात यह है कि पाप करते हुए यह जीव आनन्द मानता है। ये समस्त पाप वर्तमानमें भी क्लेश ही उपजाते हैं और आगामी कालमें भी क्लेश उपजाते हैं।

संकल्पपरिवर्तनकी आवश्यकता॥अरे यहां भी तो सर्वत्र संकल्पसे ही तो सुख हो रहा है। कहीं दूसरे के प्राण जाने से सुख नहीं आया है किन्तु उस प्रसंगमें एक कल्पना कर रखी है कि उससे मुझे सुख हो रहा है। हे आत्मन्! तू सर्वत्र केवल अपनी कल्पनाओंका धनी है, केवल अपनी ज्ञानवृत्ति का अधिकारी है। तेरा तो मात्र जानना है और विभावरूपसे परिणमते हुए भी जाननमें तेरा ही तेरे पास काम रहता है। अरे संकल्प ही तो कर रहा है ना। अरे उन संकल्पोंको छोड़ दे और जो सुखका कारण धर्म है, उसका संकल्प तू कर।

शुभसंकल्पका विवेक॥बच्चे लोग प्रीतिभोजका खेल खेलते हैं। पासमें ही ५-७ बालक बैठा लिए और उनको कंकड़ परोसकर कह दिया कि लो, यह गुड़ है, पत्तल परोस कर कह दिया कि लो यह रोटी है। छोटे कंकड़ लेकर परोस दिया और कह दिया कि लो ये चना है। इस प्रकारकी पंगत बच्चे लोग करते हैं। अरे वहां केवल संकल्प ही तो है। संकल्पसे ही वे खुश हो रहे हैं। तो जहां संकल्पका ही काम है वहां छोटी चीजके बजाय बड़ी चीजका संकल्प क्यों न कर लिया जाय? यहां देखो सभी कामोंमें इस जीवका संकल्प ही काम कर रहा है। यह जीव पापोंमें लग रहा है तो वहां भी संकल्प ही अपना बना रहा है और संकल्पोंसे ही पाप कर रहा है। पुण्य कार्य करता है तो भी यह अपना संकल्प ही बना रहा है और संकल्प से ही पुण्य कार्य कर रहा है। तो अब बजाय पापके संकल्पके पुण्यका संकल्प कर।

आत्माका परवस्तुपर अनधिकार॥परवस्तुवोंपर तेरा कुछ अधिकार नहीं है। तेरे संकल्पको कारण पाकर निमित्त-नैमित्तिक भावसे जो तेरे शरीरके अंग चले, उनका निमित्त पाकर जीवका प्राणघात हुआ। मूलमें तो हिंसा तेरे संकल्पमें हुई है, संकल्पसे ही तू खुश हो रहा है। तो अब अशुभ संकल्पको त्यागकर शुभ संकल्प क्यों नहीं करता? धर्मकार्यमें लगा। तू पापकार्यके प्रसंगमें भी केवल संकल्प-विकल्प कल्पना तर्क वितर्क विचारका धनी है, इसके आगे तू कुछ नहीं करता है, पापोंका बंध हो रहा है तो अपनेमें समस्त संकल्पोंको बदलकर एक धर्मकार्यमें क्यों नहीं लगा देता जिससे इस भवमें भी तुझे सुख हो और परलोकमें भी तुझे सुख हो।

धर्मरीतिमें स्नेहका परिवर्तन॥गृहस्थजन घरमें बड़े प्रेमसे रहते हैं, परस्पर पति पत्नी पुत्र सब राग भरी बात कहकर अपना प्रेम बढ़ाते हैं। इस प्रेमका परिवर्तन करके एक धर्मकार्यमें लौ लगाकर, पति पत्नी पुत्र सभी एक स्वाध्यायमें, धार्मिक भावनामें परस्परमें एक दूसरेको प्रेरित करके क्या इस प्रेमको बदल नहीं सकते? अरे जब रागभाव कर रहे हो वहां भी तुम केवल अपने अंतरङ्गमें एक राग भाव बनानेके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे हो और उस विषयका रागभाव तुझे पापका

बंध कर रहा है तो प्रेमको तो प्रेम बना रहने दो। प्रेम छूटने की बात नहीं कही जा रही है, किन्तु उस गृहस्थीके प्रेमको एक धर्मके प्रेमके रूपमें बदल दो तो वास्तविक प्रसन्नता समस्त घरको होगी। घरकी सुन्दर व्यवस्था भी धर्मके प्रसादसे होती है। धर्मभावना न हो तो अपने-अपने कषायोंके अनुसार सब उल्टे-उल्टे चलेंगे। एक धर्मसूत्रमें ये घरके सब सदस्य पिरोये हुए रहेंगे तो वहां लौकिक व्यवस्था भी सुन्दर रहेगी। धर्मका फल तो इस लोकमें भी उत्तम है और परलोकमें भी उत्तम है।

आनन्दकी चारित्र साध्यता॥भैया! आनन्द जो मिलता है वह अपने पुरुषार्थसे मिलता है। केवल गप्प जल्पवाद कर करके दिल बहला लेनेसे वह आनन्द नहीं आता। जो वस्तुका स्वरूप जाना है इस रूप अपना उपयोग स्थिर बनाएं। जिसका परिचय यह है कि कषाय मंद होगी, बाह्य परिग्रहोंसे विराम होगा। कुछ अपनी आत्मपरिणति आत्माके अनुकूल बनाएं तो शान्ति प्राप्त होगी। कोई बाबू साहब दिल्ली जा रहे थे तो पड़ौस की स्त्रियोंमें से किसी सेठानी ने आकर कहा, बाबू जी मेरे मुन्नाको खेलने का हवाई जहाज ले आना, किसी सेठानी ने कहा कि मेरे मुन्नाको खेलने को रेलका इंजन ले आना। सब ने अपनी-अपनी बात कही। एक गरीब बुढ़िया दो पैसे लेकर आयी और कहा बाबू जी, ये हमारे दो पैसे रखलो, हमारे मुन्ना को खेलनेका एक मिट्टीका खिलौना ले आना तो बाबू जी बोले मां! मुन्ना तो तेरा ही खेलेगा और सब सेठानियां तो गप्पें करके चली गईं। जैसे जिसने नकद दाम दिया है उसका ही मुन्ना खिलौना खेलेगा। ऐसे ही जिसने अपना यह पुरुषार्थ लगाया है, अपनी वृत्ति लगायी है, आनन्द उसे ही मिलेगा। केवल बातें कर लेने मात्रसे आनन्द प्राप्त नहीं होता है।

पापविरतिका कर्तव्य॥करना क्या है अपने आपको? सबसे निराले केवल ज्ञानस्वरूपको अनुभवना है। है बात ऐसी ही, इसलिए कहा जा रहा है। बात हो और भाँति और कर्तव्य बताया जाय और प्रकार तो वह कभी फिट नहीं बैठ सकता। जो पदार्थ जैसा है उस ही रूप करनेकी बात कही जा रही है, उसमें सफलता भी मिलेगी और शान्ति भी मिलेगी और भी देखो बड़े-बड़े पुण्यवान् पुरुष धर्मकार्यमें प्रवृत्त हुए हैं। हिंसा झूठ आदिक कार्योंमें उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई है। इन पापोंको तो अज्ञानी जन ही करके खुश हो रहे हैं। ज्ञानीजन तो एक धर्मकार्यके लिए ही उत्सुक रहा करते हैं। ग्रन्थोंमें भी विस्तृत वर्णन है कि पापके फलमें जीवोंने नरक आदि गतियां पायीं और यहां भी हम तकते हैं कि हिंसा करने वाले पुरुष सुखसे नहीं रह पाते हैं, वे भी दूसरे लोगोंके द्वारा मारे जाते हैं। झूठ बोलने वाले पुरुष लोगोंके विश्वासपात्र नहीं रहते। सत्यवादी पुरुष जनताको प्रिय रहते हैं क्योंकि सत्यवादीसे कभी धोखा नहीं हो सकता है। चोरको कोई अपने निकट भी नहीं बैठने देता। कुशीलसेवी पुरुष तो जगह-जगह बहुत आपत्ति सहता है और तनबल, मनबल, वचनबल सभी नष्ट कर देता है।

अणुविरतिमें अहिंसाणुविरति॥गृहस्थावस्थामें पांच पापोंका त्याग एकदेश रूपमें होता है जिसे कहते हैं अहिंसा अणुव्रत, सत्यअणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण

अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रतमें यह ज्ञानी गृहस्थ संकल्पी हिंसाका सर्वथा त्याग कर देता है। जिस ज्ञानी ने सब जीवोंका स्वरूप अपने समान जाना है और द्रव्यतः अपने से भिन्न जाना है उसको अन्तरमें कभी यह इच्छा नहीं हो सकती है कि मैं किसी दूसरे जीवका बुरा कर दूँ, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी होती है गृहस्थकी पदवी में कि कभी विरोधी हिंसा भी बनती है, उद्यम करता है, सो उद्यमी हिंसा भी बनती है। रसोई आदिक आरम्भ करता है सो आरम्भी हिंसा भी बनती है, लेकिन उन प्रवृत्तियोंमें भी गृहस्थके बड़ी सावधानी रहती है और उसका खेद रहता है। यह है गृहस्थका अहिंसा अणुव्रतका स्वरूप।

सत्यादि अणुव्रत॥यह गृहस्थ सत्य बोलता है। व्यापारमें, व्यवहार में इसके झूठकी प्रवृत्ति नहीं होती है। निश्चयसे आत्माके कार्यके प्रयोजनके अलावा अन्य जो कुछ भी वचन हैं वाहे यह जैसी बातें हैं वैसी ही हों, फिर भी असत्य कहलाती हैं किन्तु ऐसे असत्यका त्याग साधुओंके होता है। यह गृहस्थ आरम्भ व्यापारविषयक यथार्थ वचन बोलकर अपनी आजीविका का काम करता है। इस गृहस्थको केवल दो ही काम पड़े हुए हैं एक आजीविका, दूसरा जीवोद्धार। जिस काममें न आजीविकाका सम्बन्ध है और न जीवोद्धारका सम्बन्ध है उसे यह अनर्थ समझता है और उन अनर्थकी बातोंमें यह ज्ञानी गृहस्थ नहीं लगता है। अचौर्यअणुव्रतमें यह ज्ञानी गृहस्थ किसीकी चीजोंको चुराता नहीं है और अचौर्यव्रतसे रहता है। ब्रह्मचर्य अणुव्रतमें स्वदारा संतोषवृत्ति रहती है और परिग्रह परिमाण अणुव्रतमें परिग्रहका परिमाण रहता है। इन पञ्चअणुव्रतोंकी वृत्तियोंसे गृहस्थ रहे और अपना जो धार्मिक कर्तव्य है देवपूजन, गुरुकी उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान इन कार्योंमें भी अपनी शक्ति माफिक लगा रहे तो यह गृहस्थ ऐसा सुन्दर सुयोग पाएगा कि संसार-संकटोंसे बचेगा और आत्मानुभव यथा समय करके यह अपना जन्म सफल करेगा। जो पुरुष आचरण सही करते हैं, उन्हें आनन्द प्राप्त होता है।

दृष्टान्तमें एक लकड़हारेका अणुव्रत॥एक कथानक है कि एक धर्मस्थानमें रोज शास्त्र सभा होती थी। एक बार उस शास्त्रमें एक लकड़हारा भी पहुंच गया। उस दिन पण्डितजी व्याख्यान दे रहे थे पांचों प्रकारके पापोंके त्यागका। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पांचों प्रकारके पापोंसे क्या अनर्थ होता है? इसकी व्याख्या को सुनकर लकड़हारेने सोचा कि मैं और कुछ तो हिंसा करता नहीं। केवल हरी लकड़ी काटकर लाता हूँ, सो अब मैं हरी लकड़ी न काटूंगा, सूखी लकड़ी ही लाऊँगा। मैं झूठ तो कुछ बोलता न था, हां इतनी बात जरूर थी कि लकड़ीका गद्वा यदि ट आनेका होता है तो उसे १४ आनेसे ठहराना शुरू करता था। सो अब मैं इतना भी झूठ न बोलूँगा, जितनी कीमत लेना उचित होगा, उतने ही दाम बोलूँगा। चोरी में केवल कभी-कभी चुंगीके दो पैसे बचा लेता था, सो अब मैं उन्हें भी न बचाऊँगा। ब्रह्मचर्यके विषयमें वह सोचता है कि मैं कभी परस्त्रीकी ओर दृष्टि नहीं देता, इस ब्रह्मचर्य में मैं क्या करूँ कि अब अपनी स्त्रीसे भी ब्रह्मचर्य

रक्खूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की और परिग्रह परिमाणमें उसने यह हिसाब बनाया कि मैं आठ आने रोज कमाता हूं उसमें २ आने प्रतिदिन मैं दान करूंगा, ४ आनेसे सब घरका खर्च चलाऊँगा और दो आने पैसे इसलिए संचय करूंगा कि घरमें कभी विवाह काम काजका अवसर आये अथवा कहीं तीर्थयात्रा जाना पड़े तो उनमें खर्च करूंगा। इस प्रकार वह लकड़हारा बहुत आनन्दसे रहने लगा।

लकड़हारेकी व्रतपालनमें सफलता॥एक बार वह किसी बड़े सेठकी हवेलीके नीचे से निकला। होगा किसी बड़े धनिक पुरुषका वह मकान। रसोइयाको लकड़ी की जरूरत थी सो रसोइया नीचे आकर कहता है कि अरे लकड़हारे लकड़ी बेचोगे। हां...हां...बेचेंगे। कितनेमें दोगे? ट आनेमें देंगे। अरे ४ आनेमें दोगे क्या? नहीं। ६ आनेमें दोगे क्या? नहीं। ७ आनेमें दोगे क्या? नहीं। लकड़हारा जब कुछ आगे बढ़ गया तो रसोइयाने कहा, अच्छा-अच्छा लौट आवो। वह लौट आया तो वह रसोइया कहता है ७ आनेमें दो। तो लकड़हारा बोला कि तू किस बेईमानका नौकर है? मालिक सभी बातें सुन रहा था। सोचा कि खरीद तो रहा है यह नौकर और गाली दे रहा है हमें। लकड़हारेको सेठने बुलाया और पूछा कि तुम हमें बेईमान क्यों कहते हो? तो लकड़हारा बोला महाराज सुनो, हम आपकी शास्त्रसभामें एक दिन गए थे। वहाँ हमने पापके त्यागका उपदेश सुना। सारा किस्सा सुनाया, मैंने तो इस तरहसे सभी पापोंका त्यागकर दिया। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं शुरूसे ही ट आने कहता जा रहा था और जब बहुत दूर निकल गया तो इसने कहा अच्छा-अच्छा लौट आवो। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि आठ आने में ले लेंगे, पर जब लौट आया तो कहता है कि ७ आनेकी दोगे? तो मैंने यही अर्थ लगाया कि यह नौकर ऐसे ही वातावरणमें रहता है। जैसे वातावरणमें रहता है वैसा ही तो असर इस पर पड़ेगा, इसलिए मैंने यों बोल दिया। वह धनिक बड़ा प्रसन्न हुआ और लकड़हारेसे क्षमा मांग ली। बोला कि हम भूलपर थे, जो काम हमें करना चाहिए वह न करते थे।

दुर्विचार और सद्विचारमें विषाद और प्रसन्नता॥भला दूसरे मनुष्य को, जीवको आप कुछ गाली देना चाहें तो इसके लिए अंतरङ्गमें आपको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा? हिम्मत बनानी पड़ेगी, छाती भी धड़केगी, भय भी रहेगा, मुश्किलसे आप दूसरे को गाली दे पायेंगे। और उस गाली देने का परिणाम क्या होगा कि वह दूसरा भी गाली देगा, लड़ाई होगी। पता नहीं कितना अनर्थ हो जाय? किसीकी आप प्रशंसा करना चाहें तो बड़े खुश होकर आप प्रशंसाकी बात बोल सकते हैं। उसमें कोई क्लेश न होगा और दूसरा सुनकर भी बड़ा प्रसन्न होगा और सुनने वाले जितने लोग हैं उनकी भी दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी। पापकी बात संकल्पमें भी आये तभीसे कष्ट होने लगता है, फिर पाप करनेके साधनोंका संचय करें, वहाँ भी कष्ट होता है, पाप करें तब भी कष्ट होता है, पापके फलमें भी कष्ट होंगे। जो काम कष्टके लिए ही हो रहे हैं, कष्टकारी ही हैं उनमें क्यों रुचि करना? धर्म ही एक सुखका कारण है। इस कारण इस ग्रन्थमें धर्मधारणका उपदेश दिया है।

आचार्यदेवका सुगम सुकुमार उपदेश॥आचार्य गुणभद्र ने इन जीवोंको यह समझाया था कि हे जीव! तू सुख चाहता है और दुःखसे डरता है तो तेरे ही मनके माफिक मैं बात कहूँगा, जो सुख दे और दुःखसे दूर करे। घबड़ा मत। हे जीव! तुझे ऐसा उपदेश मिलेगा कि कहीं भी कष्ट न होगा। सब काम तुझे अपने भावमें ही करना है, फिर बाहरमें जो क्रियाएं होंगी वे तुझे सहज हो जायेंगी, होती रहेंगी। भावोंमें उत्तम बात लेना कोई कष्टकी बात नहीं है और ज्ञानका काम जानना है। किसी पदार्थ का हम विपरीत स्वरूप न जानें, सही स्वरूप जानलें। तुझे उसमें कोई कठिनाई है क्या? कुछ भी तो कष्ट नहीं है। धर्मका पालना बहुत ही सुगम और सुखकारी है और अधर्मका पालना, अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियां ये विषम हैं, कष्टकारी हैं, परन्तु मोहका विष ऐसा चढ़ा है कि धर्मकी अत्यन्त सुगम स्वाधीन बात भी इसे कष्टकारी लगती है और जो बात त्रिकाल भी नहीं की जा सकती है उसके कर्तृत्वमें, उसके भोक्तृत्वमें इसका संकल्प विकल्प बना हुआ है। तू यथार्थ ज्ञान कर अपने आत्मस्वरूपको संभाल, धर्मकी ओर रुचिकर। सुख धर्मसे ही प्राप्त होगा। उस धर्मसे प्राप्त हुए वर्तमान सुखको तू स्वच्छन्द होकर मत भोग, किन्तु धर्मदृष्टि रखकर धर्मकी रक्षा करते हुए इस सुखको भोग। इस प्रकार इस छन्दमें धर्मरक्षणके लिए उपदेश किया है। अपने धर्ममय स्वरूपको पहिचान और इस धर्ममय स्वरूपमें ही रमण करके भव-भवके संचित कर्मोंका विधंस कर दे।

**भीतमूर्तिर्गतत्राणा निर्दोषा देहवित्तिकाः ।
दन्तलग्नतृणा धन्ति मृगीरन्येषु का कथा ॥२९॥**

दयनीय स्थिति॥इस छन्दमें शिकार खेलने का पाप करने वालेकी क्रूरताका चित्रण किया गया है। जंगलमें हिरण्यियां जिनकी भयवान् तो मूर्ति है, तनिक भी पत्तोंकी आहटसे भय मानने वाले ये जानवर है और उस जंगलमें उनकी रक्षाका कोई साधन भी नहीं है, निर्दोष हैं हिरण्यियां, वे मांसाहारी भी नहीं होतीं, केवल घासफूस खाकर अपना पेट भरती हैं उन जंगलोंमें, जिन जंगलोंमें किसी की खेतीका भी नुकसान नहीं। अत्यन्त निर्दोष हिरण्यियां हैं, जिनका केवल शरीरमात्र ही धन है, और उन हिरण्यियों के पास क्या है? ऐसी घास खाती हुई हिरण्यियोंको शिकारी जन अचानक तीर या गोली मारकर उनके प्राण हरते हैं। वे हिरण्यियां अपने प्राण गंवा देती हैं। फिर अन्य प्राणियोंकी तो बात ही क्या करें? थोड़ासा मन बहलाने के लिए एक शिकार खेलनेमें कुछ मौज मानना, इसके लिए भोले जीवोंकी हत्या कर देते हैं तो उनका आशय कितना अज्ञानसे भरा और क्रूर होगा।

क्रूरतामें तरसका अभाव॥और भी देखो भैया! कितने ही छोटे विचारके, खोटे आचरणके लोग चूहोंको पकड़ कर उसकी पूछमें रस्सी बांधकर जलती हुई अग्निमें छोड़ते हैं, फिर उठाते हैं, फिर छोड़ते हैं। कैसा क्रूर आशय भरा हुआ है, उन जीव जन्तुवोंके प्रति रंच भी दयाका परिणाम नहीं होता। और भी अनेक घटनाएं ऐसी हैं बैलोंका भैसोंका कंधा सूज रहा है, लोहू भी चू रहा

है, फिर भी उन पर बहुत बोझ लाद देते हैं। नहीं चलते हैं तो चाबुक और अरई इत्यादिसे बड़ी कठिन वेदनाएं देते हैं। यह कथा और जीवोंकी है ऐसा भी ध्यान न लायें। यह कथा हम आप सबकी है। हम आप भी कभी उन पर्यायोंमें रहे होंगे और इस तरहकी वेदनाएं सही होंगी। मुर्गा, मुर्गी, सुअर आदि इन जानवरोंको तो कितने ही लोग पाल पोसकर यों ही जीवित आगमें फेंक देते हैं, कितनी निर्दयताके साथ उनका प्राणधात होता है, इस ओर थोड़ा भी उनके मनमें तरस नहीं आता है।

मोहनिद्राके स्वप्नमें हर्ष माननेका अनवकाश॥ अब समझिये कि हम आपने आज कितना उत्कृष्ट अवसर पाया है? यह अवसर तन, मन, धन, वचनको सर्वस्वको परिजनमें लगानेका नहीं है, यश प्रतिष्ठा आदिमें ममता करनेका नहीं है। यहां न चेते, और यही बेढ़ंगी रफ्तार बनी रही जो अनादिसे करते आये हैं तो इसका परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है, क्या होगा? अरे इस मकान, दुकान, धन वैभव सोना-चांदीमें क्या रक्खा है? इस देह झौंपड़ीसे निकलकर तू न जाने कहां पहुंचेगा? फिर क्या तेरे लिए यह नगर है और क्या यह समागम है? मोहकी नींदमें कुछ दिनों के लिए स्वप्न-सा आ रहा है। जैसे स्वप्नमें स्वप्नकी देखी हुई बात झूठ नहीं मालूम होती है, इसी प्रकार इस मोहनिद्रामें देखे जाने वाले ये दृश्य, ये घटनाएं, ये झूठ नहीं मालूम होते हैं। एक परमार्थस्वरूपकी संभाल करलो अन्यथा जो दशा सर्वसंसारी जीवोंकी हो रही है वही अपनी भी होगी। किसी भी विषय सुखमें, किसी भी अन्तर्वृत्तिमें हर्ष न मानें।

रौद्रध्यानकी भयंकरता॥ देखो रौद्रध्यान तो सुखको दे रहा है और आर्तध्यान दुःखको दे रहा है, फिर भी दुःख देने वाले आर्तध्यानसे सुख देने वाला यह रौद्रध्यान विकट भयंकर है। रौद्रध्यानके मौजमें मस्त हुआ यह जीव सप्तम नरकमें भी जन्म ले लेता है। रौद्रध्यान किसी न किसी प्रकार पंचम गुणस्थान तक ही रह पाता है और आर्तध्यान छठे गुणस्थान तक भी हो जाता है। रौद्रध्यान आर्तध्यानसे बहुत विषम और भयंकर है। हिंसा करते हुए आनन्द मानना यह शिकारियोंको बड़ा सस्ता मालूम हो रहा है, किन्तु इसका फल बड़ा कठिन होगा। दूसरा कोई उसके फलको भोगने न आएगा। मृषानन्द याने झूठ बोलनेमें, मौज मानना, किसीकी निन्दा करनेमें, किसीको झूठा दोष लगानेमें, अपयश फैलानेमें, असत्य वचनोंके बोलनेमें मौज मानी जा रही है, परन्तु हे यात्री! कुछ विराम ले, ठहर और अपनी इस खोटी धुनमें मत बह जा। अरे! सब जीवोंको अपने ही समान स्वरूप वाला जानकर कुछ तो चेत। किसके लिए हम झूठ बोलें, किसके लिए हम शल्य करें, इनसे तो खुदका ही अकल्याण है। इस प्रकार परधनहरण से, चोरीसे, डकैतीसे अथवा अन्य किसी प्रकारके छल कपटसे किसी पर अन्याय करना, धनसंचित करना, भले ही यह बहुत सस्ता मालूम हो रहा है, किन्तु इस प्रवृत्तिमें इस आत्माको अपनेसे बहिरुख कितना अधिक होना पड़ता है, मानो यह खुदमें रीता बन गया है, खुदमें कुछ नहीं है। एकदम यह सब उपयोग बाहरकी ओर लग जाता है।

ऐसी बहिर्मुखतामें यह संक्लेश भोगता है और भावी कालमें भी यह विकट संक्लेश भोगता है और भावी कालमें भी यह विकट संक्लेश भोगेगा ।

भूलकी चेतावनी॥भैया! यह धन वैभव तो साथ न रहेगा । मरते समय तो एक धागा तक भी साथ नहीं जाता । यह कमीज कोट पहिने हुए में मरे तो भी उससे क्या होता है? यह तो अमूर्त जैसा अपने स्वरूपमें है उस रूप ही यहां से निकल जाता है । कुछ अपनी भी स्मृति करो, कुछ स्व हितका भी ध्यान रखो, किसके लिए इतना परिश्रम किया जा रहा है? परिश्रम भी केवल कल्पनाका ही है । घरमें जो जीव बस रहे हैं उन सबका अपना-अपना उदय है । उनके उदयसे उनका सब कुछ हो रहा है, पर यह मोहीं प्राणी यों विकल्प कर रहा है कि मैं ही तो इन्हें पालता पोसता हूं, मैं ही यह समस्त कर्माई करता हूं । अरे! तू तो केवल अपना विकल्प बनाया करता है । घरके दूसरे प्राणियोंका उदय उनका उनके साथ है । तू उनके सुख के लिए निमित्त बनेगा ही, क्योंकि उनके टचमें तू है । व्यर्थ क्यों कल्पनाएं बनाकर भ्रम किया करता है? कुछ चेत और स्वहितके काममें भी लग । यों चार प्रकारका रौद्रध्यान इस जीवको निरन्तर आकुलित ही बनाए रहता है ।

क्रूरताकी तीव्रता॥इस प्रकरणमें शिकार खेलनेके पापका स्वरूप दिखाया है । देखो लौकिक पद्धति, जो राजा आदिक समर्थ पुरुष हैं वे भी भयवान्‌को नहीं मारते हैं । बड़े-बड़े पुरुष जिसके अधिकारमें लोकव्यवहार से यह समस्त प्रजा है, जिसे चाहे उसको दण्ड दे, मारे, कुछ करे, फिर भी जो भगभीत हो उसे नहीं मारते, और की तो बात क्या? युद्ध करते हुए कोई सुभट यदि भयवान् होकर हथियार त्याग दे, कुछ नम्र बनकर सामने आये तो सुभट भी उस पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन केवल एक दिन बहलानेमें मौज मानने वाले लोग ऐसी भीतमूर्ति हिरण्यियोंको भी मारते हुए कुछ भी अपनेमें अटक नहीं पाते हैं । देखो जगत्‌में जिसका कोई रक्षक न हो उसको कोई नहीं मारता है । लोग उस पर दया करते हैं । जो बेचारा असहाय है, उसे तो लोग सहायता देनेकी विधि बताते हैं, लेकिन एक केवल शिकारसे दिल बहलानेके भावसे अरक्षित जीवों पर जिनकी रक्षाका कोई साधन नहीं है, उन जीवों पर हथियार चलाए जाते हैं । ये पशु निर्दोष हैं, न ये किसीकी चोरी करते हैं, न किसीका कुछ हरण करते हैं । अरे केवल देहमात्र ही उनका धन है, फिर भी रौद्रध्यानी पुरुष ऐसे पशुओंको मारने में भी संकोच नहीं करते हैं । लोकमें यह प्रसिद्ध है कि कोई पुरुष दांतमें एक तृण लगाकर सामने आए तो उसे समर्थ पुरुष अभय देते हैं, क्षमा कर देते हैं, पर ऐसे निर्दोष दन्तलग्न तृण पशुओंको भी शिकारी पुरुष मार देते हैं । अन्यकी तो कथा ही क्या है? यों मौज मानते हैं पापमें, किन्तु इसके फल में तो उस कालमें भी क्लेश है और भविष्यकालमें भी क्लेश है ।

जिस प्रकार इस हिंसामें पाप है और फल भी इसका बहुत कठोर प्राप्त होता है॥ऐसे ही पैशून्य आदिकमें भी यह अवगुण है उन्हें भी त्यागें, इस बातको अब अगले छंदमें बता रहे हैं ।

**पैशून्यदैन्यदभास्तेयान्तपातकादिपरिहारात् ।
लोकद्वयहितमर्जय धर्मार्थ्यशः सुखायार्थम् ॥३०॥**

पैशून्यादिक परिहारका उपदेश॥हे भव्य! तू चुगली, दीनता, कपट, चोरी, असत्य आदिक पापोंका परिहार करके दोनों लोकमें हितका सम्पादन कर, धर्म प्रवृत्ति कर, धर्म अर्थ, यश और सुख के लिए। भले आचार विचारसे रहनेमें धर्म भी पलता है और धन भी आता है, यश भी बढ़ता है और सुख भी बढ़ता है। कुकर्मसे, असत्य प्रलापसे, दूसरोंकी पीड़ा करने से या छल कपट दीनता आदि करनेसे यह जीव न तो धर्मका ही पात्र है और न धन कमानेका ही पात्र होता है। कोई पुरुष झूठ बोलकर कुछ धन कमाले तो झूठ बोलनेसे धन नहीं कमाया। भले ही यह झूठ बोले, पर ग्राहकने तो इसे सच्चा जानकर ही पैसा दिया। कोई भी ग्राहक दुकानदारको झूठ जानता हो तो वह पैसा न दे सकेगा। तो वह जो कुछ आया है वह सच्चाईके कारण आया है और फिर जितना जो कुछ जैसे आना होता है, आता है। केवल असत्य व्यवहार करके पाप ही केवल कमा लिया जाता है। जितना हम अपना विशुद्ध ज्ञान बनाएं और अपनी प्रवृत्ति भी विशुद्ध बनाएं, यहीं तो हमारे लाभकी बात है।

परमविश्राममय क्रान्तिका संकेत॥भैया! न तो यथार्थज्ञान करनेमें कष्ट है और न ज्ञानानुसार अन्तरमें वृत्ति बनानेमें कष्ट है। कदाचित् कोई विषयसुख में बाधारूप कष्ट आता है तो यह उसे कष्ट माने तो भले ही माने, पर वह तो कुछ कष्ट है नहीं। अरे कुछ कल्पित बाधा आ गई तो आ जाने दो। वह तो सब कुछ बाह्यकी बात है, कहीं भी कष्ट नहीं है। मात्र ज्ञानकी शुष्क चर्चा करें हम और अन्तःक्रोध, मान, माया लोभ आदि कषायोंका परिहार न करें, उनको ग्रहण करते रहें, उनसे भिन्न केवल ज्ञानस्वरूपमात्र निज परमात्मतत्त्वका किसी भी क्षण अनुभव न कर पायें तो यह जिन्दगी क्या जिन्दगी है? यों तो पशु-पक्षी सभी जीवित रहा करते हैं। सब अपने-अपने पर्यायके अनुसार विषयसुख भोग कर सुख माना करते हैं, वही दशा इस मनुष्यभवमें भी हुई तो उन पशुओंसे और अपनेमें अन्तर बताने वाली बात क्या होगी?

दूरदर्शिता॥भैया! जब किसी दिन यह संसार ही छोड़ जाना है। बहुत दूरदर्शितासे देखो तो जब किसी दिन देह, द्रव्यकर्म, रागादिक भावकर्म, इन सबका परित्याग करके केवल रह जाना है, मुक्त हो जाना है तो फिर यहां कुछ छोड़ते हुए क्यों कष्ट माना जाय। जब आयुके अन्तमें ये सब मकान, दूकान वैभव सब कुछ त्याग करके जाना पड़ेगा तो जितने काल जीवन है उतने कालमें इन परद्रव्योंसे, धन वैभवसे ममता करके कौनसा लाभ लूट लिया जाएगा। अपना आचार विचार, ज्ञानप्रवर्तन कुछ आत्महितके लिए बनाएँ।

श्रावकोंके षट्कर्तव्योंमें देवपूजाका स्थान॥देखिए, श्रावकोंके कर्तव्य में जो ६ आवश्यक बताये गए हैं, उन ६ आवश्यक कार्योंमें न रहे कोई श्रावक तो उसकी दशा एक विचित्र हो जाती

है। जैसे बनारसीदास जी ने कहीं कहा है, यथा ऊँटका पाद वह स्थिति बन जाती है। इन ६ कर्तव्योंमें अपने हितका सम्बन्ध है इस पदवीमें, ध्यान तो लायें। देवपूजा-वीतराग सर्वज्ञदेव जिनके कि आत्माका शुद्ध विकास पूर्ण हो गया है, उनके इस सहज गुणका परिणतियोंका, इनके गुणोंका ही स्मरण, हमारा धर्म पापमलको दूर करनेमें समर्थ है। देखो पूजा तो सभी मनुष्य कर रहे हैं, फर्क इतना है कि कोई देवपूजा करता है तो कोई स्त्रीपूजा, कोई कुटुम्बपूजा, कोई दुकानपूजा, जिनका उपयोग जिसमें लगा है उसकी उपासना कर रहे हैं। न देवपूजा करें तो घरकी अटपटी पूजा करेंगे। और उत्तम बातमें मन न लगे तो भी जबरदस्ती करो, श्रद्धा तो है। देवपूजा श्रद्धा गुणको पुष्ट करने वाली क्रिया है।

गुरुसेवा॥दूसरा आवश्यक कर्तव्य है गुरुसेवा, गुरुजनोंकी सेवा करना। सेवा भी सभी कर रहे हैं, कोई नाती पोतोंकी सेवा, लड़कों की सेवा, स्त्रीकी सेवा, दुकानकी सेवा और जाने दो ग्राहकों की सेवा, दुकान पर ग्राहक आये, भला जिससे बहुत आशा हो, पान मंगाना, प्रेमसे बोलना अपनी गद्दी पर बैठाना, लो यह ग्राहकोंकी सेवा है। कौन सेवा नहीं कर रहा है। गुरुसेवा बहुत बड़ी विकट मालूम हो और यह सब मोहियोंकी सेवा सस्ती सुगम मालूम हो तो खुद ही अपने आपसे अन्तरमें उत्तर लो कि हम कुछ क्या भला कर रहे हैं? गुरुसेवामें चारित्रगुणकी वृद्धिका सम्बन्ध है। रत्नत्रयमें सम्यगदर्शन, सम्यगज्ञान और सम्यक्‌चारित्र ये गुण हैं ना। तो इन ६ कामोंसे इस ही की पुष्टि होती है, किस कामसे किस गुणकी मुख्यता पुष्ट है, यह भी साथमें परखते जाइए। गुरुसेवासे चारित्र गुणकी पुष्टि होती है।

स्वाध्याय॥जो पढ़ा-लिखा है वह कुछ न कुछ अध्ययन किए बिना रह नहीं सकता। अब वह चाहे स्वका अध्ययन करे और चाहे उपन्यास, कहानी, रोकड़ अखबार आदि-आदि और-और चीजोंका अध्ययन करे, पर पढ़े-लिखे लोग अध्ययन किए बिना रह नहीं सकते हैं। उन्हें तो चाहिए कुछ न कुछ पढ़नेको। अब भला बतलावो, ये ऋषि जनोंके वाक्य जिनमें उन्होंने बहुत बड़ी अध्यात्मसाधना और तपस्याएँ करके सारभूततत्त्वको स्पष्ट रख दिया है उसके अध्ययनका उत्साह न जगे और उपन्यास, कहानी, अखबार आदिक इनके लिए ही उत्साह जगे तो समझो कि हम क्लेशमार्ग पर जा रहे हैं।

संयम और तपका कर्तव्य॥संयम किसी जबरदस्तसे फँस जाये तो संयम करना ही पड़ता है। नम्र बनकर रहें, हाथ जोड़कर रहें, खाना-पीना भी छूट जाय और एक जगह पड़े हैं, पर स्ववश संयम नहीं किया जाता। परवश बहुत संयम हो जाता है। लंघनका, भूखे, प्यासे रह जानेका, ठण्ड गर्मी सह लेनेका ये परवश बहुत-बहुत संयम बन जाते हैं, पर स्ववश संयम नहीं किया जाता। स्ववश संयममें ज्ञानबल बढ़ता, आनन्द प्रकट होता है। तप इच्छावोंका निरोध करना तप है। अनेक इच्छाएं होती हैं और उन्हें कुचलकर दिल मसोस कर रह जाना पड़ता है। तप तो रोज-रोज सभी

लोग कर रहे हैं। भला किसकी इच्छा सफल हो पायी है? उन्हें दिल मसोसकर झक मारकर उदास बनकर बैठ जाना पड़ता है। बड़ी तपस्याएं करते हैं, पर ये सब परवशकी बातें हैं। स्ववश प्रसन्नताके साथ इच्छा चूंकि विभाव है, दुःखकारी है, इससे मुझे हटे रहना है ऐसा परिणाम रख कर सहज ही इच्छासे दूर रहना यह तप है।

दानका कर्तव्य॥दान यह भी प्रगतिका काम है। भला जिन जीवों का ख्याल करके हम पाप ही पाप कमाते हैं और श्रम विकल्प क्लेश ही क्लेश उठाते हैं उनके लिए तो यह कमाया हुआ समस्त धन भी लगानेका उत्साह जगे और दीन-दुखियोंके उपकार हित, हीन अन्य पुरुषोंके उपकारहित धन त्यागनेका भाव न बने तो बतावो कौन-सी भलाई उसमें है? एक कवि ने सबसे अधिक दानी कंजूसको मजाक करते हुए बताया है जो कंजूस न अपने लिए कुछ खर्च कर सके, न परिजन मित्रजनोंके लिए, न धर्मके लिए खर्च कर सके। खूब पूराका पूरा ही यह मरकर साराका सारा अपने लड़कोंको छोड़ जाता है, दे जाता है। देखो उसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया और साराका सारा धन दे दिया ऐसे पुरुषकी मौत बहुत बुरी होती है। जो न दानकर सके न भोग कर सके, ऐसी कृपणतामें मरते समय बहुत वेदना होती है, यह सोच-सोचकर कि हाय यह सब मुझे छोड़ जाना पड़ा।

पूर्व प्रतिपादनोंका संक्षेपमें सार॥भैया! इन ६ कर्तव्योंमें हमारा रत्नत्रयका सम्बन्ध है। उन्हें करें और अपने आपके इस मनुष्यजीवनको सफल करें। इस प्रथम रंगमें भूमिका और भूमिकाके बाद जो प्रतिपत्तव्य बताया है, वह यह है कि मेरा हित क्या है? इस अभिलाषासे ऋषि संतोंकी वाणी सुनें और हिंसा, शिकार, चुगली, कपट, दीनता, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, अन्याय आदि पापोंको त्यागकर पुण्यकार्य व धर्मकार्य करें, जिससे धर्म, अर्थ, यश, सुख सभीमें उन्नति मिले।

॥ इति आत्मानुशासन प्रवचन प्रथम भाग सम्पूर्ण ॥